



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 4—दिसम्बर 10, 2010 (अग्रहायण 13, 1932)  
No. 49] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 4—DECEMBER 10, 2010 (AGRAHAYANA 13, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 1

## [PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के  
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public  
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the  
Government of India]

## संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110069, दिनांक 2 नवम्बर 2010

सं. 12/3/2004-सं. प. एवं का. अ.--दिनांक 13/04/2009 की  
समसंख्यक अधिसूचना के अधिक्रमण में "सिगरेट और अन्य तम्बाकू  
उत्पाद (विज्ञापन निषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति तथा  
वितरण विनियम) अधिनियम, 2003" की धारा 25(1) और "सार्वजनिक  
स्थलों पर धूम्रपान निषेध नियमावली, 2008" के अन्तर्गत निम्नलिखित  
अधिकारियों को प्रत्येक के सामने दर्शाए गए क्षेत्र/तल पर कार्यवाही करने  
के लिए प्राधिकृत किया जाता है ताकि उपर्युक्त अधिनियम/नियमावली के  
प्रावधानों को संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय परिसर में लागू किया  
जा सके :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	बिल्डिंग	तल
1	2	3	4
1.	श्री राजीव श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव	नोडल अधिकारी (समग्र प्रभार)	

1	2	3	4
2.	श्री डी. एस. तरियाल, निजी सचिव, एवं श्री विक्रम नायर, निजी सचिव	मेन बिल्डिंग	भूतल
3.	श्री जी. राय, अवर सचिव	मेन बिल्डिंग	प्रथम तल
4.	श्री पी. जगदीशन, निजी सचिव एवं श्रीमती मंजुला सक्सेना, अवर सचिव	एनेक्सी बिल्डिंग	भूतल
5.	श्री दिनेश कुमार, अवर सचिव	एनेक्सी बिल्डिंग	प्रथम तल
6.	श्री धर्मवीर शर्मा, अवर सचिव	एनेक्सी बिल्डिंग	द्वितीय तल

1	2	3	4
7.	श्री बलजीत सिंह, अवर सचिव	एनेक्सी बिल्डिंग	तृतीय तल
8.	श्री डी. पी. एस. चौहान, उप सचिव	परीक्षा हॉल	
9.	श्री राम सिंह, डेस्क अधिकारी	आयोग सचिवालय	भूतल
10.	श्री सी. एल. भट्ट, अवर सचिव	आयोग सचिवालय	प्रथम तल
11.	श्री नीरज कुमार, अनु. अधि.	आयोग सचिवालय	द्वितीय तल
12.	डॉ. कुलबीर सिंह, संयुक्त निदेशक	आयोग सचिवालय	तृतीय तल
13.	श्री प्रदीप मेहता, वरि. प्रबन्धक (ईडीपी) श्रीमती सरिता तनेजा, अनु. अधिकारी	आयोग सचिवालय	चतुर्थ तल
14.	श्री ए. के. दहिया, प्रोग्रामर एवं श्री विजय सिंह, वरि. प्रोग्रामर	आयोग सचिवालय	पांचवा तल
15.	श्री जी. सी. गौड़, सुरक्षा अधिकारी	सभी सामान्य क्षेत्र जैसे केन्टीन, गेस्ट हाउस, और केन्द्रीय हॉल, ओपन ग्राउन्ड आदि विशेष तौर पर क्रम सं. 2 से 14 तक में उल्लिखित अधिकारियों के सामने नहीं दर्शाए गए क्षेत्र।	

राजीव श्रीवास्तव  
संयुक्त सचिव (प्रशा.)

नई दिल्ली-110069, दिनांक 19 अक्टूबर 2010

सं. ए-60011/13/09-आर टी आई सेल (प्रशा.)--सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (2) की शर्तों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के श्री एस. के. झा, उपसचिव (से. I) को उनके नाम के सामने दर्शाई गई विशिष्ट विषय वस्तु के संबंध में श्री वाई. पी. गुप्ता, संयुक्त सचिव के स्थान पर आगामी आदेशों तक एतद्वारा केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित करते हैं :--

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी का नाम	विषय वस्तु	अपीलीय प्राधिकारी का नाम
श्री एस. के. झा, उपसचिव (से. I) दूरभाष नं. 23098546 फैक्स नं. 23383766	अनुशासनिक मामले से संबंधित सभी मामले (आयोग को भेजे गए) जिसमें दीर्घशास्ति का अधिरोधन विहित है।	श्री राजेश, संयुक्त सचिव, (से. I) दूरभाष नं. 23073413 फैक्स नं. 23073413

दिनेश कुमार  
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 27 अक्टूबर 2010

सं. ए-60011/13/09-आर टी आई सेल (प्रशा.)--सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (2) की शर्तों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के श्री ए. के. मिश्रा, अवर सचिव (से. I) को उनके नाम के सामने दर्शाई गई विशिष्ट विषय वस्तु के संबंध में श्री पी. पी. नागरथ, अवर सचिव के स्थान पर आगामी आदेशों तक एतद्वारा केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित करते हैं :--

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी का नाम	विषय वस्तु	अपीलीय प्राधिकारी का नाम
श्री ए. के. मिश्रा, अवर सचिव (से. I) दूरभाष नं. 23387346	अनुशासनिक मामले से संबंधित सभी मामले (आयोग को भेजे गए) जिनमें ग्रुप 'ग' तथा 'घ' पदों के लिए लघु शास्ति तथा पेंशन कटौती का अधिरोधन विहित है।	श्री राजेश, संयुक्त सचिव, (से. I) दूरभाष नं. 23073413 फैक्स नं. 23073413

दिनेश कुमार  
अवर सचिव (प्रशा.)

नई दिल्ली-110069, दिनांक 25 अक्टूबर 2010

सं. ए-60011/13/09-आर टी आई सेल (प्रशा.)--सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(2) की शर्तों के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई विशिष्ट विषय वस्तु के संबंध में आगामी आदेशों तक एतद्वारा केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित करते हैं :--

क्रम सं.	केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी का नाम	विषय वस्तु	अपीलीय प्राधिकारी का नाम
1.	श्री दिनेश कुमार, अवर सचिव (प्रशा.) दूरभाष नं. 23381665 फैक्स सं. 23098552	संघ लोक सेवा आयोग के राजपत्रित तथा अराजपत्रित स्टाफ के सभी कार्यिक एवं स्थापना संबंधी सूचना अधिकार अधिनियम के मामले सहित प्रशा. लेखा तथा सतर्कता से संबंधित सूचना अधिकार अधिनियम के सभी मामले।	श्री राजीव श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव, (प्रशा. I, सा. सतर्कता एवं सू. अधि. अधिनियम) दूरभाष नं. 23386793 फैक्स नं. 23098552
2.	श्री मनोज श्रीवास्तव अवर सचिव (से.-II) दूरभाष नं. 23387358 फैक्स नं. 23098552	सेवा नियमों/विनियमों और उनमें संशोधन सं. लो.से.आ. (परामर्श से छूट) विनियमावली तथा सं. लो.से.आ. की सलाह/ अनुशंसाओं के लिए प्राप्त संदर्भों, सं.लो.से.आ. की वार्षिक रिपोर्ट, राज्य लोक सेवा आयोगों के सम्मेलन सहित विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों से प्राप्त संदर्भों से संबंधित नीति- गत मामले।	श्री राजीव श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव, (प्रशा. I, सा. सतर्कता एवं सू. अधि. अधिनियम) दूरभाष नं. 23386793 फैक्स नं. 23098552

के. एम. शशिधरन  
अवर सचिव (प्रशा.)

## केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 27 अक्टूबर 2010

सं. डीपी/पर्स-1/2010/69/11/5/2001--राष्ट्रपति, निम्नोक्त पुलिस उपाधीक्षक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को पदोन्नति पर प्रत्येक सामने उल्लिखित तारीख से अपर पुलिस अधीक्षक, के.अ.ब्यूरो, विशेष पुलिस स्थापना में सहर्ष नियुक्त करते हैं:--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	अपर पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्ति की तारीख
1.	श्री बासिल करकेट	5.10.2010
2.	श्री बलदेव सिंह डोगरा	1.10.2010

एस. जे. एम. गिलानी  
उप निदेशक (प्रशा.)

## गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 15 नवम्बर 2010

सं. ई-16013(1)/4/09/कार्मिक-1/भापुसे-111/244--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, श्रीमती मंजरी जारुहार, भा.पु.से. (झारखण्ड:1976) दिनांक 31/10/2010 के (अपराह्न) से विशेष महानिदेशक, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, नई दिल्ली के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

इन्द्रजीत कौर  
निदेशक/पुलिस

## महानिदेशालय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 10 नवम्बर 2010

सं. ओ.दो.-8356/2010-कार्मिक (सं.सहा.-5)--सरकारी सेवा से त्याग-पत्र स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप, श्री आर्दकि वेंकटेश, सहायक कमान्डेन्ट (प्रशिक्षु अधिकारी) (आई.आर.एल.ए.-8356) ने दिनांक 21/10/2010 (अपराह्न) में अपने पद का कार्यभार त्याग दिया है। तदनुसार इन्हें इस बल की नफरी से इसी तिथि से अर्थात् दिनांक 21/10/2010 (अपराह्न) से निकाले जाते हैं।

टी. चन्द्रशेखरन  
पुलिस उप महानिदेशक (कार्मिक)

सं. ए.छं.1/2010-कार्मिक (सं. सहा.-5)--राष्ट्रपति जी निम्नलिखित व्यक्तियों को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में वेतनमान रुपये 15,600-39,100/- (ग्रेड वेतन रु. 5,400/-) में सहायक कमान्डेन्ट के पद पर बल की समग्र नफरी में, अगले आदेश तक अस्थाई तौर पर सौहार्द नियुक्त करते हैं:--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	जॉइनिंग की तारीख
1	2	3
1.	बाबुलाल पारीख	25.08.2010 (अप.)
2.	सौरव सोमवंशी	29.08.2010 (पूर्व.)
3.	वीरेन्द्र सिंह राजपुत	25.08.2010 (अप.)

1	2	3
4.	अंशुतोश वारदे	25.08.2010 (अप.)
5.	सुजित कुमार झा	25.08.2010 (अप.)
6.	धमेन्द्र नारायण सिंह	26.08.2010 (अप.)
7.	विजय सिंह	25.08.2010 (पूर्व.)
8.	अशुतोश कुमार	26.08.2010 (अप.)
9.	अमित कुमार सिंह	25.08.2010 (अप.)
10.	चन्द्रशेखर सिंह कुशवाहा	25.08.2010 (अप.)
11.	वेलोट राम दंगी	26.08.2010 (पूर्व.)
12.	दामोदर सिंह	25.08.2010 (अप.)
13.	दिनेश	25.08.2010 (अप.)
14.	कु. कुमारी रंजिता	25.08.2010 (पूर्व.)
15.	अजित कुमार सिंह	26.08.2010 (अप.)
16.	सत्यवीर सिंह	25.08.2010 (अप.)
17.	विजय प्रकाश चौबे	25.08.2010 (अप.)
18.	कु. रेणुका दीपिका सोरंग	25.08.2010 (अप.)
19.	ओमप्रकाश विष्णोई	25.08.2010 (पूर्व.)
20.	विमल कुमार	25.08.2010 (अप.)
21.	ए विजु अनगामी	25.08.2010 (अप.)
22.	रामेश्वर सिंह राठौर	26.08.2010 (पूर्व.)
23.	अनिल कुमार	25.08.2010 (अप.)
24.	संजय कुमार झा	27.08.2010 (पूर्व.)
25.	ई इजिलारसु	25.08.2010 (पूर्व.)
26.	राधिका बिष्ट	25.08.2010 (अप.)
27.	अशुतोश सारंगी	25.08.2010 (अप.)
28.	दीपक कुमार सिंह	26.08.2010 (अप.)
29.	ओमप्रकाश खगट	29.08.2010 (पूर्व.)
30.	पंकज कुमार सिंह	24.08.2010 (अप.)
31.	जितेन्द्र कुमार यादव	25.08.2010 (अप.)
32.	अरविन्द सिंह रधुवंशी	27.08.2010 (पूर्व.)
33.	एस श्रीनिवासन	26.08.2010 (अप.)
34.	संजय शर्मा	25.08.2010 (पूर्व.)
35.	बसंत कुमार	26.08.2010 (अप.)
36.	ओमप्रकाश यादव	25.08.2010 (अप.)
37.	मनीष लोधा	25.08.2010 (अप.)
38.	शैलेन्द्र कुमार सिंह छंदेल	26.08.2010 (अप.)
39.	एस एन अशोक कुमार	25.08.2010 (पूर्व.)
40.	भुवनेश कुमार	25.08.2010 (पूर्व.)
41.	संजीव कुमार	25.08.2010 (अप.)
42.	नरेश प्रसाद यादव	26.08.2010 (पूर्व.)

1	2	3
43.	प्रमोद कुमार जोशी	25.08.2010 (अप.)
44.	कु. अंजना	25.08.2010 (पूर्व.)
45.	विकास बाबू	16.09.2010 (पूर्व.)
46.	सच्चिदानन्द पत्रा	25.08.2010 (अप.)
47.	प्रदीप डी टी	25.08.2010 (पूर्व.)
48.	चौधरी कलीमुल्ला	25.08.2010 (अप.)
49.	जोगेन्द्र कुमार पटेल	25.08.2010 (अप.)
50.	ब्रज भूषण कुमार	27.08.2010 (पूर्व.)
51.	राण सिंह	25.08.2010 (अप.)
52.	पुरुषोत्तम वर्मा	25.08.2010 (अप.)
53.	विश्व रंजन साहू	26.08.2010 (अप.)
54.	राज कुमार	25.08.2010 (अप.)
55.	सुमेश कुमार वी	25.08.2010 (अप.)
56.	चेतन प्रकाश	24.08.2010 (अप.)
57.	ए मुरुगावेल	25.08.2010 (अप.)
58.	जसबीर सिंह	26.08.2010 (अप.)
59.	ईश्वर लाल भैरवा	25.08.2010 (अप.)
60.	श्रीमती मीनावक्षी सिंह	25.08.2010 (अप.)
61.	अनिल कुमार	25.08.2010 (अप.)
62.	डी राजा ईलम पारिति	25.08.2010 (अप.)
63.	अजीत कुमार राम	25.08.2010 (अप.)
64.	सतीश कुमार	25.08.2010 (अप.)
65.	सुखविन्दर सिंह	25.08.2010 (अप.)
66.	अशोक कुमार	26.08.2010 (अप.)
67.	बुद्ध राम	28.08.2010 (अप.)
68.	राज कुमार चौधरी	25.08.2010 (अप.)
69.	गोपाल राम	26.08.2010 (अप.)
70.	कु. शान्ती किस्कु	25.08.2010 (अप.)
71.	गुरूचरण कालिनदीया	26.08.2010 (अप.)
72.	चन्दन गिधि	25.08.2010 (अप.)

2. उन्होंने के.रि.पु. बल, अकादमी कादरपुर, गुडगाँव में प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट कर दिया है और उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तारीख से सहायक कमान्डेन्ट पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

टी. चन्द्रशेखरन  
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

सं. ओ.दो-8340/2010-कार्मिक (सं. सहा.-5)--सरकारी सेवा से त्याग-पत्र स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप, श्री मुकुन्द कुमार, सहायक कमान्डेन्ट (प्रशिक्षु अधिकारी) (आई.आर.एल.ए.-8340) ने दिनांक 21.10.2010 (अपराह्न) में अपने पद का कार्यभार त्याग दिया है। तदनुसार इन्हें इस बल की नफरी से इसी तिथि से अर्थात् दिनांक 21.10.2010 (अपराह्न) से निकाले जाते हैं।

टी. चन्द्रशेखरन  
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

सं. ओ.दो-8420/2010-कार्मिक (सं. सहा.-5)--सरकारी सेवा से त्याग-पत्र स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप, श्री नीरज कुमार, सहायक कमान्डेन्ट (प्रशिक्षु अधिकारी) (आई.आर.एल.ए.-8420) ने दिनांक 15.10.2010 (अपराह्न) में अपने पद का कार्यभार त्याग दिया है। तदनुसार इन्हें इस बल की नफरी से इसी तिथि से अर्थात् दिनांक 15.10.2010 (अपराह्न) से निकाले जाते हैं।

टी. चन्द्रशेखरन  
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

सं. ओ.दो-8457/2010-कार्मिक (सं. सहा.-5)--सरकारी सेवा से त्याग-पत्र स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप, श्री अरविन्द कुमार बन्सोद, सहायक कमान्डेन्ट (प्रशिक्षु अधिकारी) (आई.आर.एल.ए.-8457) ने दिनांक 21.10.2010 (अपराह्न) में अपने पद का कार्यभार त्याग दिया है। तदनुसार इन्हें इस बल की नफरी से इसी तिथि से अर्थात् दिनांक 21.10.2010 (अपराह्न) से निकाले जाते हैं।

टी. चन्द्रशेखरन  
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

सं. ओ.दो-8409/2010-कार्मिक (सं. सहा.-5)--सरकारी सेवा से त्याग-पत्र स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप, श्री सोईबम गोकुलचन्द्र सिंह, सहायक कमान्डेन्ट (प्रशिक्षु अधिकारी) (आई.आर.एल.ए.-8409) ने दिनांक 21.10.2010 (अपराह्न) में अपने पद का कार्यभार त्याग दिया है। तदनुसार इन्हें इस बल की नफरी से इसी तिथि से अर्थात् दिनांक 21.10.2010 (अपराह्न) से निकाले जाते हैं।

टी. चन्द्रशेखरन  
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

दिनांक 15 नवम्बर 2010

सं. ओ.दो-3634/2010-कार्मिक--भारत सरकार ने श्री अनिरुद्ध उप्पल, भा.पु.से. (एच.पी. : 76) को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में वेतनमान रु. 75,500--80,000/- में, उनकी अधिवर्षिता की आयु पूरी होने तक या निदिनांक 30.09.2012 या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए विशेष महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया है।

2. तदनुसार, उक्त अधिकारी ने विशेष महानिदेशक, के.रि.पु. बल., का कार्यभार दिनांक 25.10.2010 (पूर्वाह्न) को महानिदेशालय, के.रि.पु. बल, नई दिल्ली में ग्रहण कर लिया है।

टी. चन्द्रशेखरन  
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार)

नई दिल्ली-3, दिनांक 29 अक्टूबर 2010

सं. ए-12012/4/अ.स.नि.(बीज.)/2010-प्रशा. II--इस निदेशालय के श्री धर्मपाल, तकनीकी अधीक्षक (बीजलेख) की वेतनमान 9,300--34,800/- रुपये, ग्रेड वेतन 4,800/- रुपये में अतिरिक्त सहायक निदेशक (बीजलेख) के पद पर 01 जुलाई, 2010 से अगले आदेशों तक पदोन्नति की गई है।

पी. के. सिंहल  
निदेशक

सं. ए-12012/4/अ.स.नि.(बीज.)/2010-प्रशा. II--इस निदेशालय के श्री प्रभु दयाल, बीजलेख सहायक की वेतनमान 9,300--34,800/- रुपये, ग्रेड वेतन 4,800/- रुपये में अतिरिक्त सहायक निदेशक (बीजलेख) के पद पर 10 सितंबर, 2010 से अगले आदेशों तक पदोन्नति की गई है।

पी. के. सिंहल  
निदेशक

महानिदेशालय  
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 15 नवम्बर 2010

सं. ई-16013/1/1/03/कार्मिक-2/246--प्रतिनियुक्ति से मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तन होने पर, श्री आर. के. मिश्र, भा.पु.से. (बिहार-86), महानिरीक्षक, के.औसुब ने दिनांक 01.11.2010 (पूर्वाह्न) को महानिरीक्षक, के.औसुब, प.ख, के पद से कार्यमुक्त हुए।

ह./- अपठनीय  
महानिदेशक/के.औसुब

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग  
कार्यालय : महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय)

नई दिल्ली-110002, दिनांक 22 नवम्बर 2010

सं. प्रशा.-I/का.आ. सं. 271--इस कार्यालय के श्री भुपाल सिंह रावत, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (रु. 15,600--39,100 + ग्रेड वेतन रु. 5,400/-) वार्धक्य की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप 30.11.2010 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

उनकी जन्म तिथि 12.11.1950 है और उनकी सरकारी सेवा आरम्भ की तिथि 23.09.1971 है।

ह./- अपठनीय  
निदेशक (प्रशासन)

प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हकदारी), आन्ध्र प्रदेश  
हैदराबाद-500 004, दिनांक 19 नवम्बर 2010

सं. प्रमले (ले. व ह.)/प्रशा.-I/I/8-88/2010-11/138--प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हैदराबाद ने निम्नलिखित सहायक लेखा अधिकारी को लेखा अधिकारी के रूप में स्थानापन्न के लिए रु.9,300--34,800/- (वे.बै.-2) रुपए के वेतन बैंड में रु. 5,400/- के संवर्ग वेतन के साथ उनके नाम के सम्मुख बताया गई प्रभावी तिथि से सहर्ष पदोन्नत किया है।

नाम	का.आ.स. व तिथि	कार्यभार ग्रहण की तिथि
पी विजया	सं. 82, तिथि 28.10.2010	28.10.2010 (पूर्वाह्न)

यह पदोन्नतियाँ के आदेश उनके वरिष्ठों के दावों, यदि कोई हो तो, पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले तथा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्युनल में लंबित रिट याचिकाओं के परिणाम के अधीन जारी किए जाते हैं।

स. सत्यनारायण  
उप महालेखाकार (प्रशासन)

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

नई दिल्ली-110011, दिनांक 16 नवम्बर 2010

सं. 10/1/2000-स्मारक--प्राचीन संस्मारक, पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियमावली, 1959 के नियम 6 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एतद्वारा यह निर्देश देते हैं कि प्राचीन संस्मारक, पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियमावली, 1959 की दूसरी अनुसूची में उल्लिखित केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों, पुरातत्वीय स्थलों एवं अवशेषों पर 19 नवम्बर, 2010 को विश्व-विरासत सप्ताह समारोह के अवसर पर कोई शुल्क न लिया जाये।

ए. के. सिन्हा  
निदेशक, (स्मारक)  
कृते महानिदेशक

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  
(दूरसंचार विभाग) बेतार अनुश्रवण संघटन

नई दिल्ली-62, दिनांक 19 नवम्बर 2010

सं. ए-32012/2/10-प्रशा./2711--भारत सरकार के संचार एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में बेतार सलाहकार एतद्वारा संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग के बेतार अनुश्रवण संघटन के लेखाकार, श्री के. पी. हरिदासन को संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग के बेतार अनुश्रवण संघटन में दिनांक 06.10.2010 से आगामी छः माह की अवधि या जब तक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर कोई उम्मीदवार नियुक्त नहीं हो जाता, इसमें से जो भी पहले हो तब तक के लिए वेतन बैंड-2 में 9,300--34,800/- रु. + 4,600/- रु. के ग्रेड वेतन में प्रशासनिक अधिकारी (श्रेणी "ख" राजपत्रित) के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

उन्हें प.क्षे.मु. मुंबई में तैनात किया जाता है।

अशोक कुमार नरुला  
उप निदेशक

परमाणु ऊर्जा विभाग

क्रय और भंडार निदेशालय

मुंबई-400094, दिनांक 8 नवम्बर 2010

सं. क्रभनि/07007/भर्ती/5321--निदेशक, क्रय और भंडार निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, ने श्री शशीकांत जी. गायकवाड़, आशुलिपिक ग्रेड-I (वेतन बैंड-2, रु. 9,300--34,800 + ग्रेड वेतन रु. 4,200/-), केंद्रीय क्रय एकक, मुंबई, को दिनांक 2 नवम्बर, 2010 (अपराह्न) से अगले आदेश तक उसी एकक में निजी सचिव (गैर सचिवालय) (वेतन बैंड-2, रु. 9,300--34,800 + ग्रेड वेतन रु. 4,600/-) के पद पर नियुक्त करते हैं।

कैथरीन राज  
प्रशासन अधिकारी-III

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र

हैदराबाद-500062, दिनांक 4 नवम्बर 2010

सं. नाईस/काप्रभ.I/04/06/1177--अधिसूचना क्रमांक नाईस/काप्रभ-I/04/06/1081 दिनांक 05.10.2010 के क्रम में श्रीमती डी. विजयंती माला, सहायक लेखाकार को रु. 4,800/- के ग्रेड पे सहित रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड में स्थानापन्न सहायक लेखा अधिकारी के रूप में तदर्थ नियुक्ति को दिनांक 30.11.2010 या भावी आदेश होने तक जो भी पूर्वघटित हो, बढ़ाया जाता है।

के. पी. एस. पिल्लई  
प्रशासनिक अधिकारी

सं. एनएफसी/काप्रभ.I/04/06/1178--अधिसूचना क्रमांक एनएफसी/काप्रभ-I/04/06/1079 दिनांक 05.10.2010 के क्रम में श्री वी. भरत भूषण, सहायक लेखाकार को रु. 4,800/- के ग्रेड पे सहित रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड में स्थानापन्न सहायक लेखा अधिकारी के रूप में तदर्थ नियुक्ति को दिनांक 23.11.2010 या भावी आदेश होने तक जो भी पूर्वघटित हो, बढ़ाया जाता है।

के. पी. एस. पिल्लई  
प्रशासनिक अधिकारी

सं. एनएफसी/काप्रभ.I/04/06/1179--अधिसूचना क्रमांक एनएफसी/काप्रभ-I/04/06/1080 दिनांक 05.10.2010 के क्रम में श्रीमती पी. वी. एस. फनी श्री, सहायक लेखाकार को रु. 4,800/- के ग्रेड पे सहित रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड में स्थानापन्न सहायक लेखा अधिकारी के रूप में तदर्थ नियुक्ति को दिनांक 30.11.2010 या भावी आदेश होने तक जो भी पूर्वघटित हो, बढ़ाया जाता है।

के. पी. एस. पिल्लई  
प्रशासनिक अधिकारी

दिनांक 19 नवम्बर 2010

सं. नाईस/काप्रभ.II/पदों 10/892--राष्ट्रपति, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/अभियंता ग्रेड 'एफ' को वेतन बैंड रु. 37,400--67,000/- तथा ग्रेड वेतन रु. 8,900/- में वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता 'जी' के ग्रेड में 01.07.2010 से स्थानापन्न हैसियत में, इसी इकाई में, अगले आदेश जारी होने तक सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	नाम
	सर्वश्री/श्रीमती/कुमारी
1.	डी. विजय कुमार
2.	बी. गोपीनाथ राव
3.	के. मुरली कृष्णा
4.	जे. के. राउत
5.	वाई. विश्वनाथ
6.	दीपक मोहन्ती
7.	एस. हरिलिंगम
8.	जॉन्सन डिसूजा
9.	बी. कमलेश कुमार
10.	के. एस. लक्ष्मी
11.	एस. के. पाठक
12.	जे. वी. राज कुमार
13.	एम. राजश्री
14.	एम. वी. रमणा
15.	आर. वी. आर. एल. विश्वेश्वर राव
16.	ए. वेणुगोपाल रेड्डी
17.	शबीना बेगम
18.	एस. वी. वेंकटेश्वरन
19.	टी. विजय कुमार

के. पी. एस. पिल्लई  
प्रशासनिक अधिकारी-III

कार्यालय मुख्य वास्तुक (न. दि. क्षे.)

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 29 अक्टूबर 2010

सं. 27/16/88-मु.वा.(न.दि.क्षे.)--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप श्री अशोक कुमार मलिक, वरिष्ठ वास्तुक, केलोनिवि, दिनांक 31 अक्टूबर 2010 के अपराह्न में मुख्य वास्तुक (नई दिल्ली क्षेत्र)

कार्यालय से सरकारी सेवाओं से सेवानिवृत्त होते हैं। दिनांक 30 व 31 अक्टूबर 2010 को क्रमशः शनिवार व रविवार का सरकारी अवकाश है।

विजय प्रकाश राव  
सम्पर्क अधिकारी मु.वा. (न.दि.क्षे.)

कम्पनी कार्य मंत्रालय

कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एआरए वेली गोल्फ एण्ड कन्ट्री क्लब प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 3 जुलाई 2010

सं. 560(5)/044288--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एआरए वेली गोल्फ एण्ड कन्ट्री क्लब प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

ई. टिरकी  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स ए. एम. नायर एण्ड एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 3 जुलाई 2010

सं. 560(5)/044973--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ए. एम. नायर एण्ड एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

ई. टिरकी  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स एमको चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 3 जुलाई 2010

सं. 560(5)/044302--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एमको चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

ई. टिरकी  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स एसीडब्ल्यू चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 3 जुलाई 2010

सं. 560(5)/047085--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एसीडब्ल्यू चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

ई. टिरकी  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स कर्म चन्द एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 16 नवम्बर 2010

सं. 560(5)/041801--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कर्म चन्द एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

ई. टिरकी  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स इन्टरलॉक स्पेसवेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 15 सितम्बर 2010

सं. 560(3)/एमसीए/आरओसी/दिल्ली-सीजीओ/धारा 560/2010/00116--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स इन्टरलॉक स्पेसवेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आत्मा साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स गाइरो इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 सितम्बर 2010

सं. 560(5)/038797--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स गाइरो इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट

दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

आत्मा साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स कलकोम एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 4 अक्टूबर 2010

सं. 560(5)/042642--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कलकोम एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

आत्मा साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स एडलर ओवरसीज़ प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 13 अक्टूबर 2010

सं. 560(3)/एमसीए/आरओसी/दिल्ली-सीजीओ/धारा 560/2010/00031--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स एडलर ओवरसीज़ प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आत्मा साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स एडलर ओवरसीज़ प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 13 अक्टूबर 2010

सं. 560(5)/042203--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एडलर ओवरसीज़ प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

आत्मा साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स सनराईज़ ब्रेवरीज़ लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 23 अक्टूबर 2010

सं. 560(5)/060932--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सनराईज़ ब्रेवरीज़ लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

आत्मा साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स ब्ल्यू स्काई फार्मा लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 23 अक्टूबर 2010

सं. 560(5)/060933--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ब्ल्यू स्काई फार्मा लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

आत्मा साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स सनाथन गौरव चलचित्र संस्थान प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 28 अक्टूबर 2010

सं. 560(3)/एमसीए/आरओसी/दिल्ली-सीजीओ/धारा 560/2010/00220--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स सनाथन गौरव चलचित्र संस्थान प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आत्मा साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स ए. एफ. फिनलीज़ प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 10 नवम्बर 2010

सं. 560(3)/एमसीए/आरओसी/दिल्ली/सीजीओ/धारा 560/2010/00575--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के



अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स ए. एफ. फिनलीज़ प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आत्मा साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स ब्राऊनी लीज़िंग एण्ड फाईनैस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 अक्टूबर 2010

सं. 560(3)/एमसीए/आरओसी/दिल्ली/सीजीओ/धारा 560/2010/00117--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स ब्राऊनी लीज़िंग एण्ड फाईनैस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

अशोक कुमार बहल  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स आधार इन्फोटेक रिसर्च प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 अक्टूबर 2010

सं. 560(3)/एमसीए/आरओसी/दिल्ली/सीजीओ/धारा 560/2010/00111--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स आधार इन्फोटेक रिसर्च प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बी बी इंडस्ट्रियल कन्सल्टेंट्स एण्ड इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 2 नवम्बर 2010

सं. 560(3)/एमसीए/आरओसी/दिल्ली/सीजीओ/धारा 560/2010/00023--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स बी बी इंडस्ट्रियल कन्सल्टेंट्स एण्ड इंजीनियर्स

प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स अतिनिव फाईनैशियल सर्विसेस लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 8 नवम्बर 2010

सं. 560(3)/एमसीए/आरओसी/दिल्ली/सीजीओ/धारा 560/2010/00127--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स अतिनिव फाईनैशियल सर्विसेस लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

अनीता क्लेर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

जयपुर-302001, दिनांक 18 नवम्बर 2010

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560(5)/1214--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज कंपनियों के रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी गई हैं :-

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	001899	मैसर्स जगेटिया पेपर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	002126	मैसर्स मधुवन एग्रो केमिकल्स लिमिटेड
3.	002258	मैसर्स मधुवन सुपर फोस्फेट मैनुफैक्चरिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	002392	मैसर्स मृदुला स्टील एण्ड वायर्स लिमिटेड
5.	002791	मैसर्स कम्प्यूटर एण्ड मैनेजमेंट सर्विसेज़ प्राईवेट लिमिटेड
6.	003441	मैसर्स आर. के. फ़ैब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	004348	मैसर्स एम. ए. सादरीवाला ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
8.	005987	मैसर्स स्कॉट मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
9.	006864	मैसर्स भातर वायर्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	007519	मैसर्स मोर सिक्कूरिटीज़ प्राईवेट लिमिटेड
11.	007731	मैसर्स थार लैण्ड्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
12.	007822	मैसर्स अदिति ग्रेनाईट्स प्राईवेट लिमिटेड	46.	017398	मैसर्स न्यू लाईन सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
13.	008005	मैसर्स आर. के. गल्वेनिसिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड	47.	017854	मैसर्स बी. एल. हाईब्रिड सीड्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	008918	मैसर्स मानक एग्रोटेक प्राईवेट लिमिटेड	48.	017884	मैसर्स स्टेप 2 डिजाइन्स प्राईवेट लिमिटेड
15.	009214	मैसर्स गोमतेश्वर फाईनैस एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड	49.	017915	मैसर्स जेन्नी फार्मा प्राईवेट लिमिटेड
16.	009216	मैसर्स नोवल्टी मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड	50.	018620	मैसर्स भव्य हैण्डिक्राफ्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
17.	010109	मैसर्स मेटफिन फाईनैस लिमिटेड	51.	018621	मैसर्स यश हैण्डिक्राफ्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
18.	010130	मैसर्स गुडरिक मिनरल्स एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	52.	018977	मैसर्स यू आर मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
19.	010156	मैसर्स कौशिक बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड	53.	019262	मैसर्स सुहानी जेम्स प्राईवेट लिमिटेड
20.	010242	मैसर्स थाइकोन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड	54.	019415	मैसर्स श्री श्याम सोलवेन्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
21.	010286	मैसर्स जी एम हाई टेक प्राईवेट लिमिटेड	55.	019622	मैसर्स आयुशदीप कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
22.	010546	मैसर्स माया स्पिनफेब लिमिटेड	56.	020084	मैसर्स जेसलगाढ़ होटल्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
23.	010782	मैसर्स रिषभ ओवरसीज़ प्राईवेट लिमिटेड	57.	020100	मैसर्स बिलवाल रीयल एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
24.	010992	मैसर्स वेलबिल्ड कॉम्प्लेक्सेज़ प्राईवेट लिमिटेड	58.	020159	मैसर्स जोधपुर सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
25.	011642	मैसर्स रमेश केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	59.	020162	मैसर्स प्रेस्टिंज सिविल प्रोजेक्ट्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
26.	011842	मैसर्स ए. वी. कम्प्युनिकेशन प्राईवेट लिमिटेड	60.	020344	मैसर्स अलफ्रेड प्लेसमेंट सर्विसेज़ प्राईवेट लिमिटेड
27.	013589	मैसर्स मंगला माइनकेम प्राईवेट लिमिटेड	61.	020377	मैसर्स आप्रपाली पोलीमर्स प्राईवेट लिमिटेड
28.	013696	मैसर्स रेखाश्री मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड	62.	020775	मैसर्स सज्जन मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड
29.	013791	मैसर्स हल्वान मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	63.	020786	मैसर्स सेफलाइट सोलर इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
30.	013962	मैसर्स रेड एण्ड व्हाइट फूड प्राईवेट लिमिटेड	64.	020810	मैसर्स लार्जंस मेडीसर्वे प्राईवेट लिमिटेड
31.	014001	मैसर्स सुरवी एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	65.	020971	मैसर्स कॉस्मोपोलीटन हैण्डिक्राफ्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
32.	014352	मैसर्स मंगलम डेयरी प्राईवेट लिमिटेड	66.	021101	मैसर्स ओब्सेसन मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
33.	014566	मैसर्स सेठी सॉफ्टवेयर एण्ड सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड	67.	021412	मैसर्स पी. एस. प्राइम डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
34.	014606	मैसर्स श्री आदिनाथ प्रोजेक्ट फाईनैस एण्ड मैनेजमेंट कन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड	68.	021515	मैसर्स वेलीव्यू कॉलोनार्जर्स प्राईवेट लिमिटेड
35.	014681	मैसर्स फतेह फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड	69.	021763	मैसर्स लिंकवे शोपी इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
36.	014811	मैसर्स एच. पी. ऑफसेट प्राईवेट लिमिटेड	70.	021856	मैसर्स मीनाक्षी इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
37.	015871	मैसर्स काला संगम आर्ट एण्ड क्राफ्ट प्राईवेट लिमिटेड	71.	021956	मैसर्स भगत ड्रीम्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
38.	015999	मैसर्स चेन्नई मार्बल प्राईवेट लिमिटेड	72.	022021	मैसर्स लक्ष्मी नारायण लेगसी मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड
39.	016257	मैसर्स भगवती शेयर ब्रोकर्स प्राईवेट लिमिटेड	73.	022052	मैसर्स जयपुर फार्माकेम प्राईवेट लिमिटेड
40.	016448	मैसर्स वेबस्थल इन्फोसिस प्राईवेट लिमिटेड	74.	022126	मैसर्स तिरुपति एडमीडिया प्राईवेट लिमिटेड
41.	016487	मैसर्स लाइफ लाइन डॉट कॉम प्राईवेट लिमिटेड	75.	022247	मैसर्स मीरेन ट्रेड कंसलटेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
42.	016535	मैसर्स एवोन इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड	76.	022281	मैसर्स गेलेक्सीस्टार कंसलटेन्ट्स एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
43.	016690	मैसर्स कैलाश टेक सर्विसेज़ प्राईवेट लिमिटेड	77.	022442	मैसर्स फाइनमेट सिन्थेटिक प्राईवेट लिमिटेड
44.	016897	मैसर्स कैप्टेन आर्ट्स एण्ड क्राफ्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	78.	022445	मैसर्स विस्डम लेब्स प्राईवेट लिमिटेड
45.	017196	मैसर्स चन्नी होटल एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	79.	022678	मैसर्स नोहल कंसलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
			80.	022704	मैसर्स सतक्षी इनक्लेव प्राईवेट लिमिटेड
			81.	022749	मैसर्स सन मून स्टोन्स प्राईवेट लिमिटेड
			82.	023204	मैसर्स सोंग कॉस्मेटिक्स एण्ड इक्विपमेंट इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
83.	023604	मैसर्स दिया ग्रेनाईट्स प्राईवेट लिमिटेड
84.	024179	मैसर्स लक्ष्य कृष्णा ज्वेल्स प्राईवेट लिमिटेड
85.	023828	मैसर्स अम्बे कृपा डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
86.	024460	मैसर्स लव कुश फैशन प्राईवेट लिमिटेड
87.	024615	मैसर्स पण्डित बिल्डएस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
88.	024712	मैसर्स एम्हार पैलेस रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
89.	024812	मैसर्स लाईफस्कॉट बायोटेक प्राईवेट लिमिटेड
90.	024846	मैसर्स रीयल सीमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
91.	024948	मैसर्स राजपूताना रूरल ट्यूरिज्म प्राईवेट लिमिटेड
92.	024967	मैसर्स श्रीएम टेलीकम्यूनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
93.	025727	मैसर्स अनन्त बिल्डटेक प्राईवेट लिमिटेड
94.	026164	मैसर्स मत्स्य एनर्जी सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड
95.	006115	मैसर्स शेखावाटी हॉस्पिटल एण्ड मेडिकल रिसर्च सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड
96.	021197	मैसर्स विनायक बायोटेक फार्मा प्राईवेट लिमिटेड
97.	002559	मैसर्स श्रीयान्स एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
98.	023210	मैसर्स वेल सेट इन्वोयर्स कन्सलटेन्सी एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
99.	008631	मैसर्स ए. के. सी. एल. एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
100.	016468	मैसर्स व्यास सॉफ्ट टेक प्राईवेट लिमिटेड
101.	003817	मैसर्स अवध प्लांटेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
102.	015138	मैसर्स कान्हा राम इलेक्ट्रिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
103.	021304	मैसर्स परसेप्ट एजुकेशन प्राईवेट लिमिटेड

एस. पी. कुमार  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

चण्डीगढ़, दिनांक 12 नवम्बर 2010

सं. आरओसी/560(5)/2010—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित

कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :—

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	30291	मैसर्स ओ. सी. ए. एजुकेशन प्राईवेट लिमिटेड
2.	29922	मैसर्स बी. पी. ओ. इंटेलिजेन्स एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
3.	29846	मैसर्स ओ. सी. ए. कंसलटिंग ग्रुप प्राईवेट लिमिटेड
4.	26449	मैसर्स आऊटडोर पब्लिसिटी सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
5.	25068	मैसर्स आई. सी. नेटकॉम सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
6.	11667	मैसर्स तहल सिंह फाईनान्स कं. प्राईवेट लिमिटेड
7.	16811	मैसर्स खान इस्पात प्राईवेट लिमिटेड
8.	13986	मैसर्स लेबरटैक ग्रॉफिक्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	25325	मैसर्स आलब्राइट इम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	26216	मैसर्स ग्रीन फार्म्स फर्टिलाइज़र्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	30853	मैसर्स गिल ब्लोमास पावर जनरेशन कं. प्राईवेट लिमिटेड
12.	13788	मैसर्स ऐमसन शूज़ प्राईवेट लिमिटेड
13.	28428	मैसर्स गोयल मैकेनिकल वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	16117	मैसर्स एस. ए. पी. फाईनेशियल कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
15.	27986	मैसर्स वस्सु ऑयल मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	28989	मैसर्स जस एग्जीबिटर्स प्राईवेट लिमिटेड
17.	24914	मैसर्स अल्फोन्सो क्यूसाईन्स एण्ड इन्टरटेनमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
18.	07157	मैसर्स मथारू इंजीनियरिंग सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
19.	16244	मैसर्स धूरी फाईनान्स एण्ड डिपोजिट्स प्राईवेट लिमिटेड
20.	21887	मैसर्स एच. डी. एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
21.	05607	मैसर्स न्यू ऐज मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
22.	23939	मैसर्स स्पॉनट्रेनियस ट्रेवल सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
23.	13663	मैसर्स गुरजन बैलटिंग प्राईवेट लिमिटेड
24.	08275	मैसर्स बंसल सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
25.	14804	मैसर्स हिम्बा इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
26.	14805	मैसर्स सिमरन इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
27.	26498	मैसर्स फते सिक्कोरिटी सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड	57.	23352	मैसर्स लियो टूल्स प्राईवेट लिमिटेड
28.	29547	मैसर्स अंचित टेलीकॉम प्राईवेट लिमिटेड	58.	14321	मैसर्स आर. पी. सिथेंटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
29.	13374	मैसर्स हंस फोरजिंग प्राईवेट लिमिटेड	59.	21437	मैसर्स सन्धु स्पिनटैक्स प्राईवेट लिमिटेड
30.	08989	मैसर्स बी. जी. फाईनांसर्स लिमिटेड	60.	26106	मैसर्स नवकार टायर्स प्राईवेट लिमिटेड
31.	26480	मैसर्स आई. सी. मैक अबाक्स एकेडमी इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड	61.	28148	मैसर्स अल्टीमेट शूज़ एण्ड गारमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
32.	21309	मैसर्स बनी एन्टरप्राइसिस प्राईवेट लिमिटेड	62.	24884	मैसर्स सेनशयोर इम्मीग्रेशन प्राईवेट लिमिटेड
33.	25651	मैसर्स कम्पोज़िट प्लेसमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	63.	04346	मैसर्स रिनाईस ड्रग हाऊस प्राईवेट लिमिटेड
34.	30392	मैसर्स एटलस हरबज प्राईवेट लिमिटेड	64.	16955	मैसर्स एस ए बी फाईनेंशियल रिकन्सट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
35.	25942	मैसर्स किड्स केयर एजुकेशनल एकेडमी प्राईवेट लिमिटेड	65.	25366	मैसर्स ऋषि ओमेगा लॉटरी सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
36.	04542	मैसर्स लानौड टी इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड	66.	23920	मैसर्स सम्राट स्पोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
37.	15351	मैसर्स कमल फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड	67.	29689	मैसर्स गुरदित रीयल एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
38.	25386	मैसर्स सत्या चन्द एण्ड ज्वैलरी प्राईवेट लिमिटेड	68.	30746	मैसर्स हाईटच नेटवर्क कम्प्यूटर एजुकेशन एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
39.	25434	मैसर्स सी. नैट कैम्पस कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड	69.	08872	मैसर्स त्रीमूर्ति डिपोज़िट्स एण्ड एडवांसिस प्राईवेट लिमिटेड
40.	16871	मैसर्स अंकुर इम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड	70.	25335	मैसर्स डिबोडिड नेटवर्क सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
41.	31076	मैसर्स रॉयल वेनगार्ड ट्रैवलर्स प्राईवेट लिमिटेड	71.	18626	मैसर्स हरचन्द फिनलीज़ प्राईवेट लिमिटेड
42.	22175	मैसर्स जस एगो फूड्स लिमिटेड	72.	30497	मैसर्स राधिका नेटवर्क सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
43.	08883	मैसर्स कलियर लाईन फूड्स प्राईवेट लिमिटेड	73.	31288	मैसर्स डेनिस हाईटेक प्राईवेट लिमिटेड
44.	23976	मैसर्स गनवीर कैमीकल प्राईवेट लिमिटेड	74.	24651	मैसर्स की प्वाईट प्रोपर्टी मैनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड
45.	08213	मैसर्स ग्रेजुएट सेल्स प्राईवेट लिमिटेड	75.	27564	मैसर्स अनूप ऐथनिक वियर्स प्राईवेट लिमिटेड
46.	19771	मैसर्स के. डी. फिनकैप प्राईवेट लिमिटेड	76.	30570	मैसर्स एम. एम. फोरैक्स प्राईवेट लिमिटेड
47.	25261	मैसर्स स्टैलॉन साईकल्स प्राईवेट लिमिटेड	77.	27536	मैसर्स शाही इन्स प्राईवेट लिमिटेड
48.	31135	मैसर्स अग्रवाल फोरैक्स प्राईवेट लिमिटेड	78.	06014	मैसर्स ओम डाईंग एण्ड मिलिंग प्राईवेट लिमिटेड
49.	25381	मैसर्स सन्ख्यान जॉब्स कन्सलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	79.	19177	मैसर्स टेनर इन्टर सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
50.	30039	मैसर्स इकाम इम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड	80.	05118	मैसर्स वालिया सीमेन्टेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
51.	11302	मैसर्स रवनीत इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	81.	29186	मैसर्स मेगा रॉयल एम्पायर्स प्राईवेट लिमिटेड
52.	27290	मैसर्स सोलीटेयर सेल्स नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड	82.	11672	मैसर्स बरीनसर इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
53.	15429	मैसर्स श्रृष्टि रिफाईनरी लिमिटेड	83.	19495	मैसर्स ए. जी. कॉस्टिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
54.	23721	मैसर्स मालवा इन्फोटेक लिमिटेड	84.	00721	मैसर्स अकाल ट्रांसपोर्ट कं. प्राईवेट लिमिटेड
55.	26301	मैसर्स स्टर्लिंग वुड पावर कं. प्राईवेट लिमिटेड	85.	03766	मैसर्स आनन्द बस सर्विस प्राईवेट लिमिटेड
56.	25210	मैसर्स औरा आई. टी. सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड	86.	10030	मैसर्स नादर्न सॉफ्ट प्रोफेशनल प्राईवेट लिमिटेड
			87.	14946	मैसर्स आंग्रा फाईनेंशियल सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
88.	27633	मैसर्स आर. एण्ड ए. इन्फो सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड	117.	05202	मैसर्स मोनार्क इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
89.	22330	मैसर्स जगतजीत मार्केटिंग लिमिटेड	118.	29526	मैसर्स जी-नेट वीज़न प्राईवेट लिमिटेड
90.	28016	मैसर्स बी. जी. खन्ना इम्पैक्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड	119.	31747	मैसर्स शलाका कन्सट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
91.	24227	मैसर्स सनग्लो फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	120.	04648	मैसर्स सुकरित प्राईवेट लिमिटेड
92.	27109	मैसर्स जतिन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	121.	23449	मैसर्स सेहरा इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
93.	28363	मैसर्स मार्क शूज़ कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	122.	24691	मैसर्स मैजिक लाईफ मार्केटिंग इण्डिया लिमिटेड
94.	17772	मैसर्स कॉसकिम प्रोपर्टीज़ एण्ड इण्डस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड	123.	29172	मैसर्स शार्क सर्विस प्रोवाइडर्स प्राईवेट लिमिटेड
95.	20469	मैसर्स वालिया सुपर मार्केट्स प्राईवेट लिमिटेड	124.	23914	मैसर्स जे. सी. फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
96.	29117	मैसर्स सनराईज़ इम्पायर्स प्राईवेट लिमिटेड	125.	26358	मैसर्स शाईकॉम हाई टेक पेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
97.	23694	मैसर्स जे. पी. स्पीनर्स प्राईवेट लिमिटेड	126.	26725	मैसर्स हिमगिरी हाईड्रो कन्सट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
98.	18480	मैसर्स गनपती मार्केटिंग सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड	127.	27067	मैसर्स कैंट आई हाईटेक सैरामिक्स प्राईवेट लिमिटेड
99.	10923	मैसर्स साक्शी फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड	128.	13880	मैसर्स लिजैन्डी केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
100.	17933	मैसर्स तपत बीवज़ प्राईवेट लिमिटेड	129.	21544	मैसर्स श्री हैल्थ सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड
101.	31436	मैसर्स सिधी माईक्रो न्यूट्रैन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	130.	05087	मैसर्स एम. एल. त्रेहन बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
102.	27285	मैसर्स चण्डीगढ़ ऑनलाईन सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड	131.	15605	मैसर्स ए. पी. मिनरल्स वाटर प्राईवेट लिमिटेड
103.	27492	मैसर्स नवजोत बिल्डर्स एण्ड बिल्डर्स लिमिटेड	132.	04755	मैसर्स जी. डालमिया इन्वेस्टमेंट्स एण्ड फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड
104.	21985	मैसर्स संगरूर ऑटोमोबाईल्स प्राईवेट लिमिटेड	133.	27310	मैसर्स लैक्सडाटा इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
105.	06057	मैसर्स हरियाणा ल्यूस फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	134.	24514	मैसर्स मनीश केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
106.	18102	मैसर्स एशियाटिक स्पाईस एण्ड एक्सोटिक ऑयल्स लिमिटेड	135.	12016	मैसर्स वैष्णो प्रोग्रेस फाइनांस एण्ड मार्केटिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड
107.	31689	मैसर्स सिगमा लाईफ साइन्स प्राईवेट लिमिटेड	136.	15630	मैसर्स किरण गोल्ड क्रिएशन्स प्राईवेट लिमिटेड
108.	27565	मैसर्स अमर कोलोनाईज़र्स प्राईवेट लिमिटेड	137.	28444	मैसर्स जैन्यून ओवरसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
109.	03332	मैसर्स जैना इन्वेस्टमेंट एण्ड एजेन्सीज़ प्राईवेट लिमिटेड	138.	25499	मैसर्स आरफिक इन्फोटैक प्राईवेट लिमिटेड
110.	25189	मैसर्स डॉ. हरीसन मेडी फूड्स प्राईवेट लिमिटेड	139.	28122	मैसर्स रिद्धमिज़ इन्फोटेनमेंट प्राईवेट लिमिटेड
111.	13154	मैसर्स गुरु नानक एग्रो मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	140.	30391	मैसर्स एम. आर. ओवरसीज़ एजुकेशन एण्ड ट्रेवलस प्राईवेट लिमिटेड
112.	24696	मैसर्स ओशियानिक लॉजिस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड	141.	25943	मैसर्स चण्डीगढ़ फोरैक्स प्राईवेट लिमिटेड
113.	20014	मैसर्स एस. एस. फारेस्ट्स एण्ड लैंड डेवलपर्स लिमिटेड	142.	20318	मैसर्स यूनीवर्सल मोटल्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
114.	27265	मैसर्स पैसिफिक यूटिलिटी सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड	143.	18563	मैसर्स दिपिन हायर परचेज़ प्राईवेट लिमिटेड
115.	27294	मैसर्स निरवाणा मेडीसन एण्ड हरबल सप्लीमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	144.	05753	मैसर्स नेमीनाथ स्पिनिंग प्राईवेट लिमिटेड
116.	27112	मैसर्स कपूरथला बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड	145.	20257	मैसर्स काइज़न इन्टरनेशनल इंजीनियर्स लिमिटेड
			146.	10933	मैसर्स नोबल हाऊस इण्डिया लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
147.	25211	मैसर्स अम्बूशा ट्रेवलर्स प्राईवेट लिमिटेड	177.	06775	मैसर्स चावला एण्ड चावला एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
148.	13314	मैसर्स डायमंड रैड टैनरीज़ प्राईवेट लिमिटेड	178.	12591	मैसर्स वीरगो इलैक्ट्रीकल्स प्राईवेट लिमिटेड
149.	13431	मैसर्स अम्बाला स्टोरस प्राईवेट लिमिटेड	179.	06839	मैसर्स आलमगीर इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
150.	25264	मैसर्स आई. आर. डी. इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड	180.	07120	मैसर्स कन्टीनेन्टल एग्रो मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
151.	21695	मैसर्स रिधि सिन्धी कन्सल्टन्स प्राईवेट लिमिटेड	181.	11331	मैसर्स शैरी इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
152.	31044	मैसर्स इन्टीग्रल कैपिटल सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड	182.	31068	मैसर्स इन्जो टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड
153.	18697	मैसर्स जय दुर्गा कैपिटल सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड	183.	26647	मैसर्स तोरनादो एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
154.	17431	मैसर्स संजीव फिनलीज़ प्राईवेट लिमिटेड	184.	11332	मैसर्स फतेह इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
155.	30127	मैसर्स रंगीला जी रिकॉर्डिड मीडिया प्राईवेट लिमिटेड	185.	28344	मैसर्स लोहगढ़ फ्यूल्स प्राईवेट लिमिटेड
156.	16523	मैसर्स शक्ति पवाइंट वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड	186.	24328	मैसर्स गरचा इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
157.	18303	मैसर्स स्टूडी फिनहोम लिमिटेड	187.	10275	मैसर्स सी. लाल स्पोर्टिंग गुड्स प्राईवेट लिमिटेड
158.	03425	मैसर्स अटवाल फाईनांस कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	188.	23990	मैसर्स क्वान्टम स्टॉक इन्वेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
159.	09191	मैसर्स नाज़ इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	189.	19814	मैसर्स बावा मखन शाह लबाना कोलोनाइज़र्स प्राईवेट लिमिटेड
160.	09428	मैसर्स गिलसन इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	190.	25151	मैसर्स सी. आर. सी. ज्वैलर्स प्राईवेट लिमिटेड
161.	25019	मैसर्स दिशा कन्स्यूमर नेटवर्क मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	191.	23811	मैसर्स पिक-अप होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
162.	03849	मैसर्स सत्या हायर परचेज़ प्राईवेट लिमिटेड	192.	25775	मैसर्स अली मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
163.	18769	मैसर्स धूरी फिनलीज़ प्राईवेट लिमिटेड	193.	08210	मैसर्स एम. सन्स एपेरल्स प्राईवेट लिमिटेड
164.	19622	मैसर्स एम. एण्ड एच. होटल्स प्राईवेट लिमिटेड	194.	26520	मैसर्स रिसरजेंट इण्डिया सिस्टम्स एण्ड सॉफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
165.	20463	मैसर्स एस. एस. पी. ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड	195.	24393	मैसर्स फनटयम्स एम्पूज़ पार्क प्राईवेट लिमिटेड
166.	26187	मैसर्स आर. स्क्वेयर एजेन्सीस प्राईवेट लिमिटेड	196.	27011	मैसर्स कपूरथला फोरैक्स प्राईवेट लिमिटेड
167.	18694	मैसर्स भवानी शंकर फाईनांस एण्ड लीज़िंग प्राईवेट लिमिटेड	197.	18108	मैसर्स ताज फर्नीचर्स प्राईवेट लिमिटेड
168.	30465	मैसर्स स्काईनैट प्रोमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड	198.	29684	मैसर्स कल्याधिर प्रोपर्टीज़ प्राईवेट लिमिटेड
169.	21396	मैसर्स कंवल होटल्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	199.	14348	मैसर्स चढ़ा लीज़िंग प्राईवेट लिमिटेड
170.	11355	मैसर्स अरकोन एलाएज़ प्राईवेट लिमिटेड	200.	13941	मैसर्स अमृतसर लीज़िंग प्राईवेट लिमिटेड
171.	06246	मैसर्स कृष्णा प्रीसिशन फास्टनर्स प्राईवेट लिमिटेड	201.	14246	मैसर्स सैदपुरा फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
172.	23996	मैसर्स इम्पीरियल इन्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर साईंस एण्ड सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड	202.	20476	मैसर्स फ्रैंड्स फिनकैप प्राईवेट लिमिटेड
173.	24470	मैसर्स स्पीन्स फार्मा प्राईवेट लिमिटेड	203.	24102	मैसर्स शैलको बाईक्स प्राईवेट लिमिटेड
174.	30259	मैसर्स पी. जी. इन्फरमेटिक्स लिमिटेड	204.	19521	मैसर्स सुकुमार सर्विस स्टेशन प्राईवेट लिमिटेड
175.	15542	मैसर्स परमजीत फूड्स प्राईवेट लिमिटेड	205.	27009	मैसर्स थर्ड आई सॉफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
176.	27129	मैसर्स चिराग टूल्स एण्ड फोरजिंग्स प्राईवेट लिमिटेड	206.	30945	मैसर्स गोबिंग इन्टैलैक्ट सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
			207.	22842	मैसर्स ओम इन्फोसिस प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
208.	23034	मैसर्स किंग इन्फोटेक सॉफ्टवेयर सोल्यूशन्स लिमिटेड	240.	24167	मैसर्स हिमालयन फोम प्राईवेट लिमिटेड
209.	23941	मैसर्स नैक्सट जैन वैब एजुकेशन प्राईवेट लिमिटेड	241.	28658	मैसर्स चीना टेलीकॉम प्राईवेट लिमिटेड
210.	21683	मैसर्स मालवा वायोकोल प्राईवेट लिमिटेड	242.	02567	मैसर्स जैको डीज़ल प्राईवेट लिमिटेड
211.	28411	मैसर्स आर. ए. आर. वैबमार्ट प्राईवेट लिमिटेड	243.	25911	मैसर्स इन्टररिलेयन्स नेटवर्किंग प्राईवेट लिमिटेड
212.	10964	मैसर्स शिवालिक इन्सुलेशन प्राईवेट लिमिटेड	244.	22621	मैसर्स आईटिड सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
213.	15585	मैसर्स म्युचल फाईनैशियल सर्विसिस लिमिटेड	245.	27520	मैसर्स अमित इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड
214.	21224	मैसर्स स्पेस लिंकर्स प्राईवेट लिमिटेड	246.	16824	मैसर्स भानु सैरामिक्स प्राईवेट लिमिटेड
215.	13530	मैसर्स पन्ना केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	247.	29229	मैसर्स सोवी फ्रैन्वाइज़ इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
216.	20422	मैसर्स परवेश स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड	248.	23493	मैसर्स डाईजेस्ट इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
217.	19360	मैसर्स विशाल फन रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	249.	26119	मैसर्स दादार ट्रेडिंग एण्ड एलाइड प्राईवेट लिमिटेड
218.	23671	मैसर्स ए. एस. इन्फोक्वेस्ट प्राईवेट लिमिटेड	250.	16328	मैसर्स गोविन्द फायनैशियल सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
219.	25839	मैसर्स एवरग्रीन ट्रैवलर्स प्राईवेट लिमिटेड	251.	10388	मैसर्स दहिया मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
220.	08738	मैसर्स गोल्ड शीलड्स टी प्राईवेट लिमिटेड	252.	19218	मैसर्स जालन्धर मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
221.	26189	मैसर्स स्काईलार्क डिस्टिलरीज़ प्राईवेट लिमिटेड	253.	22449	मैसर्स कैपिटल एस्टेट एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड
222.	30233	मैसर्स न्यू टोन म्यूज़िक प्राईवेट लिमिटेड	254.	28191	मैसर्स स्काईहाई कालनैट प्राईवेट लिमिटेड
223.	30962	मैसर्स फियोरो टूल्स प्राईवेट लिमिटेड	255.	27958	मैसर्स रैसुरजेंट इण्डिया एडवर्टाईजिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
224.	31291	मैसर्स स्टेम सैल किंग फार्मा प्राईवेट लिमिटेड	256.	29632	मैसर्स वी आई आर पोल्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड
225.	20733	मैसर्स एयर कमांड ट्रैवलर्स प्राईवेट लिमिटेड	257.	31660	मैसर्स सिधु स्टड फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
226.	22096	मैसर्स ली क्लासिक रेस्टोरेन्ड्स एण्ड होटल्स प्राईवेट लिमिटेड	258.	25960	मैसर्स टैनजैन्ट इन्फोसोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
227.	16124	मैसर्स आर. एण्ड पी. इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड	259.	15936	मैसर्स न्यू क्लासिक इस्पात प्राईवेट लिमिटेड
228.	10995	मैसर्स डाइनेस्टी लैंडस्केपस प्राईवेट लिमिटेड	260.	23724	मैसर्स आर एस फोर्म्स प्राईवेट लिमिटेड
229.	26769	मैसर्स पी. डी. सोलवैक्स प्राईवेट लिमिटेड	261.	16198	मैसर्स डी आर फिनलीज़ प्राईवेट लिमिटेड
230.	30687	मैसर्स रोविंग आईस स्क्वोरीटिज़ एण्ड कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	262.	25061	मैसर्स नौर वेस्ट इम्पीग्रेशन कन्सलटेन्ट्स लिमिटेड
231.	24483	मैसर्स ट्रेन्डस टेलीकॉम प्राईवेट लिमिटेड	263.	07082	मैसर्स पंजाब किसान खेती उद्योग लिमिटेड
232.	18076	मैसर्स एस. आर. कम्पोनेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	264.	28790	मैसर्स एसबीएस एग्रो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
233.	10605	मैसर्स हिमाचल केबल्स लिमिटेड	265.	19995	मैसर्स कन्द्री कार्ड इण्डिया लिमिटेड
234.	06827	मैसर्स प्राईड फूड्स लिमिटेड	266.	29215	मैसर्स वन एण्ड भोनली दूर एण्ड ट्रैवलर्स प्राईवेट लिमिटेड
235.	8209	मैसर्स एम. एल. डिपार्टमेंटल स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड	267.	27761	मैसर्स एम के एस कलैक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
236.	25152	मैसर्स आर. बी. फार्मा प्राईवेट लिमिटेड	268.	14835	मैसर्स बरोन ब्रेवरीज़ प्राईवेट लिमिटेड
237.	11344	मैसर्स वर्डलिंक कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	269.	28787	मैसर्स फलॉक्स रिज़ोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
238.	22433	मैसर्स चिंतपुरनी सैनीटेशन्स प्राईवेट लिमिटेड	270.	16199	मैसर्स सहगल फाईनान्शियल सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
239.	13508	मैसर्स गुडलक फोरजिंग्स प्राईवेट लिमिटेड			

1	2	3	1	2	3
271.	29072	मैसर्स सोशाकॉम नेटवर्क्स प्राईवेट लिमिटेड	303.	28506	मैसर्स ट्रांस गिरी हाईड्रो पावर प्राईवेट लिमिटेड
272.	9697	मैसर्स पास्क फाईनान्स एण्ड लीजिंग लिमिटेड	304.	25594	मैसर्स बंसल साड़ीज़ प्राईवेट लिमिटेड
273.	16858	मैसर्स मैनी फिनवैस्ट प्राईवेट लिमिटेड	305.	15160	मैसर्स कंवल कैपिटल सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
274.	16954	मैसर्स फाइटैक्स फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड	306.	25501	मैसर्स किंग मेकर्स नैटवर्क मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
275.	27970	मैसर्स एस के जी पैकेजिंग्स प्राईवेट लिमिटेड	307.	30819	मैसर्स करण टेलिकॉम प्राईवेट लिमिटेड
276.	06677	मैसर्स बी एस एच ऐसिड्स प्राईवेट लिमिटेड	308.	27964	मैसर्स अशोक गोयल इन्वेस्टमेंट्स कन्सलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
277.	22289	मैसर्स सराहन रिजोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	309.	21866	मैसर्स एस एस जी कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
278.	27243	मैसर्स आशीवाद प्रोडक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड	310.	25028	मैसर्स नीलम टूल्स प्राईवेट लिमिटेड
279.	28377	मैसर्स पंख एन्टेनमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड	311.	19839	मैसर्स सनबरोस बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
280.	16289	मैसर्स पराईड ट्रांसफार्मर्स प्राईवेट लिमिटेड	312.	27683	मैसर्स सतकार इन्फॉर्मैटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
281.	13808	मैसर्स वीशा बक्सिस प्राईवेट लिमिटेड	313.	27648	मैसर्स सथानु आयरन प्राईवेट लिमिटेड
282.	14138	मैसर्स बी तरून पोली (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	314.	13229	मैसर्स सॉफ्टपैक सॉफ्टवेयर्स प्राईवेट लिमिटेड
283.	29248	मैसर्स एक्सप्रेस रिलीफ हैल्थकेयर प्राईवेट लिमिटेड	315.	21618	मैसर्स विर्क टैक्नो प्राईवेट लिमिटेड
284.	28756	मैसर्स ओवरसीज़ जौब्स कन्सलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	316.	17352	मैसर्स पीजीआर फिनवैस्ट प्राईवेट लिमिटेड
285.	20590	मैसर्स जूम मीडिया वीज़न प्राईवेट लिमिटेड	317.	21092	मैसर्स लुधियाना फोरेस्ट इण्डिया लिमिटेड
286.	31323	मैसर्स रघुनाथ सिक्वोर्टीज़ प्राईवेट लिमिटेड	318.	14793	मैसर्स सिंह मोल्ड इन्टरप्राईसिस प्राईवेट लिमिटेड
287.	30605	मैसर्स कमलेश सेल्स प्राईवेट लिमिटेड	319.	20180	मैसर्स केयर वैल कोलोनाईज़र प्राईवेट लिमिटेड
288.	16180	मैसर्स कन्हैया एक्वा कन्ट्रोल प्राईवेट लिमिटेड	320.	26408	मैसर्स भसीन मर्केन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
289.	9435	मैसर्स क्विक लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड	321.	14254	मैसर्स रेसीनेट कल्स लिमिटेड
290.	17022	मैसर्स असाही फिनवैस्ट प्राईवेट लिमिटेड	322.	18170	मैसर्स भाटिया सिक्वोर्टीज़ लिमिटेड
291.	06096	मैसर्स भारत रिइन्फोर्समेंट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	323.	19635	मैसर्स बल्लब स्टैम्पिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
292.	10758	मैसर्स सन्नी मैटल्स प्राईवेट लिमिटेड	324.	27524	मैसर्स जी जी पैकर्स प्राईवेट लिमिटेड
293.	29795	मैसर्स गुरुकृपा इन्फ्रास्ट्रक्चर्स एण्ड कन्सलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	325.	25391	मैसर्स पालेश मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
294.	30675	मैसर्स फाईनेसिस इन्जीनियरिंग प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	326.	31504	मैसर्स सम्भव रिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
295.	04271	मैसर्स नायर रबड इन्डस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड	327.	18331	मैसर्स कौसमे कन्ट्रोल्ल्स एण्ड स्वीचगियर्स प्राईवेट लिमिटेड
296.	28585	मैसर्स राइथलक्स इलैक्ट्रो-टैक प्राईवेट लिमिटेड	328.	15333	मैसर्स सतगुरु प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड
297.	25577	मैसर्स डॉट कामर्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड	329.	31398	मैसर्स फगवाड़ा टूल्स एण्ड ट्रैवल्स प्राईवेट लिमिटेड
298.	22277	मैसर्स शिवालिक पोल्ट्री फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड	330.	22200	मैसर्स पालकी पैलेस एण्ड होटलियर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड
299.	30287	मैसर्स शिमला पैट्रो कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	331.	26541	मैसर्स अग्रवाल स्टोन्स इण्डिया लिमिटेड
300.	28730	मैसर्स आर एस जी मैटल्स प्राईवेट लिमिटेड	332.	05781	मैसर्स ताशिना सी फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
301.	20843	मैसर्स बजाज ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड	333.	14359	मैसर्स पंडित डिटरजेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
302.	03763	मैसर्स इकोनोमी टूल्स प्राईवेट लिमिटेड	334.	30065	मैसर्स टीम फोर्स नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड



1	2	3
335.	31114	मैसर्स अटवाल इम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड
336.	05761	मैसर्स चण्डीगढ़ फास्टनर्स प्राईवेट लिमिटेड
337.	4657	मैसर्स सीको इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
338.	24402	मैसर्स सर्ट इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
339.	30777	मैसर्स ऐविन इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड
340.	23016	मैसर्स जैकबो काटैक्स प्राईवेट लिमिटेड
341.	24418	मैसर्स जैस्ट हैल्थकेयर प्राईवेट लिमिटेड
342.	11711	मैसर्स जॉजुआ शेयर शोपी प्राईवेट लिमिटेड
343.	28498	मैसर्स सिमरन कालनैट प्राईवेट लिमिटेड
344.	27922	मैसर्स एस जी बेवरीज़ प्राईवेट लिमिटेड
345.	27923	मैसर्स एस पारस कोल्ड ड्रिंक्स प्राईवेट लिमिटेड
346.	27272	मैसर्स ट्रांस्फरेज़ टेक्नोलॉजीस प्राईवेट लिमिटेड
347.	18006	मैसर्स ब्रीज़ फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
348.	19278	मैसर्स भवानी गैसिस प्राईवेट लिमिटेड
349.	29837	मैसर्स डाऊन टाऊन बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड
350.	23218	मैसर्स भवानी एलाईड प्राईवेट लिमिटेड
351.	19315	मैसर्स लुधियाना फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
352.	29664	मैसर्स सिल्वर क्रीक बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
353.	11256	मैसर्स आर बी एपेरल्स प्राईवेट लिमिटेड
354.	26891	मैसर्स नित्या इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड
355.	07472	मैसर्स नैपचून सी फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
356.	18654	मैसर्स नैना फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
357.	24829	मैसर्स क्यूसॉफ्ट सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
358.	12233	मैसर्स नैपचून सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
359.	05780	मैसर्स फिशिंग कंज़ोर्टिपम प्राईवेट लिमिटेड
360.	30603	मैसर्स मैजिक एक्वा इनोवेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
361.	19705	मैसर्स अलबियोन होर्लिङ्गस प्राईवेट लिमिटेड
362.	10397	मैसर्स जी बी हायर परचेज़ प्राईवेट लिमिटेड
363.	03594	मैसर्स कपूरथला हायर परचेज़ प्राईवेट लिमिटेड
364.	19117	मैसर्स अन्नत डिपोज़िट्स एण्ड एडवांस प्राईवेट लिमिटेड
365.	31348	मैसर्स ग्रैंड पैसेफिक रीट्रीट प्राईवेट लिमिटेड
366.	07962	मैसर्स ट्राईलो ऐग्रो इन्डस्ट्रीज़ लिमिटेड

1	2	3
367.	19131	मैसर्स उगरा एजुकेशन फॉउन्डेशन प्राईवेट लिमिटेड
368.	18589	मैसर्स सवेना रोड लाईन्स प्राईवेट लिमिटेड
369.	28569	मैसर्स पालम टाऊनशिप प्राईवेट लिमिटेड
370.	17919	मैसर्स बसंत फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
371.	31752	मैसर्स नैक्सजन टैलीआईन्स प्राईवेट लिमिटेड
372.	03363	मैसर्स स्लोकुम होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
373.	20878	मैसर्स स्बोका फ्यूल्स प्राईवेट लिमिटेड
374.	21347	मैसर्स गिल एण्ड मान ओवरसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
375.	17568	मैसर्स ब्रौडवे कार्स्टिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
376.	26760	मैसर्स लशकारा इन्टरटेन्मेंट प्राईवेट लिमिटेड
377.	27254	मैसर्स ओवरसीज़ कैरियर एण्ड नैनी सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
378.	06902	मैसर्स कोहली राने प्राईवेट लिमिटेड
379.	22715	मैसर्स तलवार लीज़िंग एण्ड फाइनान्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
380.	25209	मैसर्स सीता टेक्नोलॉजीस प्राईवेट लिमिटेड
381.	21648	मैसर्स इन्टरनैट न्यूज़ नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड
382.	23158	मैसर्स जय शक्ति ऑटोमोबाईल प्राईवेट लिमिटेड
383.	23159	मैसर्स जय शक्ति सिक्योरिटी एण्ड डिटैक्टिव सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
384.	11293	मैसर्स सुखमनी एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
385.	23916	मैसर्स शिव सत्यम बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
386.	21694	मैसर्स अम्बल कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
387.	27982	मैसर्स आकाश नेटवर्क्स डायकॉम प्राईवेट लिमिटेड
388.	29713	मैसर्स आर जी बिल्डकोन प्राईवेट लिमिटेड
389.	23276	मैसर्स सपार इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
390.	27861	मैसर्स विदुशी रीयल एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
391.	27831	मैसर्स बी एस सी स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
392.	19785	मैसर्स एस एफ कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
393.	24626	मैसर्स होराइज़न एजुकेशन सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
394.	21283	मैसर्स गुप्ता मल्टीपैक्स प्राईवेट लिमिटेड
395.	27102	मैसर्स स्ट्रीट वेवज़ म्यूज़िक प्राईवेट लिमिटेड
396.	23965	मैसर्स काईड रैमेडीज़ प्राईवेट लिमिटेड
397.	20317	मैसर्स डी के जैन स्पिनर्स लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
398.	3877	मैसर्स आर. जी. फार्मास्युटिकल्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	428.	31400	मैसर्स बीजीएस ओवरसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
399.	19751	मैसर्स सी पी स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड	429.	8982	मैसर्स अंगद हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड
400.	19312	मैसर्स वीपीएन टैक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड	430.	14062	मैसर्स लोधी स्पिनर्स प्राईवेट लिमिटेड
401.	28922	मैसर्स न्यू प्रैण्ड्स इनक्लेव प्राईवेट लिमिटेड	431.	23424	मैसर्स जैपलिन ऐड बलर्ड प्राईवेट लिमिटेड
402.	30666	मैसर्स शौर्या कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड	432.	23713	मैसर्स वेदान्तस सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
403.	15992	मैसर्स इन्दर सिंह एण्ड सन्स टूल्स प्राईवेट लिमिटेड	433.	14388	मैसर्स टीजीआर डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
404.	4725	मैसर्स अमर नाथ महाजन एण्ड सन्स प्राईवेट लिमिटेड	434.	9332	मैसर्स यंग फार्मर्स लीजिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
405.	17229	मैसर्स राईल्स सेरामिक्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड	435.	18442	मैसर्स हिमालयन इन्टरप्राइजेज़ इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
406.	15231	मैसर्स विनाम मैड-कॉन प्राईवेट लिमिटेड	436.	17364	मैसर्स पलिमसोल मैरिन सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
407.	25836	मैसर्स न्यू टैक इण्डिया ऐग्रो फूड्स प्राईवेट लिमिटेड	437.	24493	मैसर्स राजिन्द्रा कार्बन्स प्राईवेट लिमिटेड
408.	14414	मैसर्स सीएचबी इन्टरप्राइजेज़ प्राईवेट लिमिटेड	438.	26471	मैसर्स जेवीएस सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
409.	18976	मैसर्स सोम हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड	439.	24866	मैसर्स हरित कम्प्यूटर्स एण्ड परिफर्ल्स प्राईवेट लिमिटेड
410.	29815	मैसर्स केएनएन ब्ल्यू बैरीज़ प्राईवेट लिमिटेड	440.	17912	मैसर्स बैकुंठ होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
411.	10621	मैसर्स जालन्धर प्रैस टास्क न्यूज एजेन्सी (पीटीए) प्राईवेट लिमिटेड	441.	23241	मैसर्स एस. बी. इन्फोसिस प्राईवेट लिमिटेड
412.	11589	मैसर्स आरजीपी फोरजिंग्स प्राईवेट लिमिटेड	442.	12636	मैसर्स स्पार्क वायर्स एण्ड मशीन्स प्राईवेट लिमिटेड
413.	21410	मैसर्स चण्डीगढ़ इन्स्टीच्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टैक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड	443.	29749	मैसर्स कोर नैटवर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
414.	30806	मैसर्स एआरसी एडवांस मैडिकल सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड	444.	8380	मैसर्स एवरेस्ट स्पिनिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
415.	17401	मैसर्स नार्थलैण्ड शूज प्राईवेट लिमिटेड	445.	17201	मैसर्स सनफोल्ड होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
416.	9410	मैसर्स पायलट इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	446.	19793	मैसर्स अम्बिका टूल्स प्राईवेट लिमिटेड
417.	13604	मैसर्स मोंटफ्लुरी अप्पोरल्स प्राईवेट लिमिटेड	447.	19870	मैसर्स कंचर रियल एस्टेट लिमिटेड
418.	27192	मैसर्स फ्लाईवेल कार्गो प्राईवेट लिमिटेड	448.	7129	मैसर्स शक्ति वैलडमेश इन्डस्ट्रीज लिमिटेड
419.	25370	मैसर्स धालीवाल ग्रुप सिन्क्रोरेटिज़ सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड	449.	18007	मैसर्स एरो फिनलीज प्राईवेट लिमिटेड
420.	26508	मैसर्स माँ कृपा एस्टेट लिंकर्स प्राईवेट लिमिटेड	450.	29728	मैसर्स एस. एस. सिटी बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
421.	10815	मैसर्स वल्लम एलोयज प्राईवेट लिमिटेड	451.	25497	मैसर्स सॉफ्ट सोल्वर्स टैक्नोलॉजीस प्राईवेट लिमिटेड
422.	22125	मैसर्स हरशिल वायर्स प्राईवेट लिमिटेड	452.	25149	मैसर्स प्रैस्टीज प्रोटेक्शन सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
423.	16437	मैसर्स रेयर इन्वेस्टर्स एण्ड ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड	453.	31260	मैसर्स केसर एग्जिम प्राईवेट लिमिटेड
424.	21297	मैसर्स सूद फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड	454.	10191	मैसर्स चुग ऑटो प्राईवेट लिमिटेड
425.	20348	मैसर्स एस. वी. टेक्नो इन्जीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड	455.	18023	मैसर्स स्ट्रलिंग डिपोजिट एण्ड एडवांसेज प्राईवेट लिमिटेड
426.	13839	मैसर्स एक्स. एल. कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	456.	17748	मैसर्स मुल्तानी कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
427.	22646	मैसर्स उदरों एग्रो (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	457.	12844	मैसर्स इन्टरकम्प्युनि डवलपमेंट एण्ड फायनान्स कम्पनी लिमिटेड
			458.	15475	मैसर्स साका एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
459.	4425	मैसर्स जिन्दल रेक्ट्रीफायर्स प्राईवेट लिमिटेड
460.	26566	मैसर्स सहायता इन्शोरेंस सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
461.	31145	मैसर्स सफरों एशोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
462.	9287	मैसर्स बावा टायर्स प्राईवेट लिमिटेड
463.	11283	मैसर्स स्काईलाईन हायर परचेंज प्राईवेट लिमिटेड
464.	8635	मैसर्स चांदी हायर परचेंज प्राईवेट लिमिटेड
465.	27489	मैसर्स हिमाचल कैम्प प्राईवेट लिमिटेड
466.	5948	मैसर्स प्रिन्स पुत्रे पिक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड
467.	362	मैसर्स दी हिल मोटर एजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
468.	18151	मैसर्स कौशल्या फिनलीज प्राईवेट लिमिटेड
469.	27097	मैसर्स तांगड़ी फायनांशियल कन्सलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
470.	31144	मैसर्स ब्राइट स्टॉक्स इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
471.	27967	मैसर्स भम्भानी कंस्ट्रक्शन एण्ड इन्जीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
472.	3430	मैसर्स एडवांस ऑयल्स प्राईवेट लिमिटेड
473.	30654	मैसर्स लिनर मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
474.	30615	मैसर्स हितेशवरी बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
475.	27513	मैसर्स फूलपुफ सिक्वोरिटी सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
476.	23799	मैसर्स मल्ही एण्ड बसरा इम्मीग्रेशन एण्ड एलाईड सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
477.	16061	मैसर्स पाल पावर कन्ट्रोलस कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
478.	29332	मैसर्स एम. एस. बाईक्स प्राईवेट लिमिटेड
479.	29411	मैसर्स नितिन कॉन्ट्रैक्टर एण्ड रियल एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
480.	25051	मैसर्स दीनानगर एडवांसिस स्टडीज प्राईवेट लिमिटेड
481.	7531	मैसर्स खोसला राईस मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
482.	21141	मैसर्स रेनबो टूरिज्म प्राईवेट लिमिटेड
483.	18565	मैसर्स लुधियाना शू कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
484.	31706	मैसर्स सी. के. ऑनलाईन सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
485.	25530	मैसर्स पैसिम हैल्थकेयर प्राईवेट लिमिटेड
486.	19730	मैसर्स आर. जी. शिपिंग एण्ड ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
487.	28153	मैसर्स कथूरिया रियल एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
488.	30237	मैसर्स हिम इन्जीनियरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
489.	18842	मैसर्स अरनेजा एग्रो प्राईवेट लिमिटेड
490.	26963	मैसर्स मनिकरन इलैक्ट्रीकल एण्ड इलैक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
491.	30775	मैसर्स कौशल रैमेडीज प्राईवेट लिमिटेड
492.	16623	मैसर्स वर्मा स्पोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
493.	19418	मैसर्स ठाकुर मालिआब्ज प्राईवेट लिमिटेड
494.	31189	मैसर्स साई लैब मैटिरीयल टेस्टिंग प्राईवेट लिमिटेड
495.	11379	मैसर्स बिमल होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
496.	21659	मैसर्स बाटला सिटी केबल्स प्राईवेट लिमिटेड
497.	30438	मैसर्स सेवा कोलोनाइजर्स एण्ड डवलपमेंट प्राईवेट लिमिटेड
498.	26789	मैसर्स गोल्डन ब्रोडकास्टिंग लिमिटेड
499.	29899	मैसर्स रामराज इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड
500.	22110	मैसर्स आर. आर. टूरिज्म प्रोमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
501.	22198	मैसर्स कासकसकेड फायनान्स एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
502.	30952	मैसर्स अलटिमा प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
503.	19968	मैसर्स एच. एम. कोल्ड स्टोर प्राईवेट लिमिटेड
504.	28751	मैसर्स साहिल नैटकॉम प्राईवेट लिमिटेड
505.	13645	मैसर्स नाईसलर (इण्डिया) फार्मा प्राईवेट लिमिटेड
506.	29284	मैसर्स मेहता बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड
507.	21765	मैसर्स विरदी कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
508.	23712	मैसर्स डॉ. स्वारस हैल्थ प्लान्स प्राईवेट लिमिटेड
509.	7095	मैसर्स सैचुरी रिफ्राक्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
510.	24078	मैसर्स सतलेज ग्लास वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
511.	7474	मैसर्स केटीएच होटल्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
512.	29506	मैसर्स सूरती रैमेडीज प्राईवेट लिमिटेड
513.	21165	मैसर्स इगनैक्स टूल्स प्राईवेट लिमिटेड
514.	20792	मैसर्स स्वासतिक पॉली स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
515.	17076	मैसर्स नरेन्द्रा वनस्पती लिमिटेड
516.	16077	मैसर्स अकाल एलाईज प्राईवेट लिमिटेड
517.	5530	मैसर्स एम. के. खैतान एण्ड एशोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
518.	26813	मैसर्स बांके बिहारी एग्रो मिल प्राईवेट लिमिटेड
519.	24972	मैसर्स रोयल मरचैंट्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
520.	22668	मैसर्स परमार ओवरसीज़ प्राईवेट लिमिटेड	550.	12099	मैसर्स चैम्पियन ऑटो सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
521.	22100	मैसर्स एस. एम. इन्फोसिस प्राईवेट लिमिटेड	551.	27643	मैसर्स जीनोमैक्स फार्मास्युटीकल्स प्राईवेट लिमिटेड
522.	25723	मैसर्स वरटैक्स अलकोन्स प्राईवेट लिमिटेड	552.	15154	मैसर्स एमएस हायर पर्चेज प्राईवेट लिमिटेड
523.	27677	मैसर्स बीएमजी एग्री टैक एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	553.	12326	मैसर्स एस. डी. शर्मा एण्ड एशोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
524.	18806	मैसर्स सरसार अरबन हाऊसिंग डवलपमेंट लिमिटेड	554.	7393	मैसर्स क्रिएटिव फायनन्सर्स प्राईवेट लिमिटेड
525.	11079	मैसर्स राम वूल्लन्स प्राईवेट लिमिटेड	555.	9140	मैसर्स हिमाचल डिपोजिट्स एण्ड एडवांसेस प्राईवेट लिमिटेड
526.	26695	मैसर्स अल्फा बट्रन्स प्राईवेट लिमिटेड	556.	17500	मैसर्स जीबी इन्जीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
527.	18974	मैसर्स टीटीएस मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	557.	6130	मैसर्स सन्नी हायर पर्चेज प्राईवेट लिमिटेड
528.	13824	मैसर्स सहदेव एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	558.	18679	मैसर्स जसप्रीत हायर पर्चेज प्राईवेट लिमिटेड
529.	25852	मैसर्स एडवान्सड एकैडमी ऑफ़ डेन्टल एजुकेशन प्राईवेट लिमिटेड	559.	9179	मैसर्स आविश्कार इन्वेस्टमेंट कम्पनी
530.	31128	मैसर्स प्रीसियस वर्ल्डवाइड ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड	560.	21462	मैसर्स फारमूले लिंक्स प्राईवेट लिमिटेड
531.	25845	मैसर्स एवेन्यु डेन्टल केयर प्राईवेट लिमिटेड	561.	24209	मैसर्स दाता टेक्नॉलोजीज प्राईवेट लिमिटेड
532.	25851	मैसर्स गुरू सॉफ्टवेन्ट प्राईवेट लिमिटेड	562.	30386	मैसर्स दिनेश गर्ग कॉन्टैक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
533.	15281	मैसर्स कमल सर्जीकल्स प्राईवेट लिमिटेड	563.	23734	मैसर्स अलंकार कम्प्युनिकेशन लिमिटेड
534.	27605	मैसर्स नॉर्थ वेस्ट रियल एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड	564.	24990	मैसर्स जालन्धर ऑनलाईन केबल नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड
535.	11986	मैसर्स इन्फॉमेटिव प्रोफेशनल स्टडीज प्राईवेट लिमिटेड	565.	6336	मैसर्स प्रीमयर फ्लोरिंग प्राईवेट लिमिटेड
536.	25128	मैसर्स बॉडी टैक न्यूट्रीशन प्राईवेट लिमिटेड	566.	29298	मैसर्स अश्वनी फार्मास्युटीकल्स प्राईवेट लिमिटेड
537.	19309	मैसर्स नीलकंठ लैडर्स प्राईवेट लिमिटेड	567.	23841	मैसर्स कुतम्ब कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
538.	14619	मैसर्स प्राईवर सीमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	568.	23698	मैसर्स चन्द्रलोक स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
539.	30740	मैसर्स समेद फार्मास्युटीकल्स प्राईवेट लिमिटेड	569.	25062	मैसर्स साइनक्योर मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
540.	15378	मैसर्स चमन सर्जीकल्स प्राईवेट लिमिटेड	570.	14519	मैसर्स प्रोटेक सरबेयर्ज प्राईवेट लिमिटेड
541.	26849	मैसर्स सतीजा होटल्स प्राईवेट लिमिटेड	571.	16748	मैसर्स ऐलीसम होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
542.	24433	मैसर्स युनाईटेड विज़न नेटवर्क्स प्राईवेट लिमिटेड	572.	25291	मैसर्स चावला कोलोनाईज़र्स प्राईवेट लिमिटेड
543.	19859	मैसर्स लाईफ लाईन मैनेजमेंट सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड	573.	17377	मैसर्स प्रोग्रेसिव डिजाईनर्स प्राईवेट लिमिटेड
544.	31157	मैसर्स युनीवाईड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	574.	30825	मैसर्स ऐंगल फैशनस प्राईवेट लिमिटेड
545.	7049	मैसर्स दीपसन्स फार्मास्युटीकल्स प्राईवेट लिमिटेड	575.	30872	मैसर्स डेस्टीनेशन कन्सलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
546.	29134	मैसर्स सियी हॉस्पिटल एण्ड नर्सिंग होम प्राईवेट लिमिटेड	576.	16660	मैसर्स सुप्रीम साईकल्स प्राईवेट लिमिटेड
547.	15077	मैसर्स नाईका पावर डिवाइसेस प्राईवेट लिमिटेड	577.	22559	मैसर्स खानडेयरी एण्ड एलाईड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
548.	9288	मैसर्स बी. के. डिपोजिट्स एण्ड एडवांसेस प्राईवेट लिमिटेड	578.	20243	मैसर्स रौक्सी निटफैब प्राईवेट लिमिटेड
549.	31093	मैसर्स किशोर डवलपमेंट एण्ड एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड	579.	15432	मैसर्स के. आर. डिपोजिट्स एण्ड एडवांसेस प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
580.	31361	मैसर्स शिव शंकर ऑटोमोबाईल्स प्राईवेट लिमिटेड
581.	31453	मैसर्स ऐगलो सॉफ्ट टैक प्राईवेट लिमिटेड
582.	26882	मैसर्स एकमे वर्ल्डवाइड ऐडवेंचर्स प्राईवेट लिमिटेड
583.	5261	मैसर्स त्रिपुती फार्मिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
584.	14725	मैसर्स लुधियाना कम्प्युनिकेशन नेटवर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
585.	27090	मैसर्स एलीजेंट कोलोनाईजर्स प्राईवेट लिमिटेड
586.	10839	मैसर्स हेमकुन्ड हायर पर्चेज प्राईवेट लिमिटेड
587.	30052	मैसर्स ग्रीनलाईन लॉजिस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
588.	21445	मैसर्स इन्डोपान एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
589.	30621	मैसर्स जी. एस. एपैक्स एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
590.	18639	मैसर्स दास एग्रो प्राईवेट लिमिटेड
591.	30440	मैसर्स पिनरहाऊस रिजोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
592.	8351	मैसर्स लुधियाना लीजिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
593.	5686	मैसर्स अप्पू फायनान्सर्स प्राईवेट लिमिटेड
594.	24677	मैसर्स दफोदिल कलोटिंग प्राईवेट लिमिटेड
595.	24161	मैसर्स जुम्बो आइटैक लिमिटेड
596.	14324	मैसर्स बलूमिंग ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड
597.	16154	मैसर्स वैल्थ वाईज फायनान्स लिमिटेड
598.	12060	मैसर्स अन्जु कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
599.	18787	मैसर्स लुधियाना होटल्स एण्ड एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
600.	25241	मैसर्स अमिती पैट्रोलियम्स प्राईवेट लिमिटेड
601.	19246	मैसर्स रमेश इन्द्र सिंह फायनेशियल सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
602.	18701	मैसर्स हिम एस्टेट चिट एण्ड फिनवेस्ट लिमिटेड
603.	15237	मैसर्स पर्ल्स फौट्स एण्ड ऑयल्स प्राईवेट लिमिटेड
604.	15302	मैसर्स कूल होम फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड
605.	31090	मैसर्स श्री वैभव लक्ष्मी डायमण्ड एण्ड ज्वैलर प्राईवेट लिमिटेड
606.	27581	मैसर्स डडवाल कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
607.	21420	मैसर्स संजीवनी हॉस्पिटल प्राईवेट लिमिटेड
608.	27334	मैसर्स आर्य इन्शोरेंस सर्विसिस एण्ड कन्सलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
609.	21346	मैसर्स क्रिएटिव नेचर फर्निशिंग प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
610.	23690	मैसर्स नेटस्पेस इन्टरनेट प्राईवेट लिमिटेड
611.	29981	मैसर्स स्काईनेट हाऊसिंग प्राईवेट लिमिटेड
612.	16752	मैसर्स प्रशार फायनान्सर्स इण्डिया लिमिटेड
613.	4514	मैसर्स प्रकाश वूल्लन मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
614.	25323	मैसर्स इलाईट लाईफ इन्फोरमेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
615.	9530	मैसर्स सतीजा लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड
616.	25560	मैसर्स के. एस. बी. इलैक्ट्रो प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
617.	22374	मैसर्स आनन्द प्रोमोटर्स एण्ड रियल एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
618.	30858	मैसर्स बी. के. आर. एपरेल्स ऐग्रीजम प्राईवेट लिमिटेड
619.	12582	मैसर्स हरि देव कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
620.	7327	मैसर्स अमृतसर मशीन्स प्राईवेट लिमिटेड
621.	1940	मैसर्स भटिन्डा स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
622.	30105	मैसर्स ग्योर्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
623.	23068	मैसर्स बेनी सॉफ्टवेयर्स प्राईवेट लिमिटेड
624.	30703	मैसर्स नैक्स्टवेव वायरलैस इण्डिया लिमिटेड
625.	16813	मैसर्स रूपिया फायनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
626.	14224	मैसर्स एम एस ऐलडी प्रैस मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड
627.	16976	मैसर्स बीएस सिक्वोरटीज प्राईवेट लिमिटेड
628.	23532	मैसर्स सेंचुरी डॉटकॉम प्राईवेट लिमिटेड
629.	28146	मैसर्स रूरका बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
630.	31150	मैसर्स पीबीएस बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
631.	26367	मैसर्स क्वार्क सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
632.	28144	मैसर्स धोलेवाल ऑटो हैल्पलाईन प्राईवेट लिमिटेड
633.	26606	मैसर्स स्काई सेंटर ट्रेवल एक्सप्रेस एण्ड फेसिलिटीज प्राईवेट लिमिटेड
634.	17982	मैसर्स सरताज सर्जीकल्स प्राईवेट लिमिटेड
635.	25829	मैसर्स पॉली आई होस्पिटल प्राईवेट लिमिटेड
636.	8125	मैसर्स राजा सिंथैटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
637.	13781	मैसर्स कैपसन्स रिसर्च लैबोरेट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
638.	30776	मैसर्स फ्रैसटोन सॉफ्टवेयर शोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड
639.	27332	मैसर्स प्रकाश मरकन्याईल कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
640.	19609	मैसर्स एमईसार पैकेजेज प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
641.	25700	मैसर्स आरएचटी इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड	670.	18182	मैसर्स सुखीनव इन्फोरमैटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
642.	19610	मैसर्स आकाश मल्टी पैक प्राईवेट लिमिटेड	671.	19543	मैसर्स शिव महाशक्तिशाली स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
643.	28123	मैसर्स पी. के. बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड	672.	7366	मैसर्स मुनीशा साईकल्स प्राईवेट लिमिटेड
644.	9884	मैसर्स समदारश रियल एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड	673.	26462	मैसर्स संस्कार इन्टरप्राइजेज़ प्राईवेट लिमिटेड
645.	27802	मैसर्स केस्ट्रल इलैक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड	674.	23097	मैसर्स सरन एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
646.	16037	मैसर्स मुंजाल रियल एस्टेट्स एण्ड फायनांशियल सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड	675.	29486	मैसर्स माँ मानसा प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
647.	10106	मैसर्स आर्दस फ्लोरिंग प्राईवेट लिमिटेड	676.	27796	मैसर्स सिमरन पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड
648.	5621	मैसर्स ज्योतिक ऑटोमोटिव ट्रान्समिशन लिमिटेड	677.	21281	मैसर्स रेमडिया हर्ब्स प्राईवेट लिमिटेड
649.	19183	मैसर्स नैटलैंड इन्फोरमेशन प्राईवेट लिमिटेड	678.	25243	मैसर्स अलोरा एरोमैटिक ऑयल्स प्राईवेट लिमिटेड
650.	18054	मैसर्स न्युमैन वाल्वज़ प्राईवेट लिमिटेड	679.	12650	मैसर्स माशू रिजोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
651.	26199	मैसर्स सामा ऐजुकेशन प्राईवेट लिमिटेड	680.	19111	मैसर्स ओशियन फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
652.	3005	मैसर्स फेयरलैण्ड क्लोनाईज़र एण्ड फायनान्सर्स प्राईवेट लिमिटेड	681.	24232	मैसर्स कोसी पैलेस प्राईवेट लिमिटेड
653.	28876	मैसर्स घई ऐविऐशन्स प्राईवेट लिमिटेड	682.	16293	मैसर्स एमबी ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
654.	31340	मैसर्स सुविधा एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड	683.	29092	मैसर्स नॉर्दन कॉमोडीटिज़ एण्ड ट्रेडिंग सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
655.	8047	मैसर्स मनी वूल्लन मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	684.	25506	मैसर्स सालदी बंसल कन्सलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
656.	19500	मैसर्स एमएमआर सेफ्टी एण्ड सिक्योरिटी कन्सल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	685.	7842	मैसर्स क्लासिक पैकेजिज़ प्राईवेट लिमिटेड
657.	26898	मैसर्स कोलम्बिया मैडिको ऐनसिलरीज प्राईवेट लिमिटेड	686.	17034	मैसर्स जिगमा इन्जीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
658.	12356	मैसर्स प्रताप क्रेडिट्स एण्ड होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड	687.	15438	मैसर्स पीजी मोटर्स एण्ड हायर पर्वेज प्राईवेट लिमिटेड
659.	31276	मैसर्स परफैक्ट आउटसोर्सिंग सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड	688.	14591	मैसर्स फास्सीनेशन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
660.	1875	मैसर्स नॉर्दन इण्डिया टैक्सटाईल्स मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	689.	25395	मैसर्स चम्बा मनाली गुड्स ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
661.	31097	मैसर्स डीएसके बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड	690.	26672	मैसर्स वीसी एलाईज़ (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
662.	18123	मैसर्स स्पेसलाईन कैरियर्स प्राईवेट लिमिटेड	691.	12231	मैसर्स पंजाब सिंडिकेट फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड
663.	25743	मैसर्स डीक्शा इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड	692.	30616	मैसर्स होली सिटी रीयल एस्टेट्स एण्ड डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
664.	8618	मैसर्स परमार सरकट ब्रेकर प्राईवेट लिमिटेड	693.	16781	मैसर्स इन्टरकूल ऐयरकॉन प्राईवेट लिमिटेड
665.	5133	मैसर्स दिवेन्द्रा फास्टनर्स प्राईवेट लिमिटेड	694.	28228	मैसर्स जैनिथ रेडियो पंजाब प्राईवेट लिमिटेड
666.	2900	मैसर्स धीमान आयरन एण्ड स्टील कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	695.	17218	मैसर्स वीएम आयरन एण्ड कास्टिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
667.	28401	मैसर्स विराट हर्ब्स प्राईवेट लिमिटेड	696.	14403	मैसर्स बिक्रम हायर पर्वेज प्राईवेट लिमिटेड
668.	28481	मैसर्स ऐंगल लाईफ साईसेज़ प्राईवेट लिमिटेड	697.	7425	मैसर्स जय जय प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
669.	27690	मैसर्स मोमी इम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड	698.	23767	मैसर्स के एम युनीक इन्फरनेट प्राईवेट लिमिटेड
			699.	23586	मैसर्स इएलएफ बाथ फिटिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
			700.	23235	मैसर्स न्युट्रईम बाथ फिटिंग्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
701.	15304	मैसर्स गैजबो साईकल्स लिमिटेड
702.	8106	मैसर्स रोडमास्टर इन्टरनैशनल लिमिटेड
703.	15905	मैसर्स जस्सल एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
704.	30492	मैसर्स महेश इन्डोस्पिन लिमिटेड
705.	16841	मैसर्स एस. एन. जी. प्रोपर्टीज़ प्राईवेट लिमिटेड
706.	19816	मैसर्स साई वैलिंग टैक्नोलोजी इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
707.	30669	मैसर्स अभय पावर प्राईवेट लिमिटेड

राज सिंह  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स सान्थी क्रैन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
अहमदाबाद-380013, दिनांक 19 नवम्बर 2010

सं. आर.ओ.सी./55566/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सान्थी क्रैन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कमल हरजानी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स शाह फिसकल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
अहमदाबाद-380013, दिनांक 19 नवम्बर 2010

सं. आर.ओ.सी./16105/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स शाह फिसकल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कमल हरजानी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स इण्डस सॉफ्टलिंग्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
अहमदाबाद-380013, दिनांक 22 नवम्बर 2010

सं. आर.ओ.सी./39602/एस.टी.ए./560/200--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह

सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स इण्डस सॉफ्टलिंग्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कमल हरजानी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स आचार्य इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
अहमदाबाद-380013, दिनांक 22 नवम्बर 2010

सं. आर.ओ.सी./36298/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स आचार्य इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स कुमकुम स्टॉक ब्रोकर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
अहमदाबाद-380013, दिनांक 22 नवम्बर 2010

सं. आर.ओ.सी./47006/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कुमकुम स्टॉक ब्रोकर प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स सुराधा केप-लीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
अहमदाबाद-380013, दिनांक 22 नवम्बर 2010

सं. आर.ओ.सी./26865/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सुराधा केप-लीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली



7—356 GI/2010

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स डेशमार्क फोरमुलेशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 22 नवम्बर 2010

सं. आर.ओ.सी./42192/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स डेशमार्क फोरमुलेशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कोच्चि-682021, दिनांक 09 नवम्बर 2010

सं. एस एम 560(5)एस एम 22/आरओसी/ईकेएम/17919/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	6805	मैसर्स कोचिन चेतक रोड़ लाईन प्राईवेट लिमिटेड
2.	7139	मैसर्स कोचिन बिल्डर्स एण्ड एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	7202	मैसर्स कान्जीकल क्रेडिट्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	7211	मैसर्स धनन्जेया हायर परचेजिंग एण्ड लिजिंग फायनान्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
5.	7251	मैसर्स डोन एस्टेट्स एण्ड एडिफिसज प्राईवेट लिमिटेड
6.	7366	मैसर्स आनामुडी माउन्टेन टॉप रिजोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	7598	मैसर्स सोफिया स्टील री-रोलिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	7814	मैसर्स सेन्स 6 फिल्मस प्राईवेट लिमिटेड
9.	7984	मैसर्स ए एण्ड एस कम्प्यूनिक्शन्स एण्ड सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	7993	मैसर्स हरमेट टूर्स एण्ड ट्रेवलस प्राईवेट लिमिटेड
11.	8060	मैसर्स आधुनिक क्रेडिट एण्ड सिक्यूरिटीज़ प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
12.	8063	मैसर्स अतनी कुरीज एण्ड लोन्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	8065	मैसर्स श्रीनिवास कोनडिमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	8128	मैसर्स टैक्नो मरीन इक्विपमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
15.	8228	मैसर्स देवी कृष्णा रीयल एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	8268	मैसर्स ओयसिस एक्वा प्रोजेक्ट्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
17.	8273	मैसर्स कैपिटल बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
18.	8316	मैसर्स मन्ना एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
19.	8395	मैसर्स लैन्ड मास्टर डवलपर्स एण्ड बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
20.	8463	मैसर्स होरीज़ोन फ़ैब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड
21.	8505	मैसर्स हमाली प्लान्टेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
22.	8576	मैसर्स बरसार फायनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
23.	8583	मैसर्स अक्षया प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
24.	8645	मैसर्स रुबिकॉन रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
25.	8700	मैसर्स हाई फाई एप्लायसेन्स प्राईवेट लिमिटेड
26.	8708	मैसर्स ईमेजिस डायग्नोस्टिक सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड
27.	8775	मैसर्स ट्रान्सकॉम प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
28.	8877	मैसर्स प्राचिस सिक्यूरिटीज़ प्राईवेट लिमिटेड
29.	8898	मैसर्स राईस कैपिटल प्राईवेट लिमिटेड
30.	8920	मैसर्स मरक्कामपरबिल क्रेडिट्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
31.	8972	मैसर्स सोल इण्डिया फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
32.	8982	मैसर्स एच वाई एस फाउन्डेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
33.	9008	मैसर्स वियूर कुरीज़ प्राईवेट लिमिटेड
34.	9036	मैसर्स फ्रन्ट लाईन मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
35.	9041	मैसर्स जेमिनी कॉन्ट्रेक्टर्स एण्ड ट्रान्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
36.	9047	मैसर्स इन्स्टेंट एग्रो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
37.	9098	मैसर्स स्कैनस सिक्यूरिटीज़ प्राईवेट लिमिटेड
38.	9196	मैसर्स ग्लोर प्लान्टेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
39.	9236	मैसर्स स्टालियन प्राईवेट लिमिटेड
40.	9268	मैसर्स लेचिव कमोडिटीज़ प्राईवेट लिमिटेड
41.	9276	मैसर्स सुनीमनी प्लान्टेशन प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
42.	9309	मैसर्स थोटुंगल चिट्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
43.	9314	मैसर्स ग्रिप इण्डिया प्रोपर्टीज़ प्राईवेट लिमिटेड
44.	9324	मैसर्स केरला कार्ड प्राईवेट लिमिटेड
45.	9329	मैसर्स जेएनवी स्टॉक्स एण्ड शेयर्स प्राईवेट लिमिटेड
46.	9339	मैसर्स स्वराष्ट्र फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड
47.	9407	मैसर्स तमिल नाडु सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
48.	9483	मैसर्स अल फलेह कारगो लिंक्स प्राईवेट लिमिटेड
49.	9537	मैसर्स सनातना हर्बल्स एण्ड फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
50.	9686	मैसर्स फलीन्ट्स रिट्रीट प्राईवेट लिमिटेड
51.	9688	मैसर्स वालायर चिट्स एण्ड फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड
52.	9755	मैसर्स केरला ट्रेड लिंक्स प्राईवेट लिमिटेड
53.	9768	मैसर्स विजेयम प्लान्टेन्स एण्ड रीयल एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
54.	9798	मैसर्स कोट्यपुरम लीसिंग एण्ड फायनान्शियल प्राईवेट लिमिटेड
55.	9799	मैसर्स विष्णु फायनान्शियल सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
56.	9831	मैसर्स ग्रे गोल्ड कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
57.	9840	मैसर्स कोचिन डवलपमेंट सिंडिकेट प्राईवेट लिमिटेड
58.	9895	मैसर्स नागममा प्लान्टेन्स प्राईवेट लिमिटेड
59.	9969	मैसर्स सिको प्राईवेट लिमिटेड
60.	10067	मैसर्स एडयार होल्डिंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
61.	10117	मैसर्स एम के पी लेटेक्स प्राईवेट लिमिटेड
62.	10133	मैसर्स सूर्याकिरन ट्रेड्स एण्ड लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड
63.	10169	मैसर्स टैडल मार्केटिंग एण्ड सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
64.	10216	मैसर्स पारवती कन्नन क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
65.	10236	मैसर्स जी एस ग्रुप ऑफ कम्पनीज़ प्राईवेट लिमिटेड
66.	10301	मैसर्स वरदानम चिट्स एण्ड फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड
67.	10338	मैसर्स अनागा प्लान्टेन्स प्राईवेट लिमिटेड
68.	10352	मैसर्स पूजिता चिट्स एण्ड हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड
69.	10353	मैसर्स बीटल प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
70.	10354	मैसर्स धीरज कुरीज़ एण्ड लोन प्राईवेट लिमिटेड
71.	10488	मैसर्स माल्या इन्वेस्टमेंट्स एण्ड कुरीज़ प्राईवेट लिमिटेड
72.	10561	मैसर्स धन्ना स्वरूप एण्ड सोशियल वेलफेयर सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड
73.	10641	मैसर्स थिसिस लिजिंग एण्ड हायर परचेजिंग प्राईवेट लिमिटेड
74.	10732	मैसर्स एमपिपल इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
75.	10890	मैसर्स मनोला चिट्स एण्ड फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड
76.	11035	मैसर्स सौहरुतम कुरीज़ एण्ड लोन्स प्राईवेट लिमिटेड
77.	11041	मैसर्स तारा लिंक्स प्राईवेट लिमिटेड
78.	11059	मैसर्स आई जी पी फायनासीयर्स प्राईवेट लिमिटेड
79.	11075	मैसर्स ट्रान्समेड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
80.	11189	मैसर्स श्री भगवती इन्टरप्राइजेस प्राईवेट लिमिटेड
81.	11231	मैसर्स माग्ना ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
82.	11248	मैसर्स डास्को होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
83.	11264	मैसर्स अमरापुरी चिट्स एण्ड फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड
84.	11356	मैसर्स विशवास कुरीज़ एण्ड लोन्स प्राईवेट लिमिटेड
85.	11514	मैसर्स लॉयल फ्रेट शिपिंग एजेन्सीज़ प्राईवेट लिमिटेड
86.	11646	मैसर्स ट्रेन्ड्स प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
87.	11838	मैसर्स रीज ब्लेन्ड टी प्राईवेट लिमिटेड
88.	12495	मैसर्स सत्या मरीन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
89.	12564	मैसर्स लाईफ काईस एण्ड सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
90.	12567	मैसर्स होटल हार्बरव्यू प्राईवेट लिमिटेड
91.	12665	मैसर्स कॉकन ऑरगेनिक्स फार्म्स एण्ड प्लान्टेन्स प्राईवेट लिमिटेड
92.	12744	मैसर्स अक्षय सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
93.	12752	मैसर्स प्रोझीमा पॉलीमर्स प्राईवेट लिमिटेड
94.	12791	मैसर्स एपीएस एडीबल्स प्राईवेट लिमिटेड
95.	12847	मैसर्स पम्पैडी फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
96.	12859	मैसर्स वालफोर इन्फो सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
97.	12992	मैसर्स गुडलक सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
98.	13068	मैसर्स गोल्डन स्पैरो फिल्म्स प्राईवेट लिमिटेड
99.	13256	मैसर्स बेस्ट मिलैिनियम ट्रेड लिंक्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
100.	13548	मैसर्स विनेश्वर फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
101.	13729	मैसर्स डेल एण्ड हिल एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
102.	13747	मैसर्स इन्टरफिनिश इन्टिरीयर सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
103.	13985	मैसर्स कनैक्ट केरला डॉट कॉम प्राईवेट लिमिटेड
104.	14144	मैसर्स आडियल फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
105.	14228	मैसर्स हाईनैस प्रोपर्टीज़ प्राईवेट लिमिटेड
106.	14253	मैसर्स प्रनवम होलिडेज़ प्राईवेट लिमिटेड
107.	14282	मैसर्स मालाबार टूल्स प्राईवेट लिमिटेड
108.	14310	मैसर्स इनोवेट फोर्च्यून रैमैडिज़ प्राईवेट लिमिटेड
109.	14342	मैसर्स ट्रावनकूर इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
110.	14370	मैसर्स इन्डकोर आर्चिटेक्चर्स एण्ड बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड

के. जी. जोसफ जाक्सन  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
केरल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स श्रवण स्टील प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
चेन्नई-600006, दिनांक 11 नवम्बर 2010

सं. 69079/560(5)/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स श्रवण स्टील प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

वी. सी. दवे  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु, अन्डमाण एण्ड निकोबार द्विपपुंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स एचवी इन्टेलीजेन्ट सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
चेन्नई-600006, दिनांक 11 नवम्बर 2010

सं. 72706/560(5)/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एचवी इन्टेलीजेन्ट सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

वी. सी. दवे  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु, अन्डमाण एण्ड निकोबार द्विपपुंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स ग्रामेक फायनाशियल सर्विसिस लिमिटेड के विषय में  
चेन्नई-600006, दिनांक 11 नवम्बर 2010

सं. 28620/560(5)/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ग्रामेक फायनाशियल सर्विसिस लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

वी. सी. दवे  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु, अन्डमाण एण्ड निकोबार द्विपपुंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स एपेक्स ऑक्सालेट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
चेन्नई-600006, दिनांक 11 नवम्बर 2010

सं. 17251/560(5)/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एपेक्स ऑक्सालेट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

वी. सी. दवे  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु, अन्डमाण एण्ड निकोबार द्विपपुंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स सोसाईटी निर्वणैस डी मेड्यलरजी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
चेन्नई-600006, दिनांक 11 नवम्बर 2010

सं. 68195/560(5)/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सोसाईटी निर्वणैस डी मेड्यलरजी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

वी. सी. दवे  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु, अन्डमाण एण्ड निकोबार द्विपपुंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रैट्टैक आउटसोर्सिंग सिस्टम्स  
डिस्ट्रीब्यूशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
चेन्नई-600006, दिनांक 11 नवम्बर 2010

सं. 70373/560(5)/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है

कि मैसर्स रैट्टैक आउटसोर्सिंग सिस्टम्स डिस्ट्रीब्यूशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

वी. सी. दवे  
कम्पनी रजिस्ट्रार

तमिलनाडु, अन्डमाण एण्ड निकोबार द्विपपुंज

-----

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स फ्यूचर बायो फर्टीलाइज़र प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

चेन्नई-600006, दिनांक 11 नवम्बर 2010

सं. 69220/560(5)/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स फ्यूचर बायो फर्टीलाइज़र प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

वी. सी. दवे  
कम्पनी रजिस्ट्रार

तमिलनाडु, अन्डमाण एण्ड निकोबार द्विपपुंज

-----

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स आईओएच टैक्सटायिल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

चेन्नई-600006, दिनांक 11 नवम्बर 2010

सं. 30292/560(5)/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स आईओएच टैक्सटायिल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर

से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

वी. सी. दवे  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु, अन्डमाण एण्ड निकोबार द्विपपुंज

-----

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स मॉर्निंगस्टार रिसर्च प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

चेन्नई-600006, दिनांक 11 नवम्बर 2010

सं. 64533/560(5)/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मॉर्निंगस्टार रिसर्च प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

वी. सी. दवे  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु, अन्डमाण एण्ड निकोबार द्विपपुंज

-----

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स ब्रेन कर्व चाइल्ड डवलपमेंट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

चेन्नई-600006, दिनांक 11 नवम्बर 2010

सं. 66572/560(5)/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ब्रेन कर्व चाइल्ड डवलपमेंट प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

वी. सी. दवे  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु, अन्डमाण एण्ड निकोबार द्विपपुंज

## SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 29th October 2010

No. F. 20/2010-SCA(I)—I. The Competent Authority has been pleased to review and ad hoc promotion of Mrs. Renuka Sadana and promoted her as Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) on regular basis with effect from 18.10.2010.

II. The Competent Authority has been pleased to continue the ad hoc promotion of Shri Nand Ballabh Dhyani, as Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand).

III. The Competent Authority has been pleased to promote Ms. Sneha Lata Sharma and Shri Bharat Bhushan Madan, Senior Court Assistants/Editor of Paper Books as Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) on ad hoc basis with effect from 20-10-2010 (A/N).

ASHOK KUMAR  
Registrar (Admn. I)

The 8th November 2010

No. F.6/1/70/2010-SCA(I)—I. Shri T. Sivadasan, Registrar has retired voluntarily from the service of the Registry of the Supreme Court of India with effect from the forenoon of November 1, 2010.

II. Smt. Pushpa Ramdeo, Dy. Registrar has retired from the service of the Registry of the Supreme Court of India with effect from the afternoon of October 31, 2010 on her attaining the age of superannuation.

ASHOK KUMAR  
Registrar (Admn. I)

## UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110069, the 2nd November 2010

No. 12/3/2004-OM&WS—In supersession of notification of even number dated 13.04.2009, the following officers are hereby authorized to act under Section 25(1) of "The Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce. Production, Supply and Distribution) Act, 2003" and 'prohibition of Smoking in public places Rules, 2008' to implement the provisions of the aforesaid Act/Rules in the office premises of the Union Public Service Commission in the area/floor indicated against each :—

Sl.	Name of the Officer	Building	Floor
1	2	3	4
1.	Shri Rajiv Srivastava, Joint Secretary	Nodal Officer	(Overall in charge)
2.	Shri D. S. Tariyal, PS & Shri Vikram Nair, PS	Main Building	Ground Floor
3.	Shri G. Roy, US	Main Building	First Floor
4.	Shri P. Jagadeshan, PS & Smt. Manjula Saxena, US	Annexe Building	Ground Floor

1	2	3	4
5.	Shri Dinesh Kumar, Under Secretary	Annexe Building	First Floor
6.	Shri Dharmvir Sharma, US	Annexe Building	Second Floor
7.	Shri Baljit Singh, US	Annexe Building	Third Floor
8.	Shri D.P.S. Chowhan, Deputy Secretary	Exam Hall	
9.	Shri Ram Singh, D.O.	Ayog Sachivalaya	Ground Floor
10.	Shri C. L. Bhat, US	Ayog Sachivalaya	First Floor
11.	Shri Neeraj Kumar, SO	Ayog Sachivalaya	Second Floor
12.	Dr. Kulbir Singh, Jt. Director	Ayog Sachivalaya	Third Floor
13.	Shri Pradeep Mehta, Sr. Manager (EDP), Smt. Sarita Taneja, SO	Ayog Sachivalaya	Fourth Floor
14.	Shri A. K. Dahiya, Programmer & Sh. Vijay Singh, Sr. Programmer	Ayog Sachivalaya	Fifth Floor
15.	Shri G. C. Gaur, Security Officer	All Common areas like Canteen, Guest House, and Central hall, open Ground etc. specifically not covered by the Officers, mentioned against Sl. No. 2 to 14.	

RAJIV SRIVASTAVA  
Joint Secy. (Admn.)

New Delhi, the 19th October 2010

No. A-60011/13/2009-RTI Cell (Admn)—In terms of Section 5(2) of the Right to Information Act, 2005, Shri S. K. Jha, Dy. Secy. (Services-I) of the Union Public Service Commission is hereby designated as Central Public Information Officer till further orders in place of Shri Y. P. Gupta, Jt. Secy., in respect of the specific subject matters mentioned against his name as under :—

Name of the CPIO	Subject matters	Appellate Authority
Shri S.K. Jha, DS(S-I) Tele. No. 23098546 FAX No. 23383766	All matters pertaining to disciplinary cases (referred to the Commission) involving imposition of major penalty.	Sh. Rajesh, JS(S-I) Tele. No. 23073413 FAX No. 23073413

DINESH KUMAR  
Under Secy. (Admn.)

The 27th October 2010

No. A-60011/13/2009-RTI Cell (Admn)—In terms of Section 5(1) of the Right to Information Act, 2005, Shri A.K. Mishra, Under Secy. (Services-I) of the Union Public Service Commission is hereby designated as Central Public



Information Officer till further orders in place of Shri P.P. Nagrath, Under Secy., in respect of the specific subject matters mentioned against his name as under :—

Name of the CPIO	Subject matters	Appellate Authority
Shri A.K. Mishra, US(S-I) Tel. No. 23387346	All matters pertaining to disciplinary cases (referred to the Commission) involving imposition of minor penalty and pension cuts of Group "C" and "D" posts.	Sh. Rajesh, JS(S-I) Tele. No. 23073413 FAX No. 23073413

**DINESH KUMAR**  
Under Secy. (Admn.)

New Delhi, the 25th October 2010

No. A-60011/13/2009-RTI Cell (Admn.)—In terms of Section 5(2) of the Right to Information Act, 2005, the following officers of the Union Public Service Commission are hereby designated as Central Public Information Officers in respect of the specific subject matters mentioned against their names :—

S. No.	Name of the CPIO	Subject matters	Name of Appellate Authority
1.	Shri Dinesh Kumar US(Admn.) Tele. No. 23381665 Fax No. 23098552	All RTI related matters pertaining to Administration, Accounts and Vigilance including all personnel and Establishment RTI matters of Gazetted and non-Gazetted staff of UPSC.	Sh. Rajiv Srivastava, JS (Admn. I, GV & RTI) Tele. No. 23386793 Fax No. 23098552
2.	Shri Manoj Srivastava, US(S-II) Tele. No. 23387358 Fax No. 23098552	All Policy matters pertaining to service rules/regulations and amendments thereto, UPSC (exemption from consultation) regulations, and references received for advice/recommendations of the UPSC, Annual Report of UPSC, references received from various State PSCs including conference of State PSCs.	Sh. Rajiv Srivastava, JS (Admn. I, GV & RTI) Tele. No. 23386793 Fax No. 23098552

**K. M. SASIDHARAN**  
Under Secy. (Admn.)

New Delhi-110003, the 27th October 2010

No. DPPERS.i/2010/69/11/05/2001-PERS.I—The President is pleased to appoint the following Deputy Supdts. of Police, CBI as Addl. Supdts. of Police in the Central Bureau of Investigation, Special Police Establishment, on promotion, with effect from the dates mentioned against their names :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of appointment as Addl. SP
1.	Shri Basil Kerketta	05.10.2010
2.	Shri Baldev Singh Dogra	01.10.2010

**S. J. M. GILLANI**  
Dy. Director (Admn.)

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 15th November 2010

No. E-16013(1)/4/2009/Pers-I/244—On attaining the age of Superannuation, Smt. Manjari Jaruhar, IPS (JHK:1976) has relinquished the charge of the post of Special Director General, Central Industrial Security Force, New Delhi, with effect from the afternoon of 31st October 2010.

**INDERJEET KAUR**  
Director (Police)

## DIRECTORATE GENERAL, CRPF

New Delhi-110003, the 10th November 2010

No. O-II-8356/2010-Pers (DA-5)—Consequent on acceptance of notice of resignation from service, Shri Addanki Venkatesh, Assistant Commandant (Trainee Officer) (IRLA-8356) relinquished the charge of his post on 21st October 2010 (AN). Accordingly, he has been struck off the strength of the department with effect from the same date i.e. 21.10.2010 (AN).

**T. CHANDRASEKHARAN**  
DIG (Pers)

No. A-VI-1/2010-Pers (DA-5)—The president is pleased to appoint the following candidates as Assistant Commandants in Central Reserve Police Force in the pay scale of Rs. 15,600—39,100/- (Grade Pay Rs. 5,400/-) in a temporary capacity until further orders, against the overall strength of Central Reserve Police Force :—

S. No.	Name of Officer	Date of Joining
1	2	3
1.	Babulal Pareek	25.08.2010 (AN)
2.	Sourabh Somvanshi	29.08.2010 (FN)
3.	Viirendra Singh Rajput	25.08.2010 (AN)
4.	Ashutosh Vardey	25.08.2010 (AN)
5.	Sujit Kumar Jha	25.08.2010 (AN)
6.	Dharmendra Narayan Singh	26.08.2010 (AN)
7.	Vijay Singh	25.08.2010 (FN)
8.	Asutosh Kumar	26.08.2010 (AN)
9.	Amit Kumar Singh	25.08.2010 (AN)
10.	Chandra Shekher Singh Kushwaha	25.08.2010 (AN)
11.	Velat Ram Dangi	26.08.2010 (FN)
12.	Damodar Singh	25.08.2010 (AN)
13.	Dinesh	25.08.2010 (AN)
14.	Miss Kumari Ranjita	25.08.2010 (FN)
15.	Ajit Kumar Singh	26.08.2010 (AN)
16.	Satyavir Singh	25.08.2010 (AN)
17.	Vijay Prakash Chaubey	25.08.2010 (AN)
18.	Miss Renuka Deepika Soreng	25.08.2010 (AN)
19.	Om Prakash Vishnoi	25.08.2010 (FN)
20.	Vimal Kumar	25.08.2010 (AN)
21.	A Vizao Angami	25.08.2010 (AN)
22.	Rameshwar Singh Rathore	26.08.2010 (FN)
23.	Anil Kumar	25.08.2010 (AN)

1	2	3
24.	Sanjay Kumar Jha	27.08.2010 (FN)
25.	E. Ezhilarasu	25.08.2010 (FN)
26.	Radhika Bist	25.08.2010 (AN)
27.	Ashuthosh Sarangi	25.08.2010 (AN)
28.	Deepak Kumar Singh	26.08.2010 (AN)
29.	Om Prakash Kagat	29.08.2010 (FN)
30.	Pamkaj Kumar Singh	24.08.2010 (AN)
31.	Jitendra Kumar Yadav	25.08.2010 (AN)
32.	Arvind Singh Raghuwanshi	27.08.2010 (FN)
33.	S. Srinivasan	26.08.2010 (AN)
34.	Sanjay Sharma	25.08.2010 (FN)
35.	Basant Kumar	26.08.2010 (AN)
36.	Om Prakash Yadav	25.08.2010 (AN)
37.	Manish Lodha	25.08.2010 (AN)
38.	Shailendra Kr Singh Chandel	26.08.2010 (AN)
39.	S.N. Ashok Kumar	25.08.2010 (FN)
40.	Bhuwanesh Kumar	25.08.2010 (FN)
41.	Sanjeev Kumar	25.08.2010 (AN)
42.	Naresh Prasad Yadav	26.08.2010 (AN)
43.	Pramod Kumar Joshi	25.08.2010 (FN)
44.	Miss Anjana	25.08.2010 (AN)
45.	Vikas Babu	16.09.2010 (FN)
46.	Sachidananda Patra	25.08.2010 (AN)
47.	Pradeep D. T.	25.08.2010 (FN)
48.	Choudhary Kaleem Ulla	25.08.2010 (AN)
49.	Jogendra Kumar Patel	25.08.2010 (AN)
50.	Braj Bhushan Kumar	27.08.2010 (FN)
51.	Ran Singh	25.08.2010 (AN)
52.	Purushottam Verma	25.08.2010 (AN)
53.	Biswa Ranjan Sahoo	26.08.2010 (AN)
54.	Raj Kumar	25.08.2010 (AN)
55.	Sumesh Kumar.V	25.08.2010 (AN)
56.	Chetan Prakash	24.08.2010 (AN)
57.	A. Murugavel	25.08.2010 (AN)
58.	Jasbir Singh	26.08.2010 (AN)
59.	Ishar Lal Bairwa	25.08.2010 (AN)
60.	Smt. Meenakshi Singh	25.08.2010 (AN)
61.	Anil Kumar	25.08.2010 (AN)
62.	D. Raja Ilam Parithi	25.08.2010 (AN)
63.	Ajeet Kumar Ram	25.08.2010 (AN)
64.	Satish Kumar	25.08.2010 (AN)
65.	Sukhvinder Singh	25.08.2010 (AN)
66.	Ashok Kumar	26.08.2010 (AN)
67.	Budh Ram	28.08.2010 (AN)
68.	Rajkumar Choudhary	25.08.2010 (AN)
69.	Gopal Ram	26.08.2010 (AN)
70.	Miss Shanti Kisku	25.08.2010 (AN)
71.	Gurucharan Kalindia	26.08.2010 (AN)
72.	Chandan Gidhi	25.08.2010 (AN)

2. They have reported to CRPF Academy, Kadarpur (Gurgaon) for training and have taken over the charge of their post on the dates noted against their names.

T. CHANDRASEKHARAN  
DIG (Pers.)

No. O-II-8340/2010-Pers (DA-5) —Consequent on acceptance of notice of resignation from service, Shri Mukund Kumar, Assistant Commandant (Trainee Officer) (IRLA-8340) relinquished the charge of his post on 21st October 2010 (AN). Accordingly, he has been struck off the strength of the department with effect from the same date i.e. 21.10.2010 (AN).

T. CHANDRASEKHARAN  
DIG (Pers.)

No. O-II-8420/2010-Pers (DA-5) —Consequent on acceptance of notice of resignation from service, Shri Neeraj Kumar, Assistant Commandant (Trainee Officer) (IRLA-8420) relinquished the charge of his post on 15th October 2010 (AN). Accordingly, he has been struck off the strength of the department with effect from the same date i.e. 15.10.2010 (AN).

T. CHANDRASEKHARAN  
DIG (Pers.)

No. O-II-8457/2010-Pers (DA-5) —Consequent on acceptance of notice of resignation from service, Shri Arvind Kumar Bansod, Assistant Commandant (Trainee Officer) (IRLA-8457) relinquished the charge of his post on 21st October 2010 (AN). Accordingly, he has been struck off the strength of the department with effect from the same date i.e. 21.10.2010 (AN).

T. CHANDRASEKHARAN  
DIG (Pers.)

No. O-II-8409/2010-Pers (DA-5) —Consequent on acceptance of notice of resignation from service, Shri Soibam Gokul Chandra Singh, Assistant Commandant (Trainee Officer) (IRLA-8409) relinquished the charge of his post on 21st October 2010 (AN). Accordingly, he has been struck off the strength of the department with effect from the same date i.e. 21.10.2010 (AN).

T. CHANDRASEKHARAN  
DIG (Pers.)

The 15th November 2010

No. O-II-3634/2010-Pers—The Govt. of India have appointed Shri Anirudh Uppal, IPS (HP : 76) as Special Director General of Police in CRPF on deputation in the pay scale of Rs. 75,500—80,000/- until his superannuation on 30.09.2012 or till further orders, whichever event takes place earlier.

2. The officer accordingly took over the charge of the post of Special Director General of Police, CRPF at Directorate General, CRPF, New Delhi on the forenoon of 25.10.2010.

T. CHANDRASEKHARAN  
DIG (Pers.)

DIRECTORATE OF COORDINATION  
(POLICE WIRELESS)

New Delhi-3, the 29th October 2010

No. A. 12012/4/EAD(CY)/2010-Admn. II—Shri Dharam Pal, Technical Superintendent (Cipher) of this Directorate has been promoted to the post of Extra Assistant Director (Cipher) in the pay scale of Rs. 9,300—34,800/-, Grade Pay Rs. 4,800/- with effect from 1st July, 2010 until further orders.

P. K. SINGHAL  
Director

No. A. 12012/4/EAD(CY)/2010-Admn. II—Shri Prabhu Dayal, Cipher Assistant of this Directorate has been promoted to the post of Extra Assistant Director (Cipher) in the pay scale of Rs. 9,300—34,800/-, Grade Pay Rs. 4,800/- with effect from 10th September, 2010 until further orders.

P. K. SINGHAL  
Director

DIRECTORATE GENERAL  
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi, the 15th November 2010

No. E-16013/1/1/03/Pers.II/246—On repatriation to parent cadre, Shri R. K. Mishra, IPS (BH : 1986), Inspector General, CISF relinquished the charge of the post of IG, CISF, Western Sector HQrs., Mumbai in the forenoon of 01.11.2010.

Sd/- ILLEGIBLE  
Director Genral/CISF

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT  
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT  
(CENTRAL EXPENDITURE)

New Delhi-110002, the 22nd November 2010

No. Admn.I/O.O. No. 271—Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri Bhupal Singh Rawat, Senior Audit Officer (Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/-) of this office is retiring from Government Service on 30.11.2010 (A/N).

His date of birth is 12.11.1950 and he joined Government service on 23.09.1971.

Sd/- ILLEGIBLE  
Director (Admn.)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL  
(A&E), ANDHRA PRADESH

Hyderabad-500004, the 19th November 2010

No. PAG(A&E)/Admn-I/I/8-88/2010-11/138—Principal Accountant General (A&E), A.P., Hyderabad is pleased to promote the under mentioned Assistant Accounts Officer to officiate as Accounts Officer in the pay band of (Rs. 9,300—34,800/- (PB-2) with grade pay of Rs. 5,400/- with effect from the date shown against her name:—

Name	O.O. No. & Date	Date of assumption of charge as A.O.
Shri P Vijaya	Admn-I/U-I/4-6/2010-11 O.O. No. 82 dt. 28.10.10	28.10.2010 F.N.

The promotion ordered is without prejudice to the claims of her seniors, if any, and also subject to the result of the writ petitions pending in the Andhra Pradesh High Court/Supreme Court/Central Administrative Tribunal.

S. SATYANARAYANA  
Dy. Accountant General (Admn.)

ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

New Delhi, the 16th November 2010

No. 10/1/2000/M—In exercise of the powers conferred under rule 6 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959, the Director General, Archaeological Survey of India, hereby direct that no entry fee shall be charged at the Centrally Protected Monuments/Archaeological Sites & Remains specified in the Second Schedule of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959 on 19th November, 2010 on the commencement of the World Heritage Week celebrations

A. K. SINHA  
Director (Monument)  
For Director General

MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION  
TECHNOLOGY  
(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

WIRELESS MONITORING ORGANISATION

New Delhi-110062, the 19th November 2010

No. A-32012/2/10-Admn./2711—The Wireless Adviser to the Government of India, Ministry of Communications & I.T., Department of Telecommunications, hereby appoints Shri K. P. Haridasan, Accountant of the Wireless Monitoring Organisation, Ministry of Communications & I.T., Department of Telecommunications, to the post of Administrative Officer (Group B Gazetted) on ad-hoc basis in the same Organisation, in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,600/- w.e.f. the forenoon of 06.10.2010 for a period of

six months or till a regular candidate is appointed on deputation basis, whichever is earlier.

He is posted at WRHQ, Mumbai.

A. K. NARULA  
Dy. Dir.

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY  
DIRECTORATE OF PURCHASE & STORES

Mumbai-400094, the 8th November 2010

No. DPS/07007/Rectt./5321—The Director, Directorate of Purchase & Stores, Department of Atomic Energy, appoints Shri Shashikant G. Gaikwad, Stenographer Grade-I (Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,200/-), Central Purchase Unit, Mumbai, as Private Secretary (Non-Secretariat) in the Pay Band-2 Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 4,600/-, in the same unit with effect from the afternoon of 2nd November 2010, until further orders.

CATHERINE RAJ  
Administrative Officer-III

NUCLEAR FUEL COMPLEX

Hyderabad-500062, the 4th November 2010

No. NFC/PAR-I/04/06/1177—In continuation of Notification No. NFC/PAR-I/04/06/1081 dated 05.10.2010 the ad hoc appointment of Smt. D. Vijanthi Mala, Assistant Accountant to officiate as Assistant Accounts Officer in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4,800/- has been extended upto 30.11.2010 or until further orders, whichever is earlier.

K. P. S. PILLAI  
Administrative Officer

No. NFC/PAR-I/04/06/1178—In continuation of Notification No. NFC/PAR-I/04/06/1079 dated 05.10.2010 the ad hoc appointment of Shri V. Bharat Bhushan, Assistant Accountant to officiate as Assistant Accounts Officer in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4,800/- has been extended upto 23.11.2010 or until further orders, whichever is earlier.

K. P. S. PILLAI  
Administrative Officer

No. NFC/PAR-I/04/06/1179—In continuation of Notification No. NFC/PAR-I/04/06/1080 dated 05.10.2010 the ad hoc appointment of Smt. P. V. S. Phani Sri, Assistant Accountant to officiate as Assistant Accounts Officer in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4,800/- has been extended upto 30.11.2010 or until further orders, whichever is earlier.

K. P. S. PILLAI  
Administrative Officer

The 19th November 2010

No. NFC/PAR-II/Prom.10/892—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers/Engineers Grade 'F' to the Grade of Scientific Officer/Engineer 'G' in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- plus Grade Pay of Rs. 8,900/- of Nuclear Fuel Complex, Hyderabad with effect from 01.07.2010 in the same unit, in an officiating capacity, until further orders :—

Sl. No.	Name
	(S/Shri/Smt./Kum.)
1.	D. Vijay Kumar
2.	B. Gopinath Rao
3.	K. Murali Krishna
4.	J. K. Rout
5.	Y. Vishwanath
6.	Deepak Mohanty
7.	S. Harilingam
8.	Johnson D'Souza
9.	B. Kamalesh Kumar
10.	K. S. Lakshmi
11.	S. K. Pathak
12.	J. V. Raj Kumar
13.	M. Rajasri
14.	M. V. Ramana
15.	R. V. R. L. Visveswara Rao
16.	A. Venugopal Reddy
17.	Shabeena Begum
18.	S. V. Venkateswaran
19.	T. Vijaya Kumar

K. P. S. PILLAI  
Administrative Officer-III

DIRECTORATE GENERAL OF INDIA  
CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT

New Delhi, the 29th October 2010

No. 27/16/88-CA(NDR)/Estt.—Consequent upon his attaining the age of superannuation, Shri Ashok Kumar Malik, Senior Architect Office of Senior Architect-XIII, Central Public Works Department, Nirman Bhawan, New Delhi-110011 retires from government service with effect from the afternoon of 31.10.2010 (being Saturday & Sunday on 30.10.2010 & 31.10.2010 as closed day).

VIJAY PRAKASH RAO  
Liaison Officer to Chief Architect  
(New Delhi Region)

## MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

## OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ara Valley Golf and Country Club Private Limited

New Delhi-110019, the 3rd July 2010

No. 560(5)/044288—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ara Valley Golf and Country Club Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

EGINIUS TIRKEY

Dy. Registrar of Companies

National Capital Territory of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. A. M. Nayar and Associates Private Limited

New Delhi-110019, the 3rd July 2010

No. 560(5)/044973—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. A. M. Nayar and Associates Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

EGINIUS TIRKEY

Dy. Registrar of Companies

National Capital Territory of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Amco Chit Fund Private Limited

New Delhi-110019, the 3rd July 2010

No. 560(5)/044302—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Amco Chit Fund Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

EGINIUS TIRKEY

Dy. Registrar of Companies

National Capital Territory of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. ACW Chit Fund Private Limited

New Delhi-110019, the 3rd July 2010

No. 560(5)/047085—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. ACW Chit Fund Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

EGINIUS TIRKEY

Dy. Registrar of Companies

National Capital Territory of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Karam Chand and Company Private Limited

New Delhi-110019, the 16th November 2010

No. 560(5)/041801—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Karam Chand and Company Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

EGINIUS TIRKEY

Dy. Registrar of Companies

National Capital Territory of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Interlink Spaceways Private Limited

New Delhi-110019, the 15th September 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2010/00116—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Interlink Spaceways Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

ATMA SAH

Asstt. Registrar of Companies

National Capital Territory of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Gyro Engineers Private Limited

New Delhi-110019, the 21st September 2010

No. 560(5)/038797—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Gyro Engineers Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

ATMA SAH

Asstt. Registrar of Companies

National Capital Territory of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Calcom Exports Private Limited

New Delhi-110019, the 4th October 2010

No. 560(5)/042642—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Calcom Exports Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

ATMA SAH

Asstt. Registrar of Companies

National Capital Territory of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Adler Overseas Private Limited

New Delhi-110019, the 13th October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2010/00031—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Adler Overseas Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

ATMA SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
National Capital Territory of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Adler Overseas Private Limited

New Delhi-110019, the 13th October 2010

No. 560(5)/042203—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Adler Overseas Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

ATMA SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
National Capital Territory of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sunrise Breweires Limited

New Delhi-110019, the 23rd October 2010

No. 560(5)/060932—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sunrise Breweires Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

ATMA SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
National Capital Territory of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Blue Sky Pharma Limited

New Delhi-110019, the 23rd October 2010

No. 560(5)/060933—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of Blue Sky Pharma Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

ATMA SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
National Capital Territory of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sanathan Gaurav Chalchitra Sansthan  
Private Limited

New Delhi-110019, the 28th September 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2010/00220—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sanathan Gaurav Chalchitra Sansthan Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

ATMA SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
National Capital Territory of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. A. F. Finlease Private Limited

New Delhi-110019, the 10th November 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2010/00575—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. A. F. Finlease Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

ATMA SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
National Capital Territory of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Brownly Leasing and Finance Private Limited

New Delhi-110019, the 21st October 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2010/00117—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Brownly Leasing and Finance Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

ASHOK KUMAR  
Asstt. Registrar of Companies  
National Capital Territory of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Aadhar Infotech Research Private Limited

New Delhi-110019, the 21st October 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2010/00111—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Aadhar Infotech Research Private Limited unless cause

is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Asstt. Registrar of Companies  
National Capital Territory of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. B. B. Industrial Consultants and Engineers  
Private Limited

New Delhi-110019, the 2nd November 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2010/00023—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. B. B. Industrial Consultants and Engineers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Asstt. Registrar of Companies  
National Capital Territory of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Atiniv Financial Services Limited

New Delhi-110019, the 8th November 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2010/00127—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Atiniv Financial Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

ANITA KHAIR  
Asstt. Registrar of Companies  
National Capital of Territory of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and  
of the following Companies

Jaipur-302001, the 18th November 2010

No. ROC/JPR/560(5)/1214—Notice is hereby given pursuant to sub-section 5 of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following companies have this day been struck off from the register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	CIN	Name of the Company
1	2	3
1.	001899	M/s. Jagetia Paper Mills Private Limited.
2.	002126	M/s. Madhuvan Agro Chemical Limited.
3.	002258	M/s. Madhuvan Super Phosphate Manufacturing Works Private Limited.

1	2	3
4.	002392	M/s. Mridula Steel and Wires Limited.
5.	002791	M/s. Computer and Management Services Private Limited.
6.	003441	M/s. R. K. Fabrics Private Limited.
7.	004348	M/s. M. A. Sadriwala Trading Company Private Limited.
8.	005987	M/s. Scot Marketing Private Limited.
9.	006864	M/s. Bhattar Wires Private Limited.
10.	007519	M/s. Mor Securities Private Limited.
11.	007731	M/s. Thar Lands Private Limited.
12.	007822	M/s. Aditi Granites Private Limited.
13.	008005	M/s. R. K. Galvanising Works Private Limited.
14.	008918	M/s. Manak Agrotech Private Limited.
15.	009214	M/s. Gometeswar Finance and Investment Private Limited.
16.	009216	M/s. Novelty Minerals Private Limited.
17.	010109	M/s. Metfin Finance Limited.
18.	010130	M/s. Goodrick Minerals and Chemicals Private Limited.
19.	010156	M/s. Kaushik Buildcon Private Limited.
20.	010242	M/s. Thycon Electronics Private Limited.
21.	010286	M/s. G. M. Hi-Tech Private Limited.
22.	010546	M/s. Maya Spinfeb Limited.
23.	010782	M/s. Rishab Overseas Private Limited.
24.	010992	M/s. Welbuild Complexes Private Limited.
25.	011642	M/s. Ramesh Chemical Private Limited.
26.	011842	M/s. A. V. Communication Private Limited.
27.	013589	M/s. Mangla Minchem Private Limited.
28.	013696	M/s. Rekhashri Marbles Private Limited.
29.	013791	M/s. Halwan Marketing Private Limited.
30.	013962	M/s. Red and White Food Private Limited.
31.	014001	M/s. Suravi Exports Private Limited.
32.	014352	M/s. Manglam Dairy Private Limited.
33.	014566	M/s. Sethi Software and Solutions Private Limited.
34.	014606	M/s. Shree Adinath Project Finance and Management Consultant Private Limited.
35.	014681	M/s. Fateh Finvest Private Limited.
36.	014811	M/s. H. P. Offset Private Limited.
37.	015871	M/s. Kala Sangam Art and Craft Private Limited.
38.	015999	M/s. Chennai Marble Private Limited.
39.	016257	M/s. Bhagwati Share Brokers Private Limited.

1	2	3
40.	016448	M/s. Websthal Infosys Private Limited.
41.	016487	M/s. Life Line. Com Private Limited.
42.	016535	M/s. Avon Infotech Private Limited.
43.	016690	M/s. Kailash Techservices Private Limited.
44.	016897	M/s. Captain Arts and Crafts Private Limited.
45.	017196	M/s. Channi Hotel and Resorts Private Limited.
46.	017398	M/s. New Line Software Private Limited.
47.	017854	M/s. B. L. Hybrid Seeds Private Limited.
48.	017884	M/s. Step 2 Designs Private Limited.
49.	017915	M/s. Jennae E. Pharma Private Limited.
50.	018620	M/s. Bhavya Handicrafts Private Limited.
51.	018621	M/s. Yash Handicrafts Private Limited.
52.	018977	M/s. UR Marketing Private Limited.
53.	019262	M/s. Suhani Gems Private Limited.
54.	019415	M/s. Shri Shyam Solvent Company Private Limited.
55.	019622	M/s. Ayushdeep Consultants Private Limited.
56.	020084	M/s. Jaisalgarh Hotels and Resorts Private Limited.
57.	020100	M/s. Bilwal Real Estates Private Limited.
58.	020159	M/s. Jodhpur Sales Private Limited.
59.	020162	M/s. Prestige Civil Projects (India) Private Limited.
60.	020344	M/s. Alfred Placement Services Private Limited.
61.	020377	M/s. Amrapali Polymers Private Limited.
62.	020775	M/s. Sajjan Minerals Private Limited.
63.	020786	M/s. Safelite Solar India Private Limited.
64.	020810	M/s. Largess Mediserve Private Limited.
65.	020971	M/s. Cosmopolitan Handicrafts Private Limited.
66.	021101	M/s. Obsession Marketing Private Limited.
67.	021412	M/s. P. S. Prime Developers Private Limited.
68.	021515	M/s. Valleyview Colonisers Private Limited.
69.	021763	M/s. Linkway Shoppe (India) Private Limited.
70.	021856	M/s. Meenakshi Infotech Private Limited.
71.	021956	M/s. Bhagat Dreamland and Developers Private Limited.
72.	022021	M/s. Lakshmi Narayan Legacy Minerals Private Limited.
73.	022052	M/s. Jaipur Pharmachem Private Limited.
74.	022126	M/s. Tirupati Admedia Private Limited.

1	2	3
75.	022247	M/s. Meerain Trade Consultancy Private Limited.
76.	022281	M/s. Galaxystar Consultants and Marketing Private Limited.
77.	022442	M/s. Finemate Synthetic Private Limited.
78.	022445	M/s. Wisdom Labs Private Limited.
79.	022678	M/s. Nohal Consultants Private Limited.
80.	022704	M/s. Satakshi Enclave Private Limited.
81.	022749	M/s. Sun Moon Stones Private Limited.
82.	023204	M/s. Song Cosmetics and Equipment (India) Private Limited.
83.	023604	M/s. Diya Granites Private Limited.
84.	024179	M/s. Lakshya Krishna Jewels Private Limited.
85.	023828	M/s. Ambay Kripa Developers Private Limited.
86.	024460	M/s. Luvkush Fashion Private Limited.
87.	024615	M/s. Pandit Buildestate Private Limited.
88.	024712	M/s. Amjhar Palace Resorts Private Limited.
89.	024812	M/s. Lifescot Biotech Private Limited.
90.	024846	M/s. Real Cement Private Limited.
91.	024948	M/s. Rajputana Rural Tourism Private Limited.
92.	024967	M/s. Shriram Telecommunications Private Limited.
93.	025727	M/s. Ananta Buildtech Private Limited.
94.	026164	M/s. Matsya Energy System Private Limited.
95.	006115	M/s. Shekhawati Hospital and Medical Research Centre Private Limited.
96.	021197	M/s. Vinayak Biotech Pharma Private Limited.
97.	002559	M/s. Shreyans and Company Private Limited.
98.	023210	M/s. Well Set Insurance Consultancy and Marketing Private Limited.
99.	008631	M/s. A. K. C. L. Exports Limited.
100.	016468	M/s. Vyas Soft Tech Private Limited.
101.	003817	M/s. Avaadh Plantations Private Limited.
102.	015138	M/s. Kanha Ram Electricals Private Limited.
103.	021304	M/s. Percept Education Private Limited.

S. P. KUMAR  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and  
of the following Companies

Chandigarh, the 12th November 2010

No. ROC/560(5)/EES-2010—Notice is hereby given



pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off the Registrar and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	30291	M/s. Oca Education Private Limited
2.	29922	M/s. BPO Intelligence Export Private Limited
3.	29846	M/s. Oca Consulting Group Private Limited
4.	26449	M/s. Outdoor Publicity Services Private Limited
5.	25068	M/s. IC Netcom Services Private Limited
6.	11667	M/s. Tehal Singh Finance Co. Private Limited
7.	16811	M/s. Khan Ispat Private Limited
8.	13986	M/s. Labertech Graphics Private Limited
9.	25325	M/s. Albrite Impex Private Limited
10.	26216	M/s. Green Farms Fertilizers Private Limited
11.	30853	M/s. Gill Blomass Power Generation Co. Private Limited
12.	13788	M/s. Amson Shoes Private Limited
13.	28428	M/s. Goel Mechanical Works Private Limited
14.	16117	M/s. SAP Financial Consultants Private Limited
15.	27986	M/s. Vasu Oil Mills Private Limited
16.	28989	M/s. Jas Exhibitors Private Limited
17.	24914	M/s. Alphonso Cuisines and Entertainments Private Limited
18.	07157	M/s. Matharu Engg. Services Private Limited
19.	16244	M/s. Dhuri Finance and Deposits Private Limited
20.	21887	M/s. H. D. Exports Private Limited
21.	05607	M/s. New Age Motors Private Limited
22.	23939	M/s. Spontaneous Travel Services Private Limited
23.	13663	M/s. Gurjan Belting Private Limited
24.	08275	M/s. Bansal Sales Private Limited
25.	14804	M/s. Himba Investments Private Limited
26.	14805	M/s. Simran Investments Private Limited
27.	26498	M/s. Fateh Security Services Private Limited
28.	29547	M/s. Anchit Teleom Private Limited
29.	13374	M/s. Hans Forgings Private Limited
30.	08989	M/s. Bee Gee Financiers Limited

1	2	3
31.	26480	M/s. IC Mac Abacus Academy India Private Limited
32.	21309	M/s. Bani Enterprises Private Limited
33.	25651	M/s. Composite Placements Private Limited
34.	30392	M/s. Atlas Herbs Private Limited
35.	25942	M/s. Kids Care Educational Academy Private Limited
36.	04542	M/s. Lanaud Tea Estate Private Limited
37.	15351	M/s. Kamal Finvest Private Limited
38.	25386	M/s. Satya Chand & Jewellery Private Limited
39.	25434	M/s. C-Net Campus Computers Private Limited
40.	16871	M/s. Ankur Impex Private Limited
41.	31076	M/s. Royal Vanguard Travels Private Limited
42.	22175	M/s. Jas Agro Foods Limited
43.	08883	M/s. Clearline Foods Private Limited
44.	23976	M/s. Gunvir Chemical Private Limited
45.	08213	M/s. Graduate Sales Private Limited
46.	19771	M/s. K. D. Fincap Private Limited
47.	25261	M/s. Stallon Cycles Private Limited
48.	31135	M/s. Aggarwal Forex Private Limited
49.	25381	M/s. Sankhyan Jobs Consultants Private Limited
50.	30039	M/s. Ekam Impex Private Limited
51.	11302	M/s. Ravneet Investments Private Limited
52.	27290	M/s. Solitaire Sales Network Private Limited
53.	15429	M/s. Shrishti Refinery Limited
54.	23721	M/s. Malwa Infotech Limited
55.	26301	M/s. Sterling Wood Power Co. Private Limited
56.	25210	M/s. Aura IT Solutions Private Limited
57.	23352	M/s. Leo Tools Private Limited
58.	14321	M/s. R. P. Synthetics Private Limited
59.	21437	M/s. Sandhu Spintex Private Limited
60.	26106	M/s. Navkar Tyres Private Limited
61.	28148	M/s. Ultimate Shoes & Garments Private Limited
62.	24884	M/s. Censure Immigration Private Limited
63.	04346	M/s. Rennice Drug House Private Limited
64.	16955	M/s. SAV Financial Reconstruction Private Limited
65.	25366	M/s. Rishi Omega Lottery Services Private Limited

1	2	3	1	2	3
66.	23920	M/s. Samrat Sports Private Limited	99.	10923	M/s. Sakshi Farms Private Limited
67.	29689	M/s. Gurdit Real Estates Private Limited	100.	17933	M/s. Tuft Weaves Private Limited
68.	30746	M/s. Hi-touch Network Computer Education & Marketing Private Limited	101.	31436	M/s. Sidhi Micro Nutrients Private Limited
69.	08872	M/s. Trimurti Deposits and Advances Private Limited	102.	27285	M/s. Chandigarh Online Services Private Limited
70.	25335	M/s. Devoted Network Services Private Limited	103.	27492	M/s. Navjot Builders & Builders Limited
71.	18626	M/s. Harchand Finlease Private Limited	104.	21985	M/s. Sangrur Automobiles Private Limited
72.	30497	M/s. Radhika Network Services Private Limited	105.	06057	M/s. Haryana Leomax Pharmaceuticals Private Limited
73.	31288	M/s. Denis Hitech Private Limited	106.	18102	M/s. Asiatic Spice and Exotic Oils Limited
74.	24651	M/s. Key Point Property Management Private Limited	107.	31689	M/s. Sigma Life Sciences Private Limited
75.	27564	M/s. Anoop Ethnic Wears Private Limited	108.	27565	M/s. Amar Colonizers Private Limited
76.	30570	M/s. M. M. Forex Private Limited	109.	03332	M/s. Jaina Investment and Agencies Private Limited
77.	27536	M/s. Shahi Inns Private Limited	110.	25189	M/s. Dr. Harison Medifoods Private Limited
78.	06014	M/s. Om Dyeing And Milling Private Limited	111.	13154	M/s. Guru Nanak Agro Mills Private Limited
79.	19177	M/s. Tenion Intersystems Private Limited	112.	24696	M/s. Oceanic Logistics Private Limited
80.	05118	M/s. Walia Cementations Private Limited	113.	20014	M/s. Ess Ess Forests and Land Developers Limited
81.	29186	M/s. Mega Royal Empires Private Limited	114.	27265	M/s. Pacific Utility Services Private Limited
82.	11672	M/s. Brinsar India Private Limited	115.	27294	M/s. Nirvana Medicine and Herbal Suppliments Private Limited
83.	19495	M/s. A. G. Castings Private Limited	116.	27112	M/s. Kapurthala Builders Private Limited
84.	00721	M/s. Akal Transport Co. Private Limited	117.	05202	M/s. Monarch Investments Private Limited
85.	03766	M/s. Anand Bus Service Private Limited	118.	29526	M/s. G-Net Vision Private Limited
86.	10030	M/s. Northern Soft Professional Private Limited	119.	31747	M/s. Shalaka Constructions Private Limited
87.	14946	M/s. Angra Financial Services Private Limited	120.	04648	M/s. Sukrit Private Limited
88.	27633	M/s. R. And A. Info Solutions Private Limited	121.	23449	M/s. Sehra Engineers Private Limited
89.	22330	M/s. Jagatjit Marketing Limited	122.	24691	M/s. Magic Life Marketing India Limited
90.	28016	M/s. V. G. Khanna Impex India Private Limited	123.	29172	M/s. Shark Service Providers Private Limited
91.	24227	M/s. Sunglow Pharmaceuticals Private Limited	124.	23914	M/s. J. C. Foods Private Limited
92.	27109	M/s. Jatin Exports Private Limited	125.	26358	M/s. Shicom High Tech. Prints Private Limited
93.	28363	M/s. Mark Shoes Company Private Limited	126.	26725	M/s. Himgiri Hydro Constructions Private Limited
94.	17772	M/s. Cozmik Properties and Industries Private Limited	127.	27067	M/s. Cat Eye Hitech Ceramics Private Limited
95.	20469	M/s. Waila Super Markets Private Limited	128.	13880	M/s. Legendary Chemicals Private Limited
96.	29117	M/s. Sunrise Empires Private Limited	129.	21544	M/s. Sri Health Centre Private Limited
97.	23694	M/s. J. P. Spinners Private Limited	130.	05087	M/s. M. L. Trehan Builders Private Limited
98.	18480	M/s. Ganpati Marketing Services Private Limited	131.	15605	M/s. Aay Pay Minerals Water Private Limited

1	2	3
132.	4755	M/s. G. Dalmia Investments and Finance Private Limited
133.	27310	M/s. Lexdata India Private Limited
134.	24514	M/s. Manish Chemicals Private Limited
135.	12016	M/s. Vaishno Progress Finance and Marketing Co. Private Limited
136.	15630	M/s. Kiran Gold Creations Private Limited
137.	28444	M/s. Genuine Overseas Private Limited
138.	25499	M/s. Orphic Infotech Private Limited
139.	28122	M/s. Rhythmiz Infotainment Private Limited
140.	30391	M/s. Emm Aar Overseas Education & Travels Private Limited
141.	25943	M/s. Chandigarh Forex Private Limited
142.	20318	M/s. Universal Motels and Resorts Private Limited
143.	18563	M/s. Dipin Hire Purchase Private Limited
144.	5753	M/s. Neminath Spinnings Private Limited
145.	20257	M/s. Kaizen International Engineers Limited
146.	10933	M/s. Noble House India Limited
147.	25211	M/s. Ambusha Travels Private Limited
148.	13314	M/s. Diamond Red Tanneries Private Limited
149.	13431	M/s. Ambala Stores Private Limited
150.	25264	M/s. IRD Information Technology Private Limited
151.	21695	M/s. Ridhi Sidhi Constructions Private Limited
152.	31044	M/s. Integral Capital Services Private Limited
153.	18697	M/s. Jai Durga Capital Services Private Limited
154.	17431	M/s. Sanjeev Finlease Private Limited
155.	30127	M/s. Rangila Ji Recorded Media Private Limited
156.	16523	M/s. Shakti Point Works Private Limited
157.	18303	M/s. Strudy Finhome Limited
158.	3425	M/s. Atwal Finance Company Private Limited
159.	9191	M/s. Naaz Investments Private Limited
160.	9428	M/s. Gilson Investments Private Limited
161.	25019	M/s. Disha Consumer Network Marketing Private Limited

1	2	3
162.	3849	M/s. Satya Hire Purchase Private Limited
163.	18769	M/s. Dhuri Finlease Private Limited
164.	19622	M/s. M. and H. Hotels Private Limited
165.	20463	M/s. SSP Traders Private Limited
166.	26187	M/s. R. Square Agencies Private Limited
167.	18694	M/s. Bhawani Shankar Finance & Leasing Private Limited
168.	30465	M/s. Skynet Promoters Private Limited
169.	21396	M/s. Kanwal Hotels and Resorts Private Limited
170.	11355	M/s. Arcon Alloys Private Limited
171.	6246	M/s. Krishna Precision Fastners Private Limited
172.	23996	M/s. Imperial Institute of Computer Science and Software Private Limited
173.	24470	M/s. Spiens Pharma Private Limited
174.	30259	M/s. Pee Gee Informatics Limited
175.	15542	M/s. Paramjit Foods Private Limited
176.	27129	M/s. Chirag Tools and Forgings Private Limited
177.	6775	M/s. Hawla & Chawla Associates Private Limited
178.	12591	M/s. Virgo Electricals Private Limited
179.	6839	M/s. Alamgir Investments Private Limited
180.	07120	M/s. Continental Agro Mills Private Limited
181.	11331	M/s. Sherry Investment Company Private Limited
182.	31068	M/s. Engage Technology Private Limited
183.	26647	M/s. Tornado Exports Private Limited
184.	11332	M/s. Fateh Investent Company Private Limited
185.	28344	M/s. Lohgarh Fuels Private Limited
186.	24328	M/s. Garcha Engineering Private Limited
187.	10275	M/s. Cee Lal Sporting Goods Private Limited
188.	23990	M/s. Quantum Stock Invest Private Limited
189.	19814	M/s. Bawa Makhan Shah Labana Colonizers Private Limited
190.	25151	M/s. CRC Jewellers Private Limited
191.	23811	M/s. Pick-Up Holdings Private Limited

1	2	3
192.	25775	M/s. Ally Marketing Private Limited
193.	8210	M/s. Emsons Apperals Private Limited
194.	26520	M/s. Resurgent India Systems and Software Solutions Private Limited
195.	24393	M/s. Funtimes Amusement Park Private Limited
196.	27011	M/s. Kapurthala Forex Private Limited
197.	18108	M/s. Taj Furnishers Private Limited
198.	29684	M/s. Kalgidhar Properties Private Limited
199.	14348	M/s. Chatha Leasing Private Limited
200.	13941	M/s. Amritsar Leasing Private Limited
201.	14246	M/s. Saidpura Farms Private Limited
202.	20476	M/s. Friends Fincap Private Limited
203.	24102	M/s. Shellco Bikes Private Limited
204.	19521	M/s. Sukumar Service Station Private Limited
205.	27009	M/s. Third Eye Software Solutions Private Limited
206.	30945	M/s. Gobig Intellect Services Private Limited
207.	22842	M/s. Om Infosys Private Limited
208.	23034	M/s. King Infotech Software Solutions Limited
209.	23941	M/s. Next Gen web Education Private Limited
210.	21683	M/s. Malwa Biocoal Private Limited
211.	28411	M/s. R.A.R. Webmart Private Limited
212.	10964	M/s. Shivalik Insulation Private Limited
213.	15585	M/s. Mutual Financial Services Limited
214.	21224	M/s. Space Linkers Private Limited
215.	13530	M/s. Panna Chemicals Private Limited
216.	20422	M/s. Parvesh Steels Private Limited
217.	19360	M/s. Vishal Fun Resorts Private Limited
218.	23671	M/s. A. S. Infoquest Private Limited
219.	25839	M/s. Evergreen Travels Private Limited
220.	08738	M/s. Gold Shields Tea Private Limited
221.	26189	M/s. Skylark Distilleries Private Limited
222.	30233	M/s. New Tone Music Private Limited
223.	30962	M/s. Fiero Tools Private Limited
224.	31291	M/s. Stem Cell King Pharma Private Limited

1	2	3
225.	20733	M/s. Air Command Travels Private Limited
226.	22096	M/s. Le Classic Restaurants & Hotels Private Limited
227.	16124	M/s. R. and P. Investment Private Limited
228.	10995	M/s. Dynasty Landscapes Private Limited
229.	26769	M/s. Pee Dee Solvex Private Limited
230.	30687	M/s. Roving Eyes Securities and Consultants Private Limited
231.	24483	M/s. Trends Telecom Private Limited
232.	18076	M/s. S. R. Components Private Limited
233.	10605	M/s. Himachal Cables Limited
234.	6827	M/s. Pride Foods Limited
235.	8209	M/s. Emm Ell Departmental Store Private Limited
236.	25152	M/s. Aar Bee Pharma Private Limited
237.	11344	M/s. Wordlink Capital Investments Limited
238.	22433	M/s. Chitpurni Sanitations Private Limited
239.	13508	M/s. Goodluck Forgings Private Limited
240.	24167	M/s. Himalayan Foam Private Limited
241.	28658	M/s. Cheena Telecom Private Limited
242.	2567	M/s. Jaico Diesels Private Limited
243.	25911	M/s. Interrelations Networking Private Limited
244.	22621	M/s. Ited Services Private Limited
245.	27520	M/s. Amit Infrastructures Private Limited
246.	16824	M/s. Bhanu Ceramics Private Limited
247.	29229	M/s. Sovi Franchise India Private Limited
248.	23493	M/s. Digest Infotech Private Limited
249.	26119	M/s. Dadra Trading & Allied Private Limited
250.	16328	M/s. Gobind Financial Services Private Limited
251.	10388	M/s. Dahiya Motors Private Limited
252.	19218	M/s. Jalandhar Marketing Private Limited
253.	22449	M/s. Capital Estate & Infrastructures Private Limited
254.	28191	M/s. Skyhigh Callnet Private Limited
255.	27958	M/s. Resurgent India Advertising Co. Private Limited
256.	29632	M/s. V. I. R. Poultries Private Limited

1	2	3
257.	31660	M/s. Sidhu Stud Farms Private Limited
258.	25960	M/s. Tangent Infosolutions Private Limited
259.	15936	M/s. New Classic Ispat Private Limited
260.	23724	M/s. R. S. Foams Private Limited
261.	16198	M/s. D. R. Finlease Private Limited
262.	25061	M/s. Norwest Immigration Consultant Limited
263.	7082	M/s. Punjab Kissan Kheti Udyog Limited
264.	28790	M/s. SBS Agro Products Private Limited
265.	19995	M/s. Country Card India Limited
266.	29215	M/s. One And Only Tour and Travels Private Limited
267.	27761	M/s. MKS Collections Private Limited
268.	14835	M/s. Baron Breweries Private Limited
269.	28787	M/s. Flavours Resorts Private Limited
270.	16199	M/s. Sehgal Financial Services Private Limited
271.	29072	M/s. Soshacom Networks Private Limited
272.	9697	M/s. Pask Finance & Leasing Limited
273.	16858	M/s. Maini Finvest Private Limited
274.	16954	M/s. Fitex Finance Private Limited
275.	27970	M/s. S. K. G. Packagings Private Limited
276.	6677	M/s. B S H Acids Private Limited
277.	22289	M/s. Sarahan Resorts Private Limited
278.	27243	M/s. Ashirwad Productions Private Limited
279.	28377	M/s. Pankh Entertainment Private Limited
280.	16289	M/s. Pride Transformers Private Limited
281.	13808	M/s. Veesha Boxes Private Limited
282.	14138	M/s. B. Tarun Poly (India) Private Limited
283.	29248	M/s. Xpress Relief Health Care Private Limited
284.	28756	M/s. Overseas Jobs Consultants Private Limited
285.	20590	M/s. Zoom Media Vision Private Limited
286.	31323	M/s. Raghunath Securities Private Limited
287.	30605	M/s. Kamlesh Sales Private Limited
288.	16180	M/s. Kanahya Aqua Control Private Limited
289.	9435	M/s. Quick Leasing Private Limited
290.	17022	M/s. Asahi Finvest Private Limited

1	2	3
291.	6096	M/s. Bharat Reinforcement Company Private Limited
292.	10758	M/s. Sunny Metals Private Limited
293.	29795	M/s. Gurkirpa Infrastructure and Consultants Private Limited
294.	30675	M/s. Kinesis Engineering Products Private Limited
295.	4271	M/s. Nayyar Rubber Industries Private Limited
296.	28585	M/s. Rhythlux Electro-Tech Private Limited
297.	25577	M/s. Dot Commerce India Private Limited
298.	22277	M/s. Shivalik Poultury Farms Private Limited
299.	30287	M/s. Shimla Petrochemicals Private Limited
300.	28730	M/s. R S G Metals Private Limited
301.	20843	M/s. Bajaj Trading Private Limited
302.	3763	M/s. Economy Tools Private Limited
303.	28506	M/s. Trans-Giri Hydro Power Private Limited
304.	25594	M/s. Bansal Sarees Private Limited
305.	15160	M/s. Kanwal Capital Services Private Limited
306.	25501	M/s. King Makers Networks Marketing Private Limited
307.	30819	M/s. Karan Telecom Private Limited
308.	27964	M/s. Ashok Goyal Investments Consultants Private Limited
309.	21866	M/s. S S G Computers Private Limited
310.	25028	M/s. Neelam Tools Private Limited
311.	19839	M/s. Sonbros Builders Private Limited
312.	27683	M/s. Satkar Informatics Private Limited
313.	27648	M/s. Sathanu Iron Private Limited
314.	13229	M/s. Softpec Software Private Limited
315.	21618	M/s. Vik Techno Private Limited
316.	17352	M/s. P G R Finvest Private Limited
317.	21092	M/s. Ludhiana Forest India Limited
318.	14793	M/s. Singh Mould Enterprises Private Limited
319.	20180	M/s. Carewell Colonizers Private Limited
320.	26408	M/s. Bhasin Merchants Private Limited
321.	14254	M/s. Resinate Colors Limited

1	2	3	1	2	3
322.	18170	M/s. Bhatia Securities Limited	356.	18654	M/s. Naina Finvest Private Limited
323.	19635	M/s. Vallabh Stampings Private Limited	357.	24829	M/s. Qusoft Systems Private Limited
324.	27524	M/s. G G Packers Private Limited	358.	12233	M/s. Neptune Sales Private Limited
325.	25391	M/s. Palesh Marketing Private Limited	359.	5780	M/s. Fishing Consortium Private Limited
326.	31504	M/s. Sambhav Rings Private Limited	360.	30603	M/s. Magic Aqua Innovations Private Limited
327.	18331	M/s. Cosme Controls and Switchgears Private Limited	361.	19705	M/s. Albion Holdings Private Limited
328.	15333	M/s. Satguru Processors Private Limited	362.	10397	M/s. Gee Vee Hire Purchase Co. Private Limited
329.	31398	M/s. Phagwara Tours & Travels Private Limited	363.	3594	M/s. Kapurthala Hire Purchase Private Limited
330.	22200	M/s. Paliki Palace and Hoteliers Private Limited	364.	19117	M/s. Anant Deposits and Advances Private Limited
331.	26541	M/s. Agarwal Stonex (Indian) Limited	365.	31348	M/s. Grand Pacific Retreat Private Limited
332.	5781	M/s. Tashina Sea Foods Private Limited	366.	7962	M/s. Trilo Agro Industries Limited
333.	14359	M/s. Pandit Detergents Private Limited	367.	19131	M/s. Ugra Education Foundation Private Limited
334.	30065	M/s. Team Force Network Private Limited	368.	18589	M/s. Savena Road Lines Private Limited
335.	31114	M/s. Atwal Impex Private Limited	369.	28569	M/s. Palam Township Private Limited
336.	5761	M/s. Chandigarh Fastners Private Limited	370.	17919	M/s. Basant Finvest Private Limited
337.	4657	M/s. Seco India Private Limited	371.	31752	M/s. Nexgen Teleions Private Limited
338.	24402	M/s. Cert Infotech Private Limited	372.	3363	M/s. Slokum Hotels Private Limited
339.	30777	M/s. Aevin Infrastructure Private Limited	373.	20878	M/s. Saboka Fuels Private Limited
340.	23016	M/s. Jackbro Cottex Private Limited	374.	21347	M/s. Gill and Mann Overseas Private Limited
341.	24418	M/s. Zest Healthcare Private Limited	375.	17568	M/s. Broadway Castings Private Limited
342.	11711	M/s. Jonjua Share Shoppe Private Limited	376.	26760	M/s. Lashkara Entertainment Private Limited
343.	28498	M/s. Simran Callnet Private Limited	377.	27254	M/s. Overseas Career and Nanny Services Private Limited
344.	27922	M/s. S. G. Beverages Private Limited	378.	6902	M/s. Kohli Rane Private Limited
345.	27923	M/s. S. Paras Cold Drinks Private Limited	379.	22715	M/s. Talwar Leasing & Finance Company Private Limited
346.	27272	M/s. Transferase Technologies Private Limited	380.	25209	M/s. Sita Technologies Private Limited
347.	18006	M/s. Breeze Finvest Private Limited	381.	21648	M/s. Internet News Network Private Limited
348.	19278	M/s. Bhawani Gases Private Limited	382.	23158	M/s. Jai Shakti Automobiles Private Limited
349.	29837	M/s. Down Town Buildcon Private Limited	383.	23159	M/s. Jai Shakti Security and Detective Services Private Limited
350.	23218	M/s. Bhawani Alloys Private Limited	384.	11293	M/s. Sukhmani Estates Private Limited
351.	19315	M/s. Ludhiana Finvest Private Limited	385.	23916	M/s. Shiv Satyam Builders Private Limited
352.	29664	M/s. Silver Creek Builders and Developers Private Limited			
353.	11256	M/s. R. V. Apparels Private Limited			
354.	26891	M/s. Nitya Infrastructures Private Limited			
355.	7472	M/s. Neptune Sea Foods Private Limited			

1	2	3
386.	21694	M/s. Umbel Constructions Private Limited
387.	27982	M/s. Akash Networks Datacom Private Limited
388.	29713	M/s. R. G. Buildcon Private Limited
389.	23276	M/s. Spar Investments Private Limited
390.	27861	M/s. Vidushi Real Estates Private Limited
391.	27831	M/s. BSC Steels Private Limited
392.	19785	M/s. S. F. Constructions Private Limited
393.	24626	M/s. Horizon Education Services Private Limited
394.	21283	M/s. Gupta Multipacks Private Limited
395.	27102	M/s. Street Waves Music Private Limited
396.	23965	M/s. Kind Remedies Private Limited
397.	20317	M/s. DK Jain Spinners Limited
398.	3877	M/s. R. G. Pharmaceuticals Co. Private Limited
399.	19751	M/s. Cee Pee Steels Private Limited
400.	19312	M/s. VPN Textiles Private Limited
401.	28922	M/s. New Friends Enclave Private Limited
402.	30666	M/s. Shourya Constructions Private Limited
403.	15992	M/s. Inder Singh and Sons Tools Private Limited
404.	4725	M/s. Amar Nath Mahajan & Sons Private Limited
405.	17229	M/s. Ryls Ceramics India Private Limited
406.	15231	M/s. Vinam Med-Con Private Limited
407.	25836	M/s. Nu Tech India Agro Foods Private Limited
408.	14414	M/s. CHB Enterprises Private Limited
409.	18976	M/s. Som Hospital and Research Centre Private Limited
410.	29815	M/s. KNN Blue Barriers Private Limited
411.	10621	M/s. Jalandhar Press Task News Agency (P.T.A.) Private Limited
412.	11589	M/s. RGP Forgings Private Limited
413.	21410	M/s. Chandigarh Institute of Management & Technology Private Limited
414.	30806	M/s. ARC Advance Medical Solutions Private Limited
415.	17401	M/s. Northland Shoes Private Limited
416.	9410	M/s. Pilot Investments Private Limited

1	2	3
417.	13604	M/s. Montfleury Apparels Private Limited
418.	27192	M/s. Flywel Cargo Private Limited
419.	25370	M/s. Dhaliwal Group Security Services Private Limited
420.	26508	M/s. Maa Kirpa Estate Linkers Private Limited
421.	10815	M/s. Vallabh Alloys Private Limited
422.	22125	M/s. Harshil Wires Private Limited
423.	16437	M/s. Rare Investors & Traders Private Limited
424.	21297	M/s. Sood Finvest Private Limited
425.	20348	M/s. S. V. Techno Engineers Private Limited
426.	13839	M/s. X. L. Chemical Private Limited
427.	22646	M/s. Udoro Agro India Private Limited
428.	31400	M/s. BGS Overseas Private Limited
429.	8982	M/s. Angad Hire Purchase Private Limited
430.	14062	M/s. Lodhi Spinners Private Limited
431.	23424	M/s. Zeppelin Ad World Private Limited
432.	23713	M/s. Vedants Systems Private Limited
433.	14388	M/s. TGR Distributors Private Limited
434.	9332	M/s. Young Farmers Leasing Co. Private Limited
435.	18442	M/s. Himalayan Enterprises India Private Limited
436.	17364	M/s. Plimsoll Marine Services Private Limited
437.	24493	M/s. Rajindra Carbons Private Limited
438.	26471	M/s. JVS Software Private Limited
439.	24866	M/s. Harit Computers & Peripherals Private Limited
440.	17912	M/s. Baikunt Hotels Private Limited
441.	23241	M/s. S. B. Infosys Private Limited
442.	12636	M/s. Spark Wires and Machines Private Limited
443.	29749	M/s. Core Networks Private Limited
444.	8380	M/s. Everest Spinning Mills Private Limited
445.	17201	M/s. Sunfield Hotels Private Limited
446.	19793	M/s. Ambika Tools Limited
447.	19870	M/s. Kanwar Real Estate Limited

1	2	3	1	2	3
448.	7129	M/s. Shakti Weldmesh Industries Limited	477.	16061	M/s. Pal Power Controls Co. Private Limited
449.	18007	M/s. Arrow Finlease Private Limited	478.	29332	M/s. M. S. Bikes Private Limited
450.	29728	M/s. S. S. City Builders and Developers Private Limited	479.	29411	M/s. Nitin Contractor & Real Estates Private Limited
451.	25497	M/s. Soft Solvers Technologies Private Limited	480.	25051	M/s. Dinanagar Advances Studies Private Limited
452.	25149	M/s. Prestige Protection Services Private Limited	481.	7531	M/s. Khosla Rice Mills Private Limited
453.	31260	M/s. Kaiser Exim Private Limited	482.	21141	M/s. Rainbow Tourism Private Limited
454.	10191	M/s. Chug Auto Private Limited	483.	18565	M/s. Ludhiana Shoe Co. Private Limited
455.	18023	M/s. Sterling Deposit & Advances Private Limited	484.	31706	M/s. C. K. Online Services Private Limited
456.	17748	M/s. Multani Computers Private Limited	485.	25530	M/s. Passim Healthcare Private Limited
457.	12844	M/s. Intercommune Housing Development & Finance Co. Limited	486.	19730	M/s. R. G. Shipping & Transport Co. Private Limited
458.	15475	M/s. Saka Exports Private Limited	487.	28153	M/s. Kathuria Real Estates Private Limited
459.	4425	M/s. Jindal Rectifiers Private Limited	488.	30237	M/s. Him Engineering Co. Private Limited
460.	26566	M/s. Sahayata Insurance Services Private Limited	489.	18842	M/s. Arneja Agro Private Limited
461.	31145	M/s. Saffron Associates Private Limited	490.	26963	M/s. Manikaran Electrical & Electronics Private Limited
462.	9287	M/s. Bawa Tyres Private Limited	491.	30775	M/s. Kausha Remedies Private Limited
463.	11283	M/s. Skyline Hire Purchase Private Limited	492.	16623	M/s. Verma Sports Private Limited
464.	8635	M/s. Chandi Hire Purchase Private Limited	493.	19418	M/s. Thakur Malleables Private Limited
465.	27489	M/s. Himachal Caps Private Limited	494.	31189	M/s. Sci Lab Materials Testing Private Limited
466.	5948	M/s. Pritam Putreh Pictures Private Limited	495.	11379	M/s. Bimal Holdings Private Limited
467.	362	M/s. The Hill Motor Agency Private Limited	496.	21659	M/s. Batala Citi Cables Private Limited
468.	18151	M/s. Kaushalya Finlease Private Limited	497.	30438	M/s. Sewa Colonizers and Development Private Limited
469.	27097	M/s. Tangri Financial Consultants Private Limited	498.	26789	M/s. Golden Broadcastings Limited
470.	31144	M/s. Bright Stock Enterprises Private Limited	499.	29899	M/s. Ramraj Infrastructures Private Limited
471.	27967	M/s. Bhambhani Construction & Engineers Private Limited	500.	22110	M/s. R. R. Tourism Promoters Private Limited
472.	3430	M/s. Advance Oils Private Limited	501.	22198	M/s. Cascascade Finance & Exports Private Limited
473.	30654	M/s. Liner Marketing Private Limited	502.	30952	M/s. Ultima Projects Private Limited
474.	30615	M/s. Hiteshwari Builders Private Limited	503.	19968	M/s. H. M. Cold Store Private Limited
475.	27513	M/s. Phoolproof Security Services Private Limited	504.	28751	M/s. Sahil Netcome Private Limited
476.	23799	M/s. Malhi & Basra Immigration & Allied Services Private Limited	505.	13645	M/s. Neisler (India) Pharma Private Limited
			506.	29284	M/s. Mehta Buildcon Private Limited
			507.	21765	M/s. Viridi Constructions Private Limited
			508.	23712	M/s. Dr. Swarshs Health Plans Private Limited



1	2	3
509.	7095	M/s. Century Refractories Private Limited
510.	24078	M/s. Suttlej Glass Works Private Limited
511.	7474	M/s. KTH Hotels and Resorts Private Limited
512.	29506	M/s. Surti Remedies Private Limited
513.	21165	M/s. Ignnex Tours Private Limited
514.	20792	M/s. Swastik Poly Steels Private Limited
515.	17076	M/s. Narendra Vanaspati Limited
516.	16077	M/s. Akal Alloys Private Limited
517.	5530	M/s. M. K. Khaitan and Associates Private Limited
518.	26813	M/s. Banke Behari Agro Mill Private Limited
519.	24972	M/s. Royal Merchants Private Limited
520.	22668	M/s. Parmar Overseas Private Limited
521.	22100	M/s. SM Infosys Private Limited
522.	25723	M/s. Vertex Alcons Private Limited
523.	27677	M/s. BMG Agro Tech and Marketing Private Limited
524.	18806	M/s. Sarsar Urban Housing Development Limited
525.	11079	M/s. Ram Woollens Private Limited
526.	26695	M/s. Alfa Buttons Private Limited
527.	18974	M/s. TTS Marketing Private Limited
528.	13824	M/s. Sahdev Exports Private Limited
529.	25852	M/s. Advanced Academy of Dental Education Private Limited
530.	31128	M/s. Precious Worldwide Trading Private Limited
531.	25845	M/s. Avenue Dental Care Private Limited
532.	25851	M/s. Guru Softdent Private Limited
533.	15281	M/s. Kamal Surgicals Private Limited
534.	27605	M/s. North West Real Estates Private Limited
535.	11986	M/s. Informative Professional Studies Private Limited
536.	25128	M/s. Body Tech Nutrition Private Limited
537.	19309	M/s. Neelkanth Leathers Private Limited
538.	14619	M/s. Grivar Cements Private Limited
539.	30740	M/s. Samed Pharmaceuticals Private Limited

1	2	3
540.	15378	M/s. Chaman Surgicals Private Limited
541.	26849	M/s. Satija Hotels Private Limited
542.	24433	M/s. United Vision Networks Private Limited
543.	19859	M/s. Life Line Management Services Private Limited
544.	31157	M/s. Uniwide Exports Private Limited
545.	7049	M/s. Deepsons Pharmaceuticals Private Limited
546.	29134	M/s. Siti Hospital and Nursing Home Private Limited
547.	15077	M/s. Nyka Power Devices Private Limited
548.	9288	M/s. B. K. Deposits and Advances Private Limited
549.	31093	M/s. Kishore Development and Estates Private Limited
550.	12099	M/s. Champion Auto Sales Private Limited
551.	27643	M/s. Genomax Pharmaceuticals Private Limited
552.	15154	M/s. M. S. Hire Purchase Private Limited
553.	12326	M/s. S. D. Sharma & Associates Private Limited
554.	7393	M/s. Creation Financiers Private Limited
555.	9140	M/s. Himachal Deposits & Advances Private Limited
556.	17500	M/s. G. B. Engineering Private Limited
557.	6130	M/s. Sunny Hire Purchase Private Limited
558.	18679	M/s. Jaspreet Hire Purchase Private Limited
559.	9179	M/s. Avishkar Investment Co. Private Limited
560.	21462	M/s. Formulae Links Private Limited
561.	24209	M/s. Daata Technologies Private Limited
562.	30386	M/s. Dinesh Garg Contractors Private Limited
563.	23734	M/s. Alankar Communication Limited
564.	24990	M/s. Jalandhar Online Cable Network Private Limited
565.	6336	M/s. Premier Flooring Private Limited
566.	29298	M/s. Ashwani Pharmaceuticals Private Limited
567.	23841	M/s. Kutumb Constructions Private Limited
568.	23698	M/s. Chandralok Stores Private Limited
569.	25062	M/s. Sinecure Marketing Private Limited

1	2	3	1	2	3
570.	14519	M/s. Protech Surveyors Private Limited	602.	18701	M/s. Him Estate Chit & Finvest Limited
571.	16748	M/s. Elysun Hotels Private Limited	603.	15237	M/s. Pearls Fats and Oil Private Limited
572.	25291	M/s. Chawla Colonisers Private Limited	604.	15302	M/s. Cool Home Finance Private Limited
573.	17377	M/s. Progressive Desingers Private Limited	605.	31090	M/s. Shree Vaibhav Laxmi Diamond & Jeweller Private Limited
574.	30825	M/s. Angel Fashions Private Limited	606.	27581	M/s. Dadwal Construction Private Limited
575.	30872	M/s. Destination Consultants Private Limited	607.	21420	M/s. Sanjeevani Hospital Private Limited
576.	16660	M/s. Supreme Cycles Private Limited	608.	27334	M/s. Arya Insurance Services and Consultants Private Limited
577.	22559	M/s. Khandairy and Allied Products Private Limited	609.	21346	M/s. Creative Nature Furnishing Private Limited
578.	20243	M/s. Roxy Knitfab Private Limited	610.	23690	M/s. Netspace Internet Private Limited
579.	15432	M/s. K. R. Deposits & Advances Private Limited	611.	29981	M/s. Skynet Housing Private Limited
580.	31361	M/s. Shiv Shanker Automobiles Private Limited	612.	16752	M/s. Parashar Financiers India Limited
581.	31453	M/s. Anglow-Soft Tech Private Limited	613.	4514	M/s. Parkash Woolen Mills Private Limited
582.	26882	M/s. Acme Worldwide Adventures Private Limited	614.	25323	M/s. Elite Life Informations Private Limited
583.	5261	M/s. Tripati Farming Co. Private Limited	615.	9530	M/s. Satija Leasing Private Limited
584.	14725	M/s. Ludhiana Communication Networks Private Limited	616.	25560	M/s. KSB Electro Projects Private Limited
585.	27090	M/s. Elegant Colonisers Private Limited	617.	22374	M/s. Anand Promoters and Real Estates Private Limited
586.	10839	M/s. Hemkunt Hire Purchase Private Limited	618.	30858	M/s. BKR Apparels Exim Private Limited
587.	30052	M/s. Greenline Logistics Private Limited	619.	12582	M/s. Hari Dev Chemicals Private Limited
588.	21445	M/s. Indopan Exports Private Limited	620.	7327	M/s. Amritsar Machines Private Limited
589.	30621	M/s. Gee Ess Apex Exports Private Limited	621.	1940	M/s. Bhatinda Stores Private Limited
590.	18639	M/s. Dass Agro Private Limited	622.	30105	M/s. Gayord Resorts Private Limited
591.	30440	M/s. Pinrhous Resorts Private Limited	623.	23068	M/s. Beni Softwares Private Limited
592.	8351	M/s. Ludhiana Leasing & Investment Co. Private Limited	624.	30703	M/s. Nestwave Wireless India Limited
593.	5686	M/s. Appu Financiers Private Limited	625.	16813	M/s. Roopian Finance & Investments Private Limited
594.	24677	M/s. Daffiduk Clothing Private Limited	626.	14224	M/s. M. S. Eldee Press Metals Private Limited
595.	24161	M/s. Jumbo Itec Limited	627.	16976	M/s. B. S. Securities Private Limited
596.	14324	M/s. Blooming Overseas Private Limited	628.	23532	M/s. Century Dotcom Private Limited
597.	16154	M/s. Wealth Wise Finance Limited	629.	28146	M/s. Rurka Builders Private Limited
598.	12060	M/s. Anju Chemicals Private Limited	630.	31150	M/s. P. B. S. Builders Private Limited
599.	18787	M/s. Ludhiana Hotels and Estates Private Limited	631.	26367	M/s. Quark Services Private Limited
600.	25241	M/s. Amity Petroleum Private Limited	632.	28144	M/s. Dholewal Auto Helpline Private Limited
601.	19246	M/s. Ramesh Inder Singh Financial Services Private Limited	633.	26606	M/s. Sky Centre Travel Express and Facilities Private Limited

1	2	3
634.	17982	M/s. Sartaj Surgicals Private Limited
635.	25829	M/s. Poly Eye Hospital Private Limited
636.	8125	M/s. Raja Synthetics Private Limited
637.	13781	M/s. Kapsons Research Laboratories Private Limited
638.	30776	M/s. Frestone Software Solutions Private Limited
639.	27332	M/s. Parkash Mercantile Co. Private Limited
640.	19609	M/s. Emmessaar Packages Private Limited
641.	25700	M/s. RHT Import & Export Private Limited
642.	19610	M/s. Akash Multipack Private Limited
643.	28123	M/s. P. K. Build-Con Private Limited
644.	9884	M/s. Samdarsh Real Estates Private Limited
645.	27802	M/s. Kestrel Electronics Private Limited
646.	16037	M/s. Munjal Real Estates and Financial Services Private Limited
647.	10106	M/s. Ants Flooring Private Limited
648.	5621	M/s. Jyotik Automotive Transmission Limited
649.	19183	M/s. Netland Information Private Limited
650.	18054	M/s. Newman Valves Private Limited
651.	26199	M/s. Sama Education Private Limited
652.	3005	M/s. Fairland Colonisers and Financiers Private Limited
653.	28876	M/s. Ghai Aviations Private Limited
654.	31340	M/s. Suvidha Estate Private Limited
655.	8047	M/s. Mani Woolen Mills Private Limited
656.	19500	M/s. MMR Safety and Security Consultants Private Limited
657.	26898	M/s. Collumbia Medico Ancillaries Private Limited
658.	12356	M/s. Pratap Credits and Holdings Private Limited
659.	31276	M/s. Perfect Outsourcing Services Private Limited
660.	1875	M/s. Northern India Textiles Mills Private Limited
661.	31097	M/s. DSK Builders Private Limited
662.	18123	M/s. Spaceline Carriers Private Limited
663.	25743	M/s. Deeksha Infotech Private Limited

1	2	3
664.	8618	M/s. Parmar Circuts Breaker Private Limited
665.	5133	M/s. Devindra Fastners Private Limited
666.	2900	M/s. Dhiman Iron & Steel Co. Private Limited
667.	28401	M/s. Virat Herbs Private Limited
668.	28481	M/s. Angel Lifesciences Private Limited
669.	27690	M/s. Momi Impex Private Limited
670.	18182	M/s. Sukhynav Informatics Private Limited
671.	19543	M/s. Shiv Maha Shakti Shali Steels Private Limited
672.	7366	M/s. Munisha Cycles Private Limited
673.	26462	M/s. Sanskar Enterprises Private Limited
674.	23097	M/s. Saran Estate Private Limited
675.	29486	M/s. Maa Mansa Projects Private Limited
676.	27796	M/s. Simron Packaging Private Limited
677.	21281	M/s. Remedia Herbs Private Limited
678.	25243	M/s. Alloran Aromatic Oils Private Limited
679.	12650	M/s. Mashoo Resorts Private Limited
680.	19111	M/s. Ocean Finvest Private Limited
681.	24232	M/s. K. C. Palace Private Limited
682.	16293	M/s. MV Trading Company Private Limited
683.	29092	M/s. Northern Commodities & Trading Services Private Limited
684.	25506	M/s. Saldi Bansal Consoultants Private Limited
685.	7842	M/s. Classic Packages Private Limited
686.	17034	M/s. Zigma Engineering Private Limited
687.	15438	M/s. P. G. Motors and Hire Purchase Private Limited
688.	14591	M/s. Fascination Exports Private Limited
689.	25395	M/s. Chamba Manali Goods Transport Company Private Limited
690.	26672	M/s. V. C. Alloys (India) Private Limited
691.	12231	M/s. Punjab Syndicate Finance Private Limited
692.	30616	M/s. Holy City Real Estate and Developers Private Limited
693.	16781	M/s. Intercool Aircon Private Limited
694.	28228	M/s. Zenith Radio (Punjab) Private Limited
695.	17218	M/s. Vee Emm Iron and Castings Private Limited
696.	14403	M/s. Bikram Hire Purchase Private Limited

1	2	3
697.	7425	M/s. Jay Jay Products Private Limited
698.	23767	M/s. K. M. Unique Infornet Private Limited
699.	23586	M/s. ELF Bath Fittings Private Limited
700.	23235	M/s. Nutime Bath Fittings Private Limited
701.	15304	M/s. Gazebo Cycles Limited
702.	8106	M/s. Roadmaster International Limited
703.	15905	M/s. Jassal Estates Private Limited
704.	30492	M/s. Mahesh Indospin Limited
705.	16841	M/s. S. N. G. Properties Private Limited
706.	19816	M/s. Sai Welding Technology India Private Limited
707.	30669	M/s. Abhey Power Private Limited

RAJSINGH  
Registrar of Companies  
Punjab, H.P & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Santhi Cranes Private Limited

Ahmedabad-380013, the 19th November 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00073/  
17189—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Santhi Cranes Private Limited unless cause is shown  
to the contrary, will be struck off the register and the said  
company will be dissolved.

KAMAL HARJANI  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shah Fiscal Services Private Limited

Ahmedabad-380013, the 19th November 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00111/  
17234—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Shah Fiscal Services Private Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off the register and the  
said company will be dissolved.

KAMAL HARJANI  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Indus Softlinks Private Limited

Ahmedabad-380013, the 22nd November 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00065/  
17442—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Indus Softlinks Private Limited unless cause is shown  
to the contrary, will be struck off the register and the said  
company will be dissolved.

KAMAL HARJANI  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Acharya Infotech Private Limited

Ahmedabad-380013, the 22nd November 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00046/  
17502—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Acharya Infotech Private Limited unless cause is shown  
to the contrary, will be struck off the register and the said  
company will be dissolved.

V. S. HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kumkum Stock Broker Private Limited

Ahmedabad-380013, the 22nd November 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00051/  
17505—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Kumkum Stock Broker Private Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off the register and the  
said company will be dissolved.

V. S. HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Suraddha Cap-Lease Private Limited

Ahmedabad-380013, the 22nd November 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00306/  
17445—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)  
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of

M/s. Suraddha Cap-Lease Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. S. HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Abad Land Organisers Private Limited

Ahmedabad-380013, the 22nd November 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00310/17448—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Abad Land Organisers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. S. HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kaushtubh Credit and Holdings Private Limited

Ahmedabad-380013, the 22nd November 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00312/17451—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kaushtubh Credit and Holdings Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. S. HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Cyber Technoproducts Private Limited

Ahmedabad-380013, the 22nd November 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00313/17454—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Cyber Technoproducts Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. S. HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sun-Shine Real Estate Private Limited

Ahmedabad-380013, the 22nd November 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00314/17457—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sun-Shine Real Estate Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. S. HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ashwi Organisers Private Limited

Ahmedabad-380013, the 22nd November 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00315/17460—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ashwi Organisers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. S. HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sorathia Roller Private Limited

Ahmedabad-380013, the 22nd November 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00317/17463—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sorathia Roller Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. S. HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Jhaveri Ayu-Pharma Private Limited

Ahmedabad-380013, the 22nd November 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00318/17466—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Jhaveri Ayu-Pharma Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. S. HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rishabh Polypack Private Limited

Ahmedabad-380013, the 22nd November 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00319/17469—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rishabh Polypack Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. S. HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ruhr Pharmaceuticals Private Limited

Ahmedabad-380013, the 22nd November 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00320/17472—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ruhr Pharmaceuticals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. S. HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Maharathi Oil Mills Private Limited

Ahmedabad-380013, the 22nd November 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00031/7499—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Maharathi Oil Mills Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. S. HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Harichandan Hospitals Private Limited

Ahmedabad-380013, the 22nd November 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00055/17508—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Harichandan Hospitals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. S. HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sea Pold Pharmaceuticals and Chemicals Private Limited

Ahmedabad-380013, the 22nd November 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/000321/17475—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sea Pold Pharmaceuticals and Chemicals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. S. HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Dhvaj Electrotechnics Private Limited

Ahmedabad-380013, the 22nd November 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00322/17478—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Dhvaj Electrotechnics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. S. HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bivik Orna Private Limited

Ahmedabad-380013, the 22nd November 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00323/17481—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bivik Orna Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. S. HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Nisha Trading Gujarat Private Limited

Ahmedabad-380013, the 22nd November 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00324/117484—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Nisha Trading Gujarat Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. S. HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Hero Marketing and Finance Private Limited

Ahmedabad-380013, the 22nd November 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00325/117487—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Hero Marketing and Finance Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. S. HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Pinnacle Project and Infrastructure Private Limited

Ahmedabad-380013, the 22nd November 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00326/117490—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Pinnacle Project and Infrastructure Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. S. HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ambuja Sizing Private Limited

Ahmedabad-380013, the 22nd November 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00327/117493—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ambuja Sizing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. S. HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Janak Fincorp Private Limited

Ahmedabad-380013, the 22nd November 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00328/117496—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Janak Fincorp Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. S. HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Apollo Remedies Private Limited

Ahmedabad-380013, the 22nd November 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00049/117538—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Apollo Remedies Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. S. HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shoonyam Information Systems Private Limited

Ahmedabad-380013, the 22nd November 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00029/117535—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of

M/s. Shoonyam Information Systems Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. S. HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. SKD Investment Private Limited

Ahmedabad-380013, the 22nd November 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00052/117532—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. SKD Investment Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. S. HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shreya Greenfield Projects Private Limited

Ahmedabad-380013, the 22nd November 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00058/17509—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shreya Greenfield Projects Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. S. HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Raajendra Classes Private Limited

Ahmedabad-380013, the 22nd November 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00025/17526—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Raajendra Classes Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. S. HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Nexus Network Cellular Private Limited

Ahmedabad-380013, the 22nd November 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00026/117523—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Nexus Network Cellular Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. S. HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Govindam Chlorodychem Private Limited

Ahmedabad-380013, the 22nd November 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00044/117511—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Govindam Chlorodychem Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. S. HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Oyster Impex Private Limited

Ahmedabad-380013, the 22nd November 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00037/117514—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Oyster Impex Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. S. HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rapport Marketing Private Limited

Ahmedabad-380013, the 22nd November 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00040/117517—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the



expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rapport Marketing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. S. HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Desmark Formulation Private Limited

Ahmedabad-380013, the 22nd November 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00034/117520—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Desmark Formulation Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. S. HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and  
of the following Companies

Kochi-682021, the 9th November 2010

No. 560(5)/SM/22/RoC-Ekm/17919/2010—Notice is hereby given pursuant to sub-section 5 of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following companies have this day been struck off from the register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	6805	M/s. Cochin Chetak Road Lines Private Limited
2.	7139	M/s. Cochin Builders and Estates Private Limited
3.	7202	M/s. Kanjickal Credits and Investments Private Limited
4.	7211	M/s. Dhananjaya Hire Purchasing and Leasing Finance Co. Private Limited
5.	7251	M/s. Dawn Estates and Edifices Private Limited
6.	7366	M/s. Anamudi Mountain Top Resorts Private Limited
7.	7598	M/s. Sofiya Steel Re-Rolling Mills Private Limited

1	2	3
8.	7814	M/s. Sense 6 Films Private Limited
9.	7984	M/s. A and S Communications and Systems Private Limited
10.	7993	M/s. Harmet Tours and Travels Private Limited
11.	8060	M/s. Adhunik Credit and Securities Private Limited
12.	8063	M/s. Athani Kuries and Loans Private Limited
13.	8065	M/s. Sreenivas Condiments Private Limited
14.	8128	M/s. Techno Marine Equipments Private Limited
15.	8228	M/s. Devi Krishna Real Estates Private Limited
16.	8268	M/s. Oasis Aqua Projects India Private Limited
17.	8273	M/s. Capital Builders Private Limited
18.	8316	M/s. Manna and Company Private Limited
19.	8395	M/s. Land Master Developers and Builders Private Limited
20.	8463	M/s. Horizon Fabrics Private Limited
21.	8505	M/s. Hamali Plantations Private Limited
22.	8576	M/s. Bursar Finance and Investments Private Limited
23.	8583	M/s. Akshaya Projects (India) Private Limited
24.	8645	M/s. Rubicon Resorts Private Limited
25.	8700	M/s. Hi Fi Appliances Private Limited
26.	8708	M/s. Images Diagnostic Centre Private Limited
27.	8775	M/s. Transcom Plastics Private Limited
28.	8877	M/s. Praxis Securities Private Limited
29.	8898	M/s. Rise Capital Services Private Limited
30.	8920	M/s. Marakamparambil Credits and Investments Private Limited
31.	8972	M/s. Soul India Farms Private Limited
32.	8982	M/s. H Y S Foundations Private Limited
33.	9008	M/s. Viyyur Kuries Private Limited
34.	9036	M/s. Front Line Marketing Private Limited
35.	9041	M/s. Gemini Contractors and Transports Private Limited

1	2	3	1	2	3
36.	9047	M/s. Instant Agro Products Private Limited	65.	10236	M/s. G S Group of Companies Private Limited
37.	9098	M/s. Scans Securites Private Limited	66.	10301	M/s. Varadanam Chits and Finance Private Limited
38.	9196	M/s. Glore Plantations Private Limited	67.	10338	M/s. Anagha Plantations Private Limited
39.	9236	M/s. Stallion Plantations Private Limited	68.	10352	M/s. Poojitha Chitties and Hire Purchase Private Limited
40.	9268	M/s. Lejiv Commodities Private Limited	69.	10353	M/s. Beetall Private Limited
41.	9276	M/s. Sunimony Plantation Private Limited	70.	10354	M/s. Dheeraj Kuries and Loans Private Limited
42.	9309	M/s. Thottungal Chits and Investments Private Limited	71.	10488	M/s. Mallaya Investments and Kuries Private Limited
43.	9314	M/s. Grip India Properties Private Limited	72.	10561	M/s. Dhana Swaroopa and Social Welfare Centre Private Limited
44.	9324	M/s. Kerala Card Private Limited	73.	10641	M/s. Thesis Leasing and Hirepurchasing Private Limited
45.	9329	M/s. JNV Stocks and Shares Private Limited	74.	10732	M/s. Empeeeyel Investments Private Limited
46.	9339	M/s. Swarashtra Finance Private Limited	75.	10890	M/s. Manola Chits and Finances Private Limited
47.	9407	M/s. Tamil Nadu Synthetics Private Limited	76.	11035	M/s. Souhrudham Kuries and Loans Private Limited
48.	9483	M/s. Al Faleh Cargo Links Private Limited	77.	11041	M/s. Tara Links Private Limited
49.	9537	M/s. Sanathana Herbals and Foods Private Limited	78.	11059	M/s. I G P Financiers Private Limited
50.	9686	M/s. Flints Retreat Private Limited	79.	11075	M/s. Transmed Distributers Private Limited
51.	9688	M/s. Walayar Chits and Finance Private Limited	80.	11189	M/s. Sree Bhagavathy Enterprises Private Limited
52.	9755	M/s. Kerala Trade Links Private Limited	81.	11231	M/s. Magna Trading Company Private Limited
53.	9768	M/s. Veejeyem Plantations and Real Estates Private Limited	82.	11248	M/s. Dasco Holdings Private Limited
54.	9798	M/s. Kottappuram Leasing and Financing Private Limited	83.	11264	M/s. Amarapuri Chits and Finance Private Limited
55.	9799	M/s. Vishnu Financial Services Private Limited	84.	11356	M/s. Viswas Kuries and Loans Private Limited
56.	9831	M/s. Greygold Construtions Private Limited	85.	11514	M/s. Loyal Freight Shipping Agencies Private Limited
57.	9840	M/s. Cochin Development Syndicate Private Limited	86.	11646	M/s. Trendz Projects Private Limited
58.	9895	M/s. Nagamma Plantations Private Limited	87.	11838	M/s. Rich Blend Tea Private Limited
59.	9969	M/s. Sieco Private Limited	88.	12495	M/s. Sathyam Marine Exports Private Limited
60.	10067	M/s. Edayar Holdings and Investments Private Limited	89.	12564	M/s. Life Cards and Services Private Limited
61.	10117	M/s. M K P Latex Private Limited	90.	12567	M/s. Hotel Harbourview Private Limited
62.	10133	M/s. Suryakiran Trades and Leasing Private Limited			
63.	10169	M/s. Tidal Marketing and Sales Private Limited			
64.	10216	M/s. Parvathy Kannan Credit and Investments Private Limited			

1	2	3
91.	12665	M/s. Konkan Organic Farms and Plantations Private Limited
92.	12744	M/s. Akshaya Services Private Limited
93.	12752	M/s. Proxima Polymers Private Limited
94.	12791	M/s. APS Edibles Private Limited
95.	12847	M/s. Pampady Foods Private Limited
96.	12859	M/s. Valfor Info Systems Private Limited
97.	12992	M/s. Goodluck Services Private Limited
98.	13068	M/s. Golden Sparrow Films Private Limited
99.	13256	M/s. Best Millennium Trade Links Private Limited
100.	13548	M/s. Vighneswar Foods Private Limited
101.	13729	M/s. Dale and Hill Exports Private Limited
102.	13747	M/s. Interfinish Interior Solutions Private Limited
103.	13985	M/s. Connect Kerala.Com Private Limited
104.	14144	M/s. Ideal Farms Private Limited
105.	14228	M/s. Highness Properties Private Limited
106.	14253	M/s. Pranavam Holidays Private Limited
107.	14282	M/s. Malabar Tools Private Limited
108.	14310	M/s. Innovate Fortune Remedies Private Limited
109.	14342	M/s. Travancore Impex Private Limited
110.	14370	M/s. Indecore Architechts and Builders Private Limited

K. G JOSEPH JACKSON  
Registrar of Companies  
Kerala

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Saravanaa Steel Private Limited

Chennai-600034, the 11th November 2010

No. 69079/560(5)/2010—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Saravanaa Steel Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. C. DAVEY  
Registrar of Companies  
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. HV Intelligent Solutions Private Limited

Chennai-600034, the 11th November 2010

No. 72706/560(5)/2010—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that the name of M/s. HV Intelligent Solutions Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. C. DAVEY  
Registrar of Companies  
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Gremach Financial Services Limited

Chennai-600034, the 11th November 2010

No. 28620/560(5)/2010—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Gremach Financial Services Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. C. DAVEY  
Registrar of Companies  
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Apex Oxalates Private Limited

Chennai-600034, the 11th November 2010

No. 17251/560(5)/2010—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Apex Oxalates Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. C. DAVEY  
Registrar of Companies  
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Societe Nivernaise De Metallurgie Private Limited

Chennai-600034, the 11th November 2010

No. 68195/560(5)/2010—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Societe Nivernaise De Metallurgie Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. C. DAVEY  
Registrar of Companies  
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Righttech Outsourcing Systems Distribution Private Limited

Chennai-600034, the 11th November 2010

No. 70373/560(5)/2010—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Righttech Outsourcing Systems

Distribution Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. C. DAVEY  
Registrar of Companies  
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Future Bio Fertilizer Private Limited  
Chennai-600034, the 11th November 2010

No. 69220/560(5)/2010—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Future Bio Fertilizer Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. C. DAVEY  
Registrar of Companies  
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. IOH Textiles Limited

Chennai-600034, the 11th November 2010

No. 30292/560(5)/2010—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. IOH Textiles Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. C. DAVEY  
Registrar of Companies  
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Morningstar Research Private Limited

Chennai-600034, the 11th November 2010

No. 64533/560(5)/2010—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Morningstar Research Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. C. DAVEY  
Registrar of Companies  
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Brain Carve Child Development Private Limited

Chennai-600034, the 11th November 2010

No. 66572/560(5)/2010—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Brain Carve Child Development Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. C. DAVEY  
Registrar of Companies  
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands